

प्रथम संस्करण  
संवत् २०१५

मानव सेवा संघ, वृन्दावन  
द्वारा  
सर्वाधिकार सुरक्षित ।

मुद्रक—  
हरि मोहन इ० प्रिंटिंग प्रेस.  
पुरानी बस्ती. जयपुर

# मानव की माँग

## विषय सूची

संख्या	विषय	पृष्ठ
१.	प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग	१
२.	सुन्दर समाज का निर्माण	१३
३.	अपना कल्याण चाह-रहित होने में है	३१
४.	अचाह-पद प्राप्त करने के साधन—	४७
	(१) सर्व हितकारी प्रवृत्ति तथा वासना-रहित निवृत्ति	
५.	(२) बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर	६१
६.	(३) अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति	७७
७.	(४) संयोग में वियोग का दर्शन	६७
८.	(५) कर्त्तव्यपरायणता	१११
९.	(६) अपने प्रति न्याय तथा दूसरे के प्रति क्षमा तथा प्रेम	१२३
१०.	भुक्ति, मुक्ति और भक्ति	१३४
११.	निर्दोष और निर्द्वैत जीवन ही मानव जीवन है	१४४
१२.	मुक्त किस से होना है ?	१५२
१३.	कर्त्ता और कर्म—मान्यता का प्रभाव	१६५
१४.	निर्मलता की प्राप्ति	१७६
१५.	सुख का सदुपयोग सेवा है	१८६
१६.	कर्म, विवेक और विश्वास	१९२
१७.	परिस्थितियाँ	२०१

प्रत्येक विषय को अपने स्थान पर स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक ही थी।

मानव के लिए लक्ष्य की निष्ठा बड़े ही महत्त्व की वस्तु है। लक्ष्य की निष्ठा से ही मानव का सम्पूर्ण जीवन साधन बन जाता है। जब तक साधन जीवन का केवल एक अंग रहता है, तब तक मानव अपने किसी साधन विशेष में ही साध्य-बुद्धि कर, लक्ष्य से च्युत हो जाता है। साधन-युक्त जीवन ही मानव-जीवन की वास्तविक परिभाषा है, और वास्तविक साधन तभी आरम्भ हुआ समझना चाहिए जब समस्त जीवन साधन हो जाय। यह पूज्य स्वामीजी ने खूब ही स्पष्ट किया है।

साधन-निर्माण में बहुतेरे साधक अपने को परिस्थितियों के कारण लाचार समझते हैं। इस घोर एवं व्यापक भूल पर पूज्य स्वामीजी ने अनोखा प्रकाश डाला है और यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक परिस्थिति वास्तव में साधन-सामग्री ही है, चाहे वह अनुकूल से अनुकूल हो या प्रतिकूल से प्रतिकूल। अतः प्राप्त विवेक तथा बल के सदुपयोग द्वारा प्रत्येक परिस्थिति साधक को लक्ष्य तक पहुँचाने में समर्थ है। और कर्त्तव्य-पालन के लिए प्रत्येक मानव स्वतन्त्र है।

कर्म-मार्ग, भक्ति-मार्ग और ज्ञान-मार्ग का भी पूज्य स्वामीजी ने अनुपम विश्लेषण किया है और तीनों मार्गों का बड़ा ही सुन्दर समन्वय किया है। साधक के लिए संसार केवल कर्त्तव्य-भूमि है और अपना कर्त्तव्य दूसरों के अधिकारों की रक्षा में ही निहित है। इस

सत्य के विवेचन द्वारा 'सेवा' की एक नवीन परिभाषा और सेवा का एक नवीन क्षेत्र हमारे सामने उपस्थित किया है। इतना ही नहीं, व्यक्ति का कल्याण और सुन्दर समाज का निर्माण, इन दोनों विचार-धाराओं के महत्त्व को स्वीकार करते हुए, उनका उत्कृष्ट विडलेषण किया है। 'जिस प्रकार सुन्दर पुष्प से ही घाटिका सुन्दर होती है, उसी प्रकार सुन्दर व्यक्तियों से ही समाज सुन्दर होता है'।

उपर्युक्त विचारधाराओं के अतिरिक्त इन व्याख्यानों में और भी कई विचार पूज्य स्वामीजी ने ऐसे प्रस्तुत किये हैं जो अपनी मौलिकता के कारण निस्सन्देह दर्शनशास्त्र में विशेष स्थान प्राप्त करेंगे और तत्त्वज्ञान के जिज्ञासुओं को अत्यन्त आकर्षक एवं सजीव लगेगे।

विभिन्न व्याख्यानों को दिए गए शीर्षक केवल सांकेतिक हैं, वैसे प्रत्येक व्याख्यान में प्रसंगवश कई सिद्धान्तों का निरूपण हुआ है। इस पुस्तक के विषय में अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं। पुस्तक स्वयं अपना परिचय देगी और पाठक मार्गदर्शन प्राप्त कर कृतकृत्य होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

जयपुर,  
दीपावली, सम्वत् २०११ वि०

मदन मोहन वर्मा  
( मेन्बर, राजस्थान पब्लिक  
सर्विस कमीशन )



मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव,

मानव-जीवन बड़े ही महत्त्व की वस्तु है। मानव में वीज-रूप में मानवता विद्यमान है, उसे किसी अप्राप्त योग्यता की आवश्यकता नहीं है; किन्तु प्राप्त योग्यता के सदुपयोग की आवश्यकता है।

इस दृष्टिकोण को जब हम अपने सामने रखते हैं, तो हमारे जीवन में एक नवीन आशा का संचार होता है और निराशा रूपी पिशाचिनी, जो जीवन के साथ है, वह भाग जाती है। हम अपनी कर्तव्य-परायणता से सुगमतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें उसी जीवन का नाम मानव-जीवन है। इस बात की कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि हमारी साधन-सामग्री कैसी है; क्योंकि प्राकृतिक नियम के अनुसार सभी परिस्थितियों में साधन का निर्माण हो सकता है। हमें तो केवल यह देखना चाहिये कि हम अपनी प्राप्त परिस्थिति का कितना आदरपूर्वक सदुपयोग करते हैं। परिस्थितियों का सदुपयोग ही वास्तव में जीवन का आदर है।

आदर का अर्थ ममता तथा मोह नहीं है। आदर का अर्थ है—परिस्थितियों को प्राकृतिक न्याय मानना या आस्तिक दृष्टि से अपने परम प्रेमानन्द का आदेश तथा नदेश जानना। यह भली-

भाँति जान लेना चाहिये कि प्राकृतिक न्याय में प्राणी का हित तथा उन्नति ही निहित है, अवनति नहीं। इसलिये प्रत्येक परिस्थिति का आदर करना ही उचित है। हमारे और आपके सामने इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारी बहुत सी शक्ति अप्राप्त परिस्थिति के आह्वान तथा चिन्तन में ही व्यर्थ व्यय हो जाती है, जिससे हम प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर पाते। अतः अप्राप्त परिस्थिति का व्यर्थ चिन्तन त्याग कर शक्ति-संचय करें और उसके द्वारा वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग कर डालें। यह नियम है कि वर्तमान के सदुपयोग से ही भविष्य उज्ज्वल बनता है, व्यर्थ चिन्तन से नहीं। परिस्थिति का सदुपयोग कर्म से होता है। परिस्थितियों के चिन्तन से तो उनमें आसक्ति ही उत्पन्न होती है। अतः परिस्थितियों का चिन्तन कोई साधन नहीं, अपितु अनेक दोषों की उत्पत्ति का हेतु है। कर्म का सम्बन्ध वर्तमान से होता है और चिन्तन का भूत और भविष्य से। चिन्तन तो केवल उसी का करना है जिसकी उपलब्धि कर्म से न हो। अपने कर्तव्य द्वारा परिस्थितियों का सदुपयोग न करने से परिस्थितियों में, अवस्थाओं में और वस्तुओं में आसक्ति दृढ़ हो जाती है, जो साधन का निर्माण नहीं होने देती। हमारा वास्तविक जीवन सभी वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियों से अतीत है। इस जीवन से देशकाल की दूरी नहीं है। हम निज-ज्ञान का अनादर करके उस अपने निज जीवन से विमुख हो गये हैं। विमुखता एक मात्र प्रमाद है और न जानने की दूरी उत्पन्न करती है। यह रहस्य जान लेने पर हम परिस्थितियों से असंग होकर अपने

वास्तविक जीवन से अभिन्न हो जाते हैं। अथवा यों कहिये कि सभी परिस्थितियों से विमुख होकर अपने लक्ष्य के सम्मुख हो जाते हैं। परिस्थितियों के सदुपयोग अथवा उनसे विमुख होने में प्रत्येक भाई-बहिन सर्वदा स्वतंत्र हैं, कारण कि परिस्थितियों की आसक्ति केवल अविचार सिद्ध है, जो निज ज्ञान का आदर करने से स्वतः मिट जाती है और हम सुगमतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं।

साधन रूप जीवन ही मानवता है जो सब भाई-बहिनों में बीज रूप से विद्यमान है और जिसे प्राप्त विवेक के प्रकाश में विकसित करना है। कारण कि विवेक का प्रकाश हमारे दोषों को मिटाने में समर्थ है। ज्यों-ज्यों हम अपने बनाये हुये दोषों को मिटाते जाते हैं, त्यों-त्यों हमारा जीवन साधन-युक्त होता जाता है। अपने बनाये हुये सब ही दोष मिट जाने पर समग्र जीवन ही साधन बन जाता है और साधन जीवन का केवल एक अंग मात्र नहीं रहता। अर्थात् जागृत अवस्था से सुषुप्ति पर्यन्त और जन्म से मृत्यु पर्यन्त प्रत्येक प्रवृत्ति साधन बन जाती है और यही मानव जीवन है। जीवन इस प्रकार का हो जाने पर प्रत्येक साधक साधन तत्त्व से अभिन्न हो जाता है। सिद्धान्त रूप से देखा जाय तो साधन-तत्त्व साध्य का स्वभाव ही है। साध्य से साधन तत्त्व को पृथक् नहीं किया जा सकता। साधन-तत्त्व ही साधक का अस्तित्व है। इससे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि साधक की माध्य से जाति और स्वरूप की एकता है और भिन्नता तो केवल मानी हुई है।



जाता है। विवेक से अभिन्न होते ही अमर जीवन की प्राप्ति होती है, जो मानव की माँग है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि अलौकिक विवेक के आदर से ही हम अपना कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जो मानवता है।

यह मानवता हमें सुख-दुख का सदुपयोग करने के लिये मिली है, इनके उपभोग-मात्र के लिये नहीं। यदि प्राकृतिक नियमानुसार विचार किया जाय तो सुख-दुख का उपभोग तो मानव जीवन के अतिरिक्त अन्य योनियों में भी किया जा सकता है। सुख-दुख का सदुपयोग करने पर मानव सुख-दुख से अतीत जो अनन्त चिन्मय जीवन है उससे अभिन्न हो सकता है। सुख का सदुपयोग उदारता और दुख का सदुपयोग विरक्ति है। उदारता आजाने पर हृदय पराये दुख से भर जाता है और फिर मानव कर्णित होकर प्राप्त सुख को दुखियों को समर्पित कर देता है। कर्ण रस ज्यों-ज्यों सबल तथा स्थायी होता जाता है त्यों-त्यों सुख की आसक्ति स्वतः गलती जाती है। सुखासक्ति गल जाने पर भोग-वासनाएँ समाप्त होजाती हैं। भोग-वासना मिटते ही तत्त्व जिज्ञासा स्वतः जागृत होती है, जो स्वतः पूर्ण हो जाती है, कारण जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है उसकी प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं है, केवल उसकी आवश्यकता की जागृति ही उसकी प्राप्ति का उपाय है। अर्थात् उसके लिये कोई कर्म-अनुष्ठान अपेक्षित नहीं है। जिसके लिये किसी कर्म विशेष की अपेक्षा नहीं होती, उसके लिये किसी वस्तु, अवस्था,

व्यक्ति अथवा परिस्थिति विशेष की आवश्यकता नहीं होती । परिस्थितियों की आवश्यकता तो सुख-दुख के भोगने के लिये ही होती है । यह अवश्य है कि परिस्थितियों से असंग होने के लिये प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना अनिवार्य होता है । आस्तिक परिस्थितियों का सदुपयोग अपने प्रभु के नाते करता है । अध्यात्मवादी सर्वात्म भाव से करता है और भौतिकवादी विश्व के नाते करता है ।

यह नियम है कि जो प्रवृत्ति जिस सद् भावना से प्रेरित होकर की जाती है उस प्रवृत्ति का कर्ता उसी भावना में विलीन होजाता है । अतः प्रभु के नाते की हुई प्रवृत्ति जीवन को प्रभु के प्रेम से भर देती है । और सर्वात्म भाव से की हुई प्रवृत्ति आत्मरति उत्पन्न कर देती है और विश्व के नाते की हुई प्रवृत्ति विश्व के प्यार से भर देती है । प्रेम, रति तथा प्यार में यह सामर्थ्य है कि किसी प्रकार का स्वार्थ-भाव तथा भोग-वासना शेष नहीं रहने देते । यह प्रत्येक भाई-बहन का अनुभव है कि स्वार्थ-भाव तथा भोग वासना के बिना किसी भी दोष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अर्थात् जीवन निर्दोषता से परिपूर्ण होजाता है । यह भी नियम है कि दोष की पुनरावृत्ति न होने पर सब ही दोष स्वतः मिट जाते हैं, क्योंकि दोषों की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, किन्ती गुण के अभिमान पर ही वे जीवित रहते हैं । निर्दोषता दोषों को उत्पन्न नहीं होने देती और गुणों के अभिमान को भी खा लेती है, यह उसका स्वभाव ही है । गुणों का अभिमान तब होता है, जब प्राणी स्वाभाविक गुणों

को त्यागकर दोषों को अपना देने के पदचात् पुनः बलपूर्वक दोषों को दबाना है और जीवन में गुणों की स्थापना करता है। यह नियम है कि कर्तव्य-भाव से जिसकी स्थापना की जाती है, वह स्वाभाविक नहीं होती। जो स्वाभाविक नहीं है उसको अभिमान के बल से जीवित रखना पड़ता है। अभिमान भेद उत्पन्न करता है और भेद प्रीति को सीमित कर देता है। सीमित प्रीति दोषों को जीवित रखती है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि जब तक हमारे जीवन में कोई भी गुण कर्तव्य के अभिमान के साथ रहता है, तब तक उसके आधार पर दोषों को जीवित मिलता रहता है, क्योंकि गुण जो स्वाभाविक सत्ता थी उसको अपनी स्थापित की हुई वस्तु मान ली गई। जैसे मिथ्या बोलने से पूर्व सब ही सत्य बोलते थे, किसी ने आरम्भ से ही मिथ्या नहीं बोला। मिथ्या बोलने का स्वभाव तो निज-विवेक का अनादर करके उत्पन्न किया था। दोष उसे नहीं कहते जो बिना जाने किया जाय। किये हुये दोषों को दबाने के लिये जो प्रयास है, वह ही गुण का अभिमान है। विवेकपूर्वक दोष का त्याग ही की हुई भूल का प्रायश्चित्त है, गुण का अभिमान नहीं। जब हमने मिथ्या बोलकर मिथ्या बोलने को न दोहराने का प्रायश्चित्त किया तो फिर “मैं सत्यवादी हूँ” ऐसे अभिमान के लिये कोई स्थान ही नहीं था; परन्तु हम अभिमान कर बैठे जिसने सत्यवादी तो बना दिया; परन्तु भेद उत्पन्न करके नये दोषों की उत्पत्ति कर दी। यदि आज हमारे जीवन में गुणों का अभिमान न रहे तो हम परस्पर विचार-भेद, वर्गभेद, संप्रदाय-भेद आदि के होने से प्रीति-भेद अथवा लक्ष्य-भेद को न अपनाएँ

जो वास्तव में अमानवता है। मानवता प्रीतिभेद को समाप्त कर वाला और अन्तर के संघर्ष को भी खालेती है।

अब रही बात दुख के सदुपयोग की। दुख का सदुपयोग विरक्ति है। विरक्ति का अर्थ रूठकर अकेले बैठ जाना नहीं है और न केवल अनिकेत (गृहहीन) हो जाना और न नंगा हो जाना है। यह सब तो विरक्ति का बाह्य शृंगार-मात्र है। विरक्ति का वास्तविक अर्थ है इन्द्रियार्थ विषयों से अरुचि अर्थात् भोग की अपेक्षा भोक्ता का मूल्य बढ़ा लेना। भोक्ता भोग के बिना भी सहर्ष रह सके यह ही उसका मूल्य बढ़ जाना है। अब प्रश्न यह है कि भोग भोक्ता का प्रकाशित करता है या भोक्ता भोग को। तो मानना होगा कि भोक्ता जिस भोग को अपना कहता है, उस भोग ने भोक्ता को कभी अपना नहीं कहा, और न भोक्ता की सत्ता के बिना भोग प्रकाशित हुआ। भोग और भोगने के साधन इन दोनों को भोक्ता ही प्रकाशित करता है। जैसे देखने की रुचि ही नेत्र तथा रूप को प्रकाशित करती है। नेत्र में देखने की क्रिया है। देखने की रुचि नहीं। देखने की रुचि ता उसमें है जो नेत्र को अपना मानता है—अथवा यों कहो कि उसके अभिमान का स्वीकार करता है। यदि भोक्ता भोग की रुचि का त्याग कर दे तो सब ही भोग और भोगने के साधनों का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। इतना ही नहीं वे अपनी-अपनी सत्ता को त्याग कर भोक्ता में विलीन हो जाते हैं। फिर जो भोग का प्रकाश था उसी की सत्ता शेष रह जाती है। भोग और भोगने के साधनों का अस्तित्व नहीं रहता और न किसी प्रकार की विषमता शेष रहती है। उसके निरन्तर

ही चिर शान्ति तथा स्थायी प्रसन्नता आ जाती है, जो दुःख को खाकर अनन्त चिन्मय जीवन से अभिन्न कर देती है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि सुख-दुःख का सदुपयोग मानवता है, जो हमें सुख-दुःख से मुक्त करने में समर्थ है।

मानव-जीवन सुख-दुःख का भोग करने मात्र के लिये नहीं मिला है। अपितु, उनके बन्धन से मुक्त होने के लिये मिला है। सुख-दुःख भोगने का अवसर तो मानव से अतिरिक्त अन्य योनियों में भी होता है। परन्तु, उन योनियों में सुख-दुःख से ऊपर उठने की योग्यता नहीं है, कारण कि उन योनियों में विवेक का प्रकाश मानव के समान नहीं है। प्राकृतिक नियमानुसार जिन योनियों में विवेक की कमी है, अर्थात् विवेक सुपुप्तवत है, उन योनियों में सुख-दुःख भोगने की मर्यादा भी स्वतः सिद्ध है। जैसे पशु यदि भूखा हो और उसका खाद्य-पदार्थ उसके निकट हो, तो वह अपने को रोक नहीं सकता; परन्तु साथ ही वची हुई खुराक का संग्रह भी नहीं कर सकता। मानव भले ही अपनी गाय के लिये चारा संग्रह करे, परन्तु विचारी गाय अपने लिये चारा संग्रह नहीं कर सकती। मानव भूखा हो और अनुकूल भोजन भी प्राप्त हो, परन्तु भोजन करना यदि उसकी मर्यादा के प्रतिकूल हो तो वह भूखा रह जायगा। उसके साथ ही कभी स्वाद अथवा आदर की आसक्ति से प्रेरित होकर बिना भूख भी खा लेता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मानव वह भी कर लेता है जो उसे करना चाहिये, और प्रमादवश वह भी कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिये।

अपौरुषेय विधान में मानव को ऐसी स्वाधीनता क्यों मिली ? पशुओं की भाँति वह पराधीन क्यों नहीं बनाया गया ? इसका प्रधान कारण यह है कि मानव को उस विधान में विवेक मिला है। जिस उदार ने विवेक प्रदान किया, उसने मानव की ईमानदारी पर विश्वास किया कि वह उसका आदर अवश्य करेगा। तो क्या हमें अपने उस दाता के प्रति विश्वासघाती होकर विवेक का अनादर करना चाहिए ? विवेक के अनादर से ही हम वह फल बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिये। वास्तव में जो नहीं करना चाहिये उसे करने का मानव-जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। यह नियम है कि जो नहीं करना चाहिये वह न करने से जो करना चाहिये वह स्वतः होने लगता है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि जो नहीं करना चाहिये उसका न करना ही मानव का परम पुरुषार्थ है और उसी का नाम मानवता है। विवेक-शून्य मनुष्य वृद्धों में भी है, परन्तु उन्हें मानवता नहीं मिलती, क्योंकि वे बेचारे जड़ता के दोष में आवध हैं। संप्रह-रहित बहुत से पशु भी होते हैं; परन्तु उन बेचारों को कोई मान्यवादी या परमहंस नहीं कहता। पराधे घनाये पर में बहुत से पशु रह जाते हैं, पर उन्हें कोई विवेक नहीं कहता। इससे यह सिद्ध हुआ कि विवेक-पूर्वक उदारता एक स्वतः ही मानव मानव होता है। अवन्या, क्रम, परिस्थिति, भाव, विचारधारा, दल, मंत्रणाय आदि विविध भेद होते हुए भी हमें स्नेह की एकता की प्रेरणा देनी है। स्नेह की एकता ही नहीं देनी। संघर्ष का अभाव मानव को स्वतः ही मिलता है।

संघर्ष से किसी न किसी का विनाश होता है। अपना विनाश किसी भी मानव को अभीष्ट नहीं है, कारण कि प्राकृतिक नियमानुसार जिस विकास का जन्म किसी के विनाश से होता है, उसका विनाश स्वयम् हो जाता है। अतः मानवता हमें उस विकास की ओर प्रेरित नहीं करती, जिसका जन्म किसी के विनाश से हो। यह भली-भाँति जान लेना चाहिये कि मानवता भौतिकवाद की दृष्टि से प्राकृतिक और आस्तिकवाद की दृष्टि से अपौरुपेय विधान और अध्यात्मवाद की दृष्टि से अपना ही स्वरूप तथा स्वभाव है। अतएव, मानवता का त्याग किसी भी मानव को करना उचित नहीं है।

स्नेह की एकता आ जाने पर प्रेमी को प्रेमास्पद, योगी को योग, जिज्ञासु को तत्त्वज्ञान एवम् भौतिकवादी को वास्तविक साम्य एवम् चिरशान्ति स्वतः प्राप्त होती है। स्नेह की एकता स्वार्थ को खा लेती है, उसके मिटते ही सर्व हितकारी प्रवृत्ति स्वतः होने लगती है। जिसके होने से सच्चा साम्य एवम् शान्ति आ जाती है। स्नेह की एकता किसी भी प्रकार का भेद शेष नहीं रहने देती। भेद के गलते ही अहम् भाव मिट जाता है और स्वतः तत्त्व ज्ञान हो जाता है। स्नेह सब कुछ खाकर केवल प्रेम को ही शेष रखता है, जो प्रेमास्पद से अभिन्न करने में स्वतः समर्थ है।

मानवता हमें सभी मतों एवम् सिद्धान्तों के द्वारा वास्तविक अभीष्ट तक पहुँचा देती है। अतः सब भाई-बहिनों को मानवता प्राप्त करने के लिये निज विवेक के प्रकाश में अपनी योग्यता अनुसार साधन निर्माण करने के लिये सर्वदा उद्यत रहना चाहिये। यह नियम है कि अपनी योग्यतानुसार साधन-निर्माण करने से सिद्धि अवश्य होती है।

२

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

कल आपकी सेवा में निवेदन किया था कि साधनयुक्त जीवन मानव-जीवन है। इस दृष्टि से हम सब साधक हैं। और, जो परिस्थिति हमें प्राप्त है, वह सब साधन-सामग्री है। इस साधन-सामग्री का उपयोग करना साधना है।

इस साधन के दो मुख्य अंग हैं। एक तो वह साधन कि जिससे अपना कल्याण हो और दूसरा वह साधन कि जिससे सुन्दर समाज का निर्माण हो। अपना कल्याण और सुन्दर समाज का निर्माण, यह मानव-जीवन की वास्तविक माँग है। जो लोग इन दोनों विभागों को जीवन की माँग नहीं मानते, वे वास्तव में विवेकदृष्टि से मानवता को नहीं जानते। मानव-जीवन एक ऐसा महत्त्वपूर्ण जीवन है कि जिसको पाकर प्राणी सुगमतापूर्वक अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कारण कि मानव-जीवन में ऐसी कोई प्रवृत्ति, अवस्था एवम् परिस्थिति नहीं है जो साधन-रूप नहीं हो। अर्थात् यह जीवन साधन-सामग्री से परिपूर्ण है।

अब विचार यह करना है कि अपने कल्याण का अर्थ क्या है ? और सुन्दर समाज के निर्माण का अर्थ क्या है ? अपने कल्याण



का अर्थ है अपनी प्रसन्नता के लिये अपने से भिन्न की आवश्यकता न रहे और सुन्दर समाज के निर्माण का अर्थ है कि जिस समाज में एक दूसरे के अधिकारों का अपहरण न होता हो। कुछ लोग सुन्दर समाज का अर्थ मानते हैं, सुन्दर-सुन्दर मकानों का निर्माण, सुन्दर-सुन्दर सड़कों का निर्माण, सुन्दर-सुन्दर बगीचों का निर्माण। यह सब तो वाह्य चीजें हैं। वास्तव में सुन्दर समाज की कसौटी यह है कि जिस समाज में किसी के अधिकारों का अपहरण न होता हो। यदि किसी भाई-बहन से पूछा जावे कि तुम अपनी सम्पत्ति से किस घर को सुन्दर घर कहते हो, तो वे कहेंगे कि जिस घर में ऐसा कोई व्यक्ति न हो जिसके अधिकार सुरक्षित न हों, तो उस घर को सभी लोग अच्छा घर मानेंगे। जहाँ कि वृद्धजन बालकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हों, और बालक वृद्धों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हों, बहन-भाई के अधिकार को सुरक्षित रखती हो और भाई-बहन के अधिकार को सुरक्षित रखता हो, ऐसे ही पति पत्नि के अधिकार को सुरक्षित रखाता हो और पत्नि पति के अधिकार को सुरक्षित रखती हो। वैसे ही समाज में मित्र मित्र के, पड़ोसी पड़ोसी के अधिकार को सुरक्षित रखता हो। यानि जितने भी सम्बन्ध हैं, इन सम्बन्धों में यदि एक दूसरे के अधिकार सुरक्षित रहते हैं तो उस घर को, उस समाज को सुन्दर कहेंगे। तो सुन्दर समाज की पहिचान यह हुई कि जहाँ किसी के अधिकार का हनन न होता हो। कोई कहते हैं कि सर्वांश में समानता ही सुन्दर समाज का प्रतीक है। इस पर आप विचार करें तो स्पष्ट हो जायगा कि समानता का यह अर्थ नहीं हो

सकता कि हमारी सत्र की परिस्थितियाँ एक हो जाँय अथवा अवस्था एक हो जाय । गम्भीरता से सोचिये यदि समानता का अर्थ परिस्थितियों की एकता हो तो समान परिस्थितियों में गति स्वयम् रुक जाती है । जैसे, कल्पना करो, नेत्र और पैर में समानता हो जाय । नेत्र और पैर दोनों चलने लगें अथवा दोनों देखने लगें तो गति होगी क्या ? लेकिन नेत्रों में देखने की योग्यता है, पैरों में चलने की योग्यता है । दोनों में कर्म, गुण और आकृति की भिन्नता होते हुये भी प्रीति की एकता है, तभी गति सुचारु रूप से होती है । इस दृष्टिकोण से मानना होगा कि परिस्थिति तथा अवस्था की समानता के द्वारा सुन्दर समाज का निर्माण नहीं हो सकता । गहराई से विचारिये तो परिस्थितियों की एकता प्राकृतिक नियम के सर्वथा प्रतिकूल है । परिस्थिति और गुणों की विभिन्नता होते हुये भी लक्ष्य और प्रीति की एकता होने से ही सुन्दर समाज का निर्माण सम्भव है । समान अवस्था सुषुप्ति अर्थात् गहरी नींद में है, परन्तु उसमें जड़तायुक्त शान्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवहार की मिल्दि नहीं होती । जागृति और स्वप्न में कभी समान अवस्था नहीं हो सकती और इसी विषमता से व्यवहार सिद्ध होता है । यह प्रत्येक मानव का दैनिक अनुभव है । परन्तु, परिस्थिति और अवस्था की विषमता में भी एक दूसरे के अधिकार की यदि रक्षा हो जाय तो बड़ा विषमता में भी समानता ही मानी जायगी और परस्पर संवर्ष नहीं होगा । कल्पना करो, एक रोगी और एक डाक्टर हैं । यदि दोनों की अवस्था एक हो जाय और फिर विचारता हो तो क्या यह समानता मानी जायगी ? किन्तु, रोगी तो

डाक्टर की आज्ञा माने और डाक्टर रोग का निदान करे और चिकित्सा करे और दोनों में स्नेह की एकता हो तब ही तो सुन्दरता आयेगी। हम तो आजकल समानता का यह अर्थ करने लगे हैं कि हम सब की परिस्थितियाँ एक हो जाँय, परन्तु यह मानवता और प्रकृति के विल्कुल विरुद्ध है। ऐसी समानता न कभी हुई है और न कभी होगी। हाँ, एक बात अवश्य है कि जहाँ दो आवश्यकताएँ एकत्रित होती हैं, वहीं समाज बनता है; केवल एक अवस्था से समाज नहीं बनता। जैसे जहाँ विद्यार्थी हों, पर विद्वान् न हों, विद्वान् हों पर विद्यार्थी न हों, महिला हो किन्तु पुरुष न हो, पुरुष हो किन्तु महिला न हो, महाजन हो किन्तु मजदूर न हो, मजदूर हो किन्तु महाजन न हो, वहाँ समाज न होगा। समाज वहीं बनेगा जहाँ महिलाएँ और पुरुष दोनों हों, विद्यार्थी और विद्वान् दोनों हों, महाजन और मजदूर दोनों हों। हम सुन्दर समाज उसे कहेंगे जहाँ महाजनों के द्वारा मजदूरों के अधिकार सुरक्षित हों और मजदूरों के द्वारा महाजनों के अधिकार सुरक्षित हों। विद्वानों के अधिकार विद्यार्थियों द्वारा सुरक्षित हों, विद्यार्थियों के अधिकार विद्वानों द्वारा सुरक्षित हों। रोगी के अधिकार डाक्टर द्वारा सुरक्षित हों, डाक्टर के अधिकार रोगी द्वारा सुरक्षित हों आदि। जहाँ एक से अधिक वर्ग होते हैं वहाँ ही समाज होता है। जहाँ एक वर्ग होता है वहाँ समाज नहीं होगा। केवल मजदूरों से समाज नहीं बनेगा; केवल महिलाओं से समाज नहीं बनेगा। तात्पर्य यह है कि दो आवश्यकताएँ जहाँ एकत्रित होती हैं, उसीका नाम समाज समझना चाहिये। जब तक किसी एक की आवश्यकता किसी

दूसरे की पूरक न हो तब तक समाज की स्थापना ही सिद्ध नहीं होती। आज हम स्वरूप से एकता करने की जो कल्पना करते हैं वह विवेक की दृष्टि से अपने को धोखा देना है, अथवा भोली-भाली जनता को वहकाना है। कल्पना करो कि सुन्दर मकान क्या उसे कहेंगे जिसमें सब कमरे समान हों अथवा उसे कहेंगे जिसमें सब कमरे अपने-अपने कार्य के लिये उपयुक्त हों। जैसे शौचालय अपने स्थान पर ठीक हो, रसोई घर अपने स्थान पर ठीक हो, बैठने का कमरा अपने स्थान पर ठीक हो, सोने का कमरा अपने स्थान पर ठीक हो, कार्य करने का कमरा अपने स्थान पर ठीक हो। तो, हर कमरा जो अपने-अपने स्थान पर ठीक हो, उन्हीं के समूह को आप सुन्दर मकान कहेंगे। इसी प्रकार सुन्दर शरीर आप उसे कहेंगे जिसमें प्रत्येक अवयव अपने-अपने स्थान पर सही और स्वस्थ हों। सुन्दर समाज उसे कहेंगे जिसका प्रत्येक वर्ग अपने-अपने स्थान पर सही हो, ठीक हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सुन्दरता का अर्थ अनेक विभिन्नताओं में अपने-अपने स्थान पर वधेष्ट होना है।

तो अब विचार यह करना है कि जब हमें अपने अधिकार प्रिय हैं तो हमारे अधिकार क्या होंगे ? हमारे अधिकार बढ़ी होंगे जो हमारे साधियों के कर्तव्य हैं। और हमारे साधियों के अधिकार वे हों जो हमारे कर्तव्य हैं। हमारे अधिकार तब ही सुरक्षित रह सकते हैं, जब हमारे साधी कर्तव्य-परायण हों; और हमारे साधियों के अधिकार तब ही सुरक्षित होंगे जब हम कर्तव्यनिष्ठ हों। हमारी कर्तव्यनिष्ठा ही हमारे साधियों से कर्तव्य-परायणता उत्पन्न करेगी:

क्यों कि जिसके अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, उसके हृदय में हमारे प्रति प्रीति स्वतः उत्पन्न हो जाती है जो उन्हें कर्तव्य-परायण होने के लिये विवश कर देती है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि हमारी कर्तव्यनिष्ठा ही हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने में समर्थ है। यह भली-भाँति जान लेना चाहिये कि अधिकार कर्तव्य का दास है। हम अपने अधिकार की रक्षा में भले ही परतंत्र हों; परन्तु इस बात में सर्वदा स्वतंत्र हैं कि अपने साथियों के अधिकारों की रक्षा करें। इसमें कोई पराधीन नहीं है। तो आप विचार करें कि सुन्दरता समाज में कब आयेगी ? जब व्यक्ति में सुन्दरता हो तब ही आयेगी या समाज में सुन्दरता हो तब व्यक्ति में सुन्दरता आयेगी।

इस दृष्टिकोण को सामने रखकर आप सोचें कि अपने को सुन्दर बनाने में हम पराधीन नहीं हैं। हमारा साथी सुन्दर हो, इसमें भले ही पराधीन हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जब हम स्वयम् सुन्दर होने में स्वतंत्र हैं, तो यह क्यों सोचें कि पहले हमारा साथी निर्दोष अर्थात् सुन्दर हो। प्रत्येक भाई-बहन को यह सोच लेना चाहिये कि हम सुन्दर होने में स्वाधीन हैं और हमारे साथी को हमारी सुन्दरता की आवश्यकता भी है। तो हम पहले स्वयम् ही सुन्दर बनेंगे। हमारी सुन्दरता स्वयम् हमारे साथियों को सुन्दर बनाने में समर्थ होगी। जिस प्रकार सुगन्धित पुष्प से स्वयम् सुगन्ध फैलती है, उसी प्रकार सुन्दर जीवन से समाज में सुन्दरता फैलती है। सुन्दर जीवन की कसौटी यह ही है कि वह प्रीति से परिपूर्ण हो। प्रीति-युक्त जीवन

ही सुन्दर जीवन है। ऐसे जीवन से ही प्रीति का प्रसार स्वयम् होता है। प्रीति सीखने-सिखाने के लिये किसी पाठशाला की अपेक्षा नहीं है। व्यक्ति की कर्तव्य-निष्ठा ही समाज में प्रीति का प्रसार करती है। यह सभी का अनुभव है कि परस्पर प्रीति का संचार होने पर संघर्ष स्वतः मिटने लगता है और संघर्ष मिटने पर एक अनुपम संतोष तथा एकता का उदय होता है। असंतोष का मूल परस्पर का संघर्ष है। और संघर्ष का जन्म प्रीति के अभाव में होता है और प्रीति का अभाव तब होता है जब हम कर्तव्य-निष्ठ न रहकर अपने साथी के अधिकार का अपहरण करते हैं। यह बात निर्विवाद है कि हमारे और समाज के बीच में अथवा एक दमरे वर्ग के बीच में प्रीति के अभाव में ही संघर्ष होता है। तो हमको कर्तव्य-परायणता से ही संघर्ष का अन्त करना है। उसके बिना सरकारी कानून का आधार लेना अमान्यता है। जो सुन्दर समाज का मूल कानून के बल पर देखना चाहते हैं, वे यह सोचते हैं कि जब हमारी सरकार सुन्दर बन जायगी या हम सरकार बन जायेंगे, तब हम सुन्दर समाज का निर्माण कर लेंगे, यह अपने को तथा समाज को धोखा देने वाली बात है। जो कार्य केवल मान्यता से ही हो सकता है उसे कानून द्वारा पूरा करने का प्रयत्न केवल अपनी जिम्मेदारी में लिपि हुई वाग्मना की पूर्ति या प्रयास ही मानना चाहिये। हमारा समाज तब ही सुन्दर होगा जब हम कर्तव्य-परायण होंगे। जब हर एक भारते-वर्तिय यह सोचते लगे कि चाहे हमारे अधिकार सुरक्षित ही या न हों, हमें ही धरने परदेस पालन द्वारा अपने समाज के अधिकारों की रक्षा

क्यों कि जिसके अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, उसके हृदय में हमारे प्रति प्रीति स्वतः उत्पन्न हो जाती है जो उन्हें कर्तव्य-परायण होने के लिये विवश कर देती है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि हमारी कर्तव्यनिष्ठा ही हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने में समर्थ है। यह भली-भाँति जान लेना चाहिये कि अधिकार कर्तव्य का दास है। हम अपने अधिकार की रक्षा में भले ही परतंत्र हों; परन्तु इस बात में सर्वदा स्वतंत्र हैं कि अपने साथियों के अधिकारों की रक्षा करें। इसमें कोई पराधीन नहीं है। तो आप विचार करें कि सुन्दरता समाज में कब आयेगी ? जब व्यक्ति में सुन्दरता हो तब ही आयेगी या समाज में सुन्दरता हो तब व्यक्ति में सुन्दरता आयेगी।

इस दृष्टिकोण को सामने रखकर आप सोचें कि अपने को सुन्दर बनाने में हम पराधीन नहीं हैं। हमारा साथी सुन्दर हो, इसमें भले ही पराधीन हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जब हम स्वयम् सुन्दर होने में स्वतंत्र हैं, तो यह क्यों सोचें कि पहले हमारा साथी निर्दोष अर्थात् सुन्दर हो। प्रत्येक भाई-बहिन को यह सोच लेना चाहिये कि हम सुन्दर होने में स्वाधीन हैं और हमारे साथी को हमारी सुन्दरता की आवश्यकता भी है। तो हम पहले स्वयम् ही सुन्दर बनेंगे। हमारी सुन्दरता स्वयम् हमारे साथियों को सुन्दर बनाने में समर्थ होगी। जिस प्रकार सुगन्धित पुष्प से स्वयम् सुगन्ध फैलती है, उसी प्रकार सुन्दर जीवन से समाज में सुन्दरता फैलती है। सुन्दर जीवन की कसौटी यह ही है कि वह प्रीति से परिपूर्ण हो। प्रीति-युक्त जीवन

न्दर जीवन है। ऐसे जीवन से ही प्रीति का प्रसार स्वयम् होता प्रीति सीखने-सिखाने के लिये किसी पाठशाला की अपेक्षा नहीं व्यक्ति की कर्तव्य-निष्ठा ही समाज में प्रीति का प्रसार करती यह सभी का अनुभव है कि परस्पर प्रीति का संचार होने पर स्वतः मिटने लगता है और संघर्ष मिटने पर एक अनुपम तथा एकता का उदय होता है। असंतोष का मूल परस्पर का है। और संघर्ष का जन्म प्रीति के अभाव में होता है और का अभाव तब होता है जब हम कर्तव्य-निष्ठ न रहकर अपने के अधिकार का अपहरण करते हैं। यह बात निर्विवाद है कि और समाज के बीच में अथवा एक दूम्बरे वर्ग के बीच में के अभाव में ही संघर्ष होता है। तो हमको कर्तव्य-परायणता के संघर्ष का अन्त करना है। उसके बिना सरकारी कानून का पार लेना अमान्यता है। जो सुन्दर समाज का स्वप्न कानून के पर देखना चाहते हैं, वे यह सोचते हैं कि जब हमारी सरकार बन जायगी या हम सरकार बन जायेंगे, तब हम सुन्दर समाज निर्माण कर लेंगे, यह अपने को तथा समाज को धोखा देने वाली है। जो कार्य केवल मान्यता से ही हो सकता है उसे कानून पूरा करने का प्रयत्न केवल अपनी किमी अन्तर में लिपि हई माना की पूर्ति का प्रयास ही मानना चाहिये। हमारा समाज तब ही दूर होगा जब हम कर्तव्य-परायण होंगे। जब हर एक भाई-बहिन सोचने लगे कि चाहे हमारे अधिकार सुरक्षित हों या न हों, हमें अपने कर्तव्य-पालन उपाय करने समाज के अधिकारों की रक्षा



करनी है । प्रत्येक बहिन सोचे कि चाहे हमारा भाई आदर्श हो या न हो, पर हमें तो आदर्श बहिन होना ही चाहिये, प्रत्येक पत्नी सोचे कि पति आदर्श हो या न हो, पर हमें तो आदर्श पत्नी होना ही चाहिये, प्रत्येक पति यह सोचे कि पत्नी चाहे कर्कशा या कुरूपा क्यों न हो, हमें उसके अधिकारों का अपहरण नहीं करना है, ऐसे सुन्दर भाव यदि हर एक भाई-बहिन के मन में जागृत हो जाँय तो आप देखेंगे कि आप को सरकार की भी आवश्यकता न होगी ।

सुन्दर समाज का असली दृश्य क्या है ? जहाँ किसी विधान की आवश्यकता न हो । जहाँ बल के द्वारा किमी को बात मनवाने की आवश्यकता न हो । मुझ से कई मिलने वाले लोग कहते हैं कि अमुक देश बड़ा ही सुन्दर है तो मैं पूछता हूँ कि क्या उस देश में पुलिस है ? क्या उस देश में फौज रखते हैं ? क्या उस देश में सी. आई. डी. है ? क्या उस देश में न्यायालय हैं ? तो वे कहते हैं कि यह सब है । तो मैं कहता हूँ कि वहाँ जितना सुन्दर समाज होना चाहिये उतना नहीं है, चाहे वह देश अन्य देशों से अधिक सुन्दर भले ही हो । आप विचार करें कि जिस शहर में ताला लगाना पड़ता है, क्या उसे सुन्दर शहर कहेंगे ? शहर में सुन्दर सड़कें हों, सुन्दर-सुन्दर बगीचे हों, रहने के लिये सुन्दर बंगले हों, परन्तु जहाँ रहने वाले सुरक्षित न हों, तो क्या उसे सुन्दर शहर कहेंगे ? कभी नहीं । जहाँ दूकानदार को दूकान पर ताला लगाना पड़ता हो, घरों के ताला लगाना पड़ता हो, चौकीदार रखने पड़ते हों, तो क्या आप उसे कहेंगे कि वह हमारा कुटुम्ब, हमारा समाज और हमारा शहर सुन्दर है ?

नहीं कह सकते । जहाँ सुन्दरता आ जाती है, वहाँ इन चीजों की जरूरत नहीं होती । न चौकीदार रखना पड़ता है और न ताला ही लगाना पड़ता है । सुन्दरता का वास्तविक अर्थ यह है कि जहाँ हम सब अनेक हाँते हुये भी एक होकर रहें ।

अब प्रश्न होता है कि एक कैसे हों ? यद्यपि सब ही प्राणी संपुष्टि अर्थात् गहरी नींद में जड़तायुक्त स्वरूप की एकता अनुभव करते हैं, परन्तु उस एकता को कोई महत्त्व नहीं है । वास्तविक महत्त्व तो उस एकता का है, जब हम जागृत अवस्था में विविध प्रकार की भिन्नता होते हुये भी एकता का अनुभव करें, वह तब ही सम्भव है कि जब हम एकमात्र अपना कर्तव्य जानें और उसमें तत्परतापूर्वक परायण हों । आज जो हमें हमारे सुधारक अधिकारों का गीत सुनाकर अपने अधिकार सुरक्षित रखने की प्रेरणा करते हैं, यह बात कब तक रहती है ? जब तक कि सुधारक महोदय किसी पद पर आरूढ़ नहीं हो जाते हैं । पद-प्राप्ति के बाद अधिकार का पाठ पढ़ाने वाले सुधारक महानुभाव हमारे अधिकार भूल जाते हैं और अपने अधिकारों का उपभोग करने लगते हैं । यदि कोई कहे कि अधिकार का क्या मानव-जीवन में कोई स्थान ही नहीं है, तो उसका उत्तर यह ही होगा कि अपने अधिकार की प्रियता से हम यह अनुभव करें कि दूसरों को भी अपना अधिकार प्रिय है और दूसरों की प्रियता की प्रति ही मान्यता है । जैसे कि हम अपनी प्यार की चेदना के द्वारा दूसरों की प्यार सुकाने का प्रयत्न करते हैं, जो मान्यता है । यदि कोई यह समझे कि हम अपने अधिकार न भोग या प्राप्ति

अधिकारों की रक्षा न करें तो हमारा अस्तित्व ही न रहेगा, क्योंकि प्रायः देखने में यह ही आता है कि सबल निर्बल के अधिकार का अपहरण कर लेते हैं, परन्तु इस ही प्रमाद से तो एक वर्ग दूसरे वर्ग को मिटाने के लिये प्रयत्नशील होता है। यह सन्देह तब ही सिद्ध होता है, जब कर्तव्य-परायणता की बात किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष से ही कही जाती। जब कर्तव्य-परायणता का पाठ सब ही व्यक्तियों, कुटुम्बों, वर्गों और दलों को पढ़ना है और उसका अनुसरण करना है, तब उपर्युक्त सन्देह के लिये कोई स्थान नहीं रहता। यह पाठ मानवता का पाठ है। यह किसी जाति विशेष का नहीं, किसी वर्ग विशेष का नहीं, किसी दल विशेष का नहीं। यदि कोई यह सन्देह करे कि कर्तव्य की बात सदैव निर्बलों को बताई गई है, सबल निर्बलों के अधिकार का अपहरण करते रहे हैं और उन्हें अपनी खुराक बनाते रहे हैं, उसी का यह भयंकर परिणाम हुआ कि दुखी वर्ग का आकर्षण कर्तव्य की अपेक्षा अधिकार की ओर अधिक हो गया, तो क्या कभी कर्तव्य-शून्य अधिकार सुरक्षित रह सकेगा ? कदापि नहीं।

जिस दोष ने दूसरों का अधिकार छीनने की भावना जागृत कर दी, क्या उस दोष के रहते हुए हम अपना अधिकार सुरक्षित रख सकेंगे ? जिस दोष ने आज पहले वाले सबल को निर्बल बना दिया, क्या उस दोष को हमें अपने पास रखना चाहिये ? उस दोष को रखकर क्या कालान्तर में हमारी वही दशा नहीं होजायेगी जो आज उन सबल लोगों की हुई, जिन्होंने अथवा जिनके पूर्वजों ने इस दोष

को अपनाया। हम लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये कि जो दोष गुण के रूप में आता है, वह बड़ा ही भयंकर तथा दुःखद सिद्ध होता है। कर्तव्य पर ध्यान न देकर अधिकार प्राप्ति के लिए मर मिटना गुण के रूप में दोष है। इस अमानवता-पूर्ण दोष से बचने के लिए हमें निरन्तर सतर्क और प्रयत्नशील रहना चाहिये। कर्तव्य-परायणता आजाने पर अधिकार बिना ही माँगे आजायना। यदि किसी की निबेलता या उदारता से कर्तव्य के बिना अधिकार मिल भी गया तो हम उसे सुरक्षित न रख सकेंगे, वह निर्विवाद सत्य है। अधिकार वही सुरक्षित रहता है जो कर्तव्यपरायणता से स्वतः प्राप्त होता है। जब बीतराग पुरुषों के द्वारा तथा अपने अनुभव से यह सिद्ध होगया है कि मानवता अपना लेने पर ही हम सुन्दर बनेंगे और हमारी सुन्दरता से ही सुन्दर समाज का निर्माण होगा, तब यह प्रश्न स्वतः उत्पन्न होता है कि मानव में मानवता कैसे आये ? उसके लिए यह कहना होगा कि हमारा कर्म भाव रहति न हो और भाव विवेक-शून्य न हो, अर्थात् हमारी भावनायें निज विवेक से प्रकाशित रहें और हमारा कर्म भाव से प्रभावित हो। यह नियम है कि कर्म में प्रवृत्ति जिम भाव से होती है, कर्म के फल में कर्ता उन्ही भाव में विलीन होजाता है। और फिर भाव विवेक से स्वतः अभेद हो जाता है, अर्थात् विवेक हमारा जीवन बन जाता है और फिर अविवेक तथा उसके फलस्वरूप अनेक विकार सदा के लिये ही मिट जाते हैं। यह ही मानव में मानव-जीवन है, क्योंकि निर्विकार जीवन ही मानव-जीवन है। इस पर यदि विचार करें तो यह बात बड़े महत्त्व

की प्रतीत होती है कि जब हमें अपने साथी का कोई कार्य ऐसा प्रतीत हो, जो हमें अपने लिए प्रतिकूल दिखाई देता हो अथवा अनुचित प्रतीत होता हो, तो हम अपने ऐसे ज्ञान के निर्णय को ही सत्य न मान लें, अपितु हम अपने साथी से पूछें कि भाई यह बात जो तुम कह रहे हो किस भावना से कह रहे हो और, जिस भावना से तुम कह रहे हो वह किस विवेक पर आधारित है ? ऐसा पहले हम अपने साथी से पता लगाने का प्रयत्न करें।

अगर वह वास्तव में आपका साथी है तो बतायगा कि उसने आपके साथ जो कटुता का व्यवहार किया वह अमुक भावना से किया और यदि उस साथी ने सचमुच किसी अशुद्ध भाव से व्यवहार किया होगा तो या तो वह चुप हो जायगा या अपनी बात बदल देगा। वह अपनी कटुता को आपके सामने प्रकट करने में लज्जित हो जायगा, असमर्थ हो जायगा और आप इसके ही द्वारा उसके सत्य को जान लेंगे, परन्तु हम अपने साथी को इतना अवसर ही कहाँ देते हैं ? हमसे प्रायः ऐसी भूल होजाया करती है कि हम अपने विवेक के निर्णय पर ही दूसरे को असत्य जानकर बिगड़ने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं, और जो कहना चाहिये वह भी कहने लगते हैं, और जो नहीं कहना चाहिये वह भी कहने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारा जो साथी है, वह हमारे मोह-वश, भयवश अथवा अपनी निर्बलता के कारण थोड़ी देर के लिए भले ही चुप होजाय और हमको राजी करने के लिए जो हम चाहते हों, वह ही कहने या करने लग जाय,

परन्तु उसके मन में हमारे साथ सच्ची एकता न होगी। यह नियम है कि जब तक मन में सच्ची एकता न होगी तो वह एकता कालान्तर में मिट जायेगी और आज जो हम एक साथ बैठ कर परस्पर में सत्य को जानने का प्रयत्न कर रहे थे, कल सम्भव है कि अपने-अपने पक्ष के अभिमान को लेकर आपस में संघर्ष करने लगें।

वास्तव में हमें निष्पक्ष भाव से धैर्य-पूर्वक अपने साथी के विवेक का पता लगाना चाहिये और सोचना चाहिये कि जो कुछ उसने किया है क्या उसका विवेक भी वह ही कहता है ? यदि उसका कर्म उसके विवेक के विरुद्ध सिद्ध हो जाय तो भी हम यह ही कहें कि भाई कोई बात नहीं, भूल हो ही जाती है, परन्तु हम और तुम साथ हैं। ऐसा करने से उसे अपने प्रमाद का ज्ञान हो जायगा और वह उसे त्याग देगा। यह नियम है कि प्रमाद अपने ही ज्ञान से मिटता है, किसी दूसरे के ज्ञान से नहीं। इस प्रकार सुविधा-पूर्वक संघर्ष मिट जावेगा और हमारी और हमारे साथी की एकता सुरक्षित हो जावेगी और भेद की खाई मिट जावेगी। यदि यह प्रयोग नहीं किया गया और अपने विवेक पर ही यह मान लिया कि उसका दोष अवश्य है तो हमारे और हमारे साथी के बीच एकता कभी नहीं होगी; न आपस में प्रेम का ही उदय होगा। हमारे और हमारे साथी के हृदय में प्रेम उदय हो और हमारा साथी निर्दोष हो जाय, इसके लिये अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपने साथी के विवेक से ही उसको अपने प्रमाद का बोध कराने का प्रयत्न करें। अपने विवेक द्वारा अपने साथी के प्रमाद का उसे बोध कराने का प्रयत्न न करें।

अपने विवेक द्वारा तो हम केवल अपने ही प्रमाद को मिटाने का प्रयास करें। जब हम अपने विवेक द्वारा अपने प्रमाद को मिटावेंगे, तब ही हम निर्दोष होंगे और हमारा साथी भी हमें निर्दोष मान लेगा। यह बड़े महत्त्व की बात है।

आज हम दूसरों के सटिफिकेट पर, अर्थात् दूसरों के आधार पर अपना महत्त्व आँक लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि हम सच-मुच ही वैसे बन गये जैसे कि लोग हमें कहते हैं। परन्तु, हमारी यह मान्यता किसी भी समय हमारे निर्बलतापूर्ण चित्र को समाज के सामने प्रकाशित कर देगी। हमें दूसरों की दी हुई महान्ता से संतोष नहीं करना चाहिये। प्रत्युत् अपनी दृष्टि में अपने को निर्दोष तथा महान् बनाने का अथक प्रयत्न करना चाहिये। यह नियम है कि हम जैसे अपनी दृष्टि में हैं, वैसे ही हम जगत् तथा नियन्ता की दृष्टि में हो जावेंगे। कारण कि जो बात हम अपने से नहीं छिपा सकते, वह दूसरों से भी नहीं छिपा सकते। हमारी असली दशा के प्रकट होने में कुछ समय अवश्य लग सकता है।

अब आप लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि यदि पर-दोष-दर्शन न करें तो माता-पिता बालकों का, गुरुजन शिष्यों का, राष्ट्र प्रजा का सुधार कैसे करें ? क्योंकि इनमें अपने दोष देखने की सामर्थ्य ही नहीं। परन्तु, यह सन्देह निर्मूल है। जो जिस अवस्था में होता है, वह उस अवस्था के दोषों को भी जानता है; क्योंकि प्राकृतिक नियमानुसार मनुष्य-मात्र को अपने दोष देखने का विवेक स्वतः प्राप्त है। बालक बालकपन के दोष अवश्य देख लेगा, युवक युवावस्था के

दोष अवश्य देख लेगा, विद्यार्थी विद्यार्थी-अवस्था के दोष अवश्य देख लेगा, विद्वान् विद्वत्ता के दोष अवश्य देख लेगा; महाजन और मजदूर भी अपनी-अपनी अवस्था के दोष अवश्य देख लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी-अपनी परिस्थितियों में अपने-अपने दोषों का दर्शन सभी को सम्भव है। आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे द्वारा हमारे साथी के प्रति कोई दोषयुक्त व्यवहार न हो। इस बात की आवश्यकता नहीं कि हम अपने विवेक से अपने साथी के दोष देखें। आप कहेंगे कि इस सिद्धान्त के अनुसार तो आपने गुरुजनों, नेताओं और सुधारकों का काम ही समाप्त कर दिया। नेता का काम है कि वह समाज को दोष-दर्शन करावे और उसके मिटाने का उपाय बतावे। गुरु का भी काम यह ही है कि वह अपने शिष्य के दोष-दर्शन करावे और उसे दोष मिटाने का उपाय बतावे जिससे शिष्य दोष-मुक्त हो जाय। शासक भी यह ही सोचते हैं कि जिन पर वह शासन करते हैं, उनके दोष-दर्शन करावे और बल के द्वारा उनको निर्दोष बनाने का प्रयत्न करे।

शासक, नेता और गुरु में थोड़ा-थोड़ा भेद है। शासक बल के द्वारा, नेता विधान के द्वारा और गुरु ज्ञान के द्वारा सुधार करने का प्रयास करते हैं। यह अन्तर होते हुये भी तीनों ही सुधारने का दावा करते हैं; परन्तु भय्या, मानवता तो एक अनूठी प्रेरणा देती है और वह यह कि अगर हमें नेता होना है तो अपने ही नेता बनें, यदि हमें शासन करना है तो अपने ही पर शासन करें, और यदि गुरु बनने की कामना है तो अपने ही गुरु बनें। मानवता के इस दृष्टिकोण को



जब हम अपनायेंगे तो हम अपने को ही अपना शिष्य और अपने जीवन को ही अपना समाज और अपने चरित्र को ही अपनी प्रजा बना लेंगे। यह नियम है कि जो अपना गुरु बन जाता है और जो अपना नेता बन जाता है और जो अपना शासक हो जाता है, तो वह सभी का गुरु, शासक और नेता बन जाता है। उसका जीवन ही विधान बन जाता है, जिसकी समाज को माँग है।

अब प्रश्न यह होता है कि हम अपने गुरु, नेता या शासक कैसे बनें ? भौतिकवाद की दृष्टि से मानव-मात्र को जो प्राकृतिक नियमानुसार विवेक मिला है और आस्तिकवाद की दृष्टि से जो विवेक प्रभु की अहेतु की कृपा से मिला है और अध्यात्मवाद की दृष्टि से जो अपनी एक विभूति है, वह विवेक ही वास्तव में गुरु, नेता तथा शासक है, जो प्रत्येक भाई-बहिन को स्वतः प्राप्त है। पर, खेद तो यह है कि हम उस विवेक का प्रयोग अपने समस्त जीवन पर न करके समाज पर करने की सोचते हैं। समाज इन्द्रिय-जन्य ज्ञान पर ही विश्वास करता है, वह जैसा देखता है वनता है। जिस चरित्र को हम अपने जीवन से नहीं दिखा पाते, केवल समझकर समाज में उसका प्रचार करना चाहते हैं, अथवा यों कहो कि शासक बनकर बल प्रयोग से उसे समाज-द्वारा मनवाना चाहते हैं अथवा गुरु बनकर समाज के जीवन में उसे ढालना चाहते हैं, यह वास्तव में सम्भव नहीं है। मानव को विवेक स्वयम् होने के लिये मिला है। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने विवेक से अपने ही दोषों का दर्शन करें और तप तथा प्रायश्चित्त एवम् प्रार्थना आदि वृत्तों द्वारा अपने को

निर्दोष बनावें। प्रायश्चित्त तथा तप द्वारा अपने पर शासन हो सकता है। और प्रार्थना द्वारा हम आवश्यक बल प्राप्त कर सकते हैं और शुद्ध संकल्पों का व्रत लेकर हम अपने पर नेतृत्व कर सकते हैं। जिस जीवन से घुरे संकल्प मिट जाते हैं, उस जीवन से समाज में स्वतः शुद्ध संकल्पों का प्रचार हो जाता है। यह नियम है कि संकल्प बुद्धि से कर्म शुद्धि स्वतः हो जाती है। शुद्ध संकल्पों का प्रचार हो जाना ही समाज का वास्तविक नेतृत्व है। विवेक का आदर होने लगे यह ही वास्तव में गुरुत्व है। विवेकीजनों से ही विवेक के आदर का प्रचार होता है। शुद्ध संकल्प-युक्त जीवन से ही शुद्ध संकल्प व्यापक हो जाते हैं; और प्रायश्चित्त तथा तप-युक्त जीवन से ही समाज के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति में अपने पर शासन करने की भावना उत्पन्न हो जाती है।

विवेक-युक्त जीवन, जो वास्तव में मानवता है, उसी के आधार पर जब हम अपने को सुन्दर बनाते हैं, वह ही वास्तविक व्यक्तिवाद है और जब अपने चरित्र द्वारा मानवता का प्रसार समाज में किया जाता है, तो वह ही वास्तविक समाजवाद है। उस मानवता को ही विधान का रूप देकर जब बल-प्रयोग द्वारा समाज में प्रसार करने का प्रयास किया जाता है तो वह ही वास्तव में राष्ट्रवाद है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि निज-विवेक के प्रकाश में साधन-युक्त जीवन से निर्दोषता प्राप्त करना ही मानवता है और वह ही मानवता स्थल-भेद से कहीं व्यक्तिवाद, कहीं राष्ट्रवाद, कहीं समाजवाद आदि मान्यताओं से नाम तथा आदर पाती है। मानवता प्राप्त

करने में सब ही भाई-बहिन सर्वदा स्वतंत्र हैं । हम से कोई ऐसा कार्य न हो जिसे हम अपने साथ कराना नहीं चाहते हैं और जो हम अपने प्रति दूसरों से कराना चाहते हैं वह हम दूसरों के प्रति करने के लिये सर्वदा उद्यत बने रहें; तभी हम अपने में विद्यमान मानवता को विकसित कर सकेंगे । मानवता विकसित हो जाने पर जीवन की सभी समस्याएँ हल हो जावेंगी । अतः मानव को अपने में छिपी हुई मानवता को विकसित करने के लिये सर्वदा अथक प्रयत्न करना चाहिये । मानवता आ जाने पर ही हम सुन्दर होंगे, हमारा समाज और राष्ट्र सुन्दर होगा । मानवता में ही हमारा कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण निहित है । ॐ ।

---

३

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

कल आपकी सेवा में निवेदन किया गया था कि जब तक हम अपना सुधार न करेंगे, तब तक सुन्दर समाज का निर्माण न हो सकेगा। अपनी सुन्दरता में ही सुन्दर समाज निहित है, चाहे हम अपने को राष्ट्र के रूप में अथवा अन्तर-राष्ट्र के रूप में अथवा समाज के रूप में अथवा व्यक्तिगत जीवन को सामने रखकर अथवा किसी भी दृष्टिकोण से देखें, तो मानना पड़ेगा कि जब तक हम अपने सुधार में रत न होंगे, सुन्दर समाज का निर्माण न होगा। सुन्दर समाज का निर्माण और अपना कल्याण यह दोनों ही मानव के उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिये अपना कल्याण पहले है अथवा सुन्दर समाज का निर्माण ? तो, ऐसा जान पड़ता है कि यह दोनों ही उद्देश्य भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं। ज्यों-ज्यों सुन्दर समाज का निर्माण होता जाता है, त्यों-त्यों अपना कल्याण भी होता जाता है और ज्यों-ज्यों अपना कल्याण होता जाता है, त्यों-त्यों सुन्दर समाज का निर्माण भी होता जाता है। कारण कि जीवन एक ही है, दो नहीं; समाज, संसार एक है, दो नहीं। जब जीवन एक है, तो अपना कल्याण और सुन्दर समाज का निर्माण एक ही जीवन के दो

पहलू हैं। इनमें से हम किसी भी पहलू पर विचार करें या उसको ठीक करें तो दूसरा पहलू अपने आप उसके साथ ठीक हो जाता है। उदाहरणार्थ यदि किसी ने अपने जीवन से दूसरे के अधिकार की रक्षा करदी, तो इसका परिणाम यह होगा कि वह अपने को अपने उस साथी से मुक्त अनुभव करेगा। यह नियम है कि जिसकी सेवा करदी जाती है, उसका राग स्वतः मिट जाता है। तो दूसरों के अधिकार की रक्षा से अपने में जो छिपा हुआ राग था उसकी निवृत्ति हुई; उस राग के निवृत्त होने पर योग का हो जाना स्वाभाविक है, कारण कि राग से ही भोग का उदय होता है और राग-रहित होने से योग स्वतः प्राप्त होता है। इस योग का अर्थ है चित्त-वृत्तियों का सब ओर से हटकर किसी एक ओर लग जाना, अथवा यों कहें कि “पर” से हटकर “स्वः” में विलीन हो जाना, अथवा यों कहें कि राग से रहित होकर चित्त का वीतराग हो जाना। चित्त की वीतरागता का दूसरा नाम ही योग है - योग ही कल्प वृक्ष है, अर्थात् योग-प्राप्त होने पर हमें वह शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। जब चित्त वीतराग हो जाता है, तब इन्द्रियाँ विषयों से विमुख होकर मन में विलीन हो जाती है और फिर मन बुद्धि में विलीन हो जाता है और बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धि के सम होते ही दृश्य अर्थात् जिसे हम “यह” कहते थे और दर्शन अर्थात् जिसके द्वारा “यह” की प्रतीति होती थी, वे दोनों अपने में ही अर्थात् दृष्टा में ही विलीन हो जायेंगे और त्रिपुटी का अभाव हो जायगा। त्रिपुटी का अभाव होते ही चिर-

शान्ति तथा स्थायी प्रसन्नता स्वतः प्राप्त होगी। यह नियम है कि जहाँ शान्ति तथा प्रसन्नता आ जाती है, वहाँ निर्वासना स्वतः आ जाती है, कारण कि शान्ति और प्रसन्नता, खिन्नता और नीरसता को खा लेती है। खिन्नता तथा नीरसता-रहित जीवन वासना-रहित जीवन हो जाता है और यह सभी का अनुभव है कि वासना-रहित जीवन में पराधीनता शेष नहीं रहती, अर्थात् एक ऐसी अनुपम स्वाधीनता प्राप्त होती है जिसको पाकर फिर और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। बस ! यह ही कल्याण का स्वरूप है। जब तक हमें कुछ प्राप्त करना शेष है, जब तक हम किसी भी अभाव का अनुभव करते हैं, तब तक हमें मानना होगा कि हमारा कल्याण नहीं हुआ; जैसे पेट भर जाने पर भूख की वेदना स्वतः शान्त हो जाती है और फिर न तो भोजन की ही आवश्यकता रहती है और न उसका चिन्तन ही होता है, वैसे ही अभाव का अभाव होने पर जीवन में स्वतः एक ऐसी अनुपम अलौकिकता आ जाती है कि फिर कुछ करना तथा पाना शेष नहीं रहता। ऐसे जीवन का नाम ही कल्याणयुक्त जीवन है।

हमारे कल्याण का अर्थ क्या है ? हमारे कल्याण का अर्थ यही है कि हमें किसी प्रकार के अभाव का अनुभव न हो। इसके प्राप्त करने में हम और आप पराधीन नहीं हैं। कारण कि जितने भी अभाव हमारे जीवन में हैं, उन सब का मूल एकमात्र राग है। राग-रहित होने पर किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता।

राग-रहित होने के दो उपाय हैं—एक तो यह उपाय है कि अपने पर जो दूसरों का अधिकार है, उसकी पूर्ति कर दी जाय

और अविवेक के कारण दूसरों पर अपना जो अधिकार मान लिया था, उस अधिकार-लालसा का त्याग कर दिया जाय । यदि आप विचार करके देखें, तो यह आपको स्वतः अनुभव होगा कि अधिकार-लालसा भी अपने में किसी अभाव की ही सूचक है और कुछ नहीं । जब हम किसी पर अपना अधिकार मानते हैं, उसी समय हमारा जो मूल्य है, वह जिस पर हम अपना अधिकार मानते हैं, उससे घट जाता है, कहते तो यह है कि हमारा अधिकार ही हमारा अस्तित्व है, परन्तु वास्तव में विचार करके देखें तो यह सिद्ध होजायगा कि अधिकार माँगने वाले का कोई अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व तो उसका होता है जो अधिकार की पूर्ति करता है, क्योंकि अधिकार-लालसा से ही हम अभाव में आवद्ध होजाते हैं । अभाव का अस्तित्व कोई भी विचारक स्वीकार नहीं करता, अभाव में अस्तित्व का भास अविचार सिद्ध ही है । अतः जब कोई दूसरों से अधिकार माँगते हैं और अधिकार देने वालों पर शासन करते हैं और अपना महत्त्व भी प्रकाशित करते हैं, तो इसे बड़े आश्चर्य की बात मानना चाहिये कि अधिकार-लालसा के द्वारा अपना अस्तित्व खोकर भी हम अपना महत्त्व प्रकाशित करते हैं, वास्तव में तो हम अस्तित्व-हीन और परतंत्र होजाते हैं और अभाव में आवद्ध होजाते हैं ।

हम अपने अस्तित्व को कैसे जानें और अभाव की वेदना से कैसे मुक्त हों ? इसी लालसा का नाम कल्याण की लालसा है । हमारा कल्याण केवल इसी बात में निहित है कि हम अपने सभी अधिकारों का त्याग कर दें । आप कहेंगे कि अधिकारों का त्याग

करने के पश्चात् तो हमारा जीवन ही न रहेगा। तो, भाई ! विचार तो करो, जब आपका अस्तित्व दूसरे के कर्त्तव्य पर निर्भर है, दूसरे की उदारता पर निर्भर है, दूसरे की ईमानदारी पर निर्भर है, तो अस्तित्व आपका सिद्ध हुआ अथवा जिस पर आपका अस्तित्व निर्भर है, उसका। हमारा अस्तित्व तभी रह सकता है 'जब हमारे अधिकार सुरक्षित हों, जो दूसरे के कर्त्तव्य, उदारता और ईमानदारी पर निर्भर है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि दूसरे की उदारता, ईमानदारी और कर्त्तव्य को हम अपना अस्तित्व मानते हैं। किन्तु, इससे अपने अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती। अपना अस्तित्व तभी सिद्ध हो सकता है, जब आपको अपने लिये किसी दूसरे की अपेक्षा न हो। जिसको अपने लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती, उसीका अस्तित्व वास्तव में सिद्ध हुआ, और जिसको अपने लिए दूसरे की अपेक्षा रहती है, उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। किन्तु, साधारण प्राणी दूसरों के कर्त्तव्य पर ही अपना अस्तित्व जीवित रखना चाहते हैं।

मानवता हमें एक विचित्र बात बताती है, और वह यह है कि हमारे द्वारा भले ही संसार का अस्तित्व सिद्ध हो, किन्तु हमें अपने अस्तित्व के लिये संसार की अपेक्षा नहीं। आप कहेंगे कि संसार तो इतना बड़ा है कि हम उसके सामने नहीं के बराबर हैं, भला हमारे द्वारा संसार का अस्तित्व सिद्ध होवे और संसार-द्वारा हमारा अस्तित्व सिद्ध न होवे, यह तो एक पागलपन की बात मालूम होती है। आपका यह कथन ठीक है, लेकिन यह ठीक कब तक है ? जब तक कि हम राग के शिकार बने हुये हैं। जब तक हमारे जीवन



में राग की दासता मौजूद है, जब तक यह ही ठीक मालूम होगा कि संसार के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। परन्तु; जिस समय हमारे मन से राग दूर हो जायगा, उस समय यह स्वतः स्पष्ट हो जायगा कि हमारे द्वारा संसार का अस्तित्व है, संसार की बड़ी से बड़ी वासना हमें उसी समय तक अपनी ओर आकर्षित करती है, जब तक कि हमारे मन में किसी प्रकार का राग है। राग की दृष्टि से ऐसा सोचना ठीक है कि संसार के अस्तित्व पर हमारा अस्तित्व निर्भर है, किन्तु राग-रहित होने पर यह बात न रहेगी और हम स्वयम् यह अनुभव करेंगे कि संसार के अस्तित्व पर हमारा अस्तित्व निर्भर नहीं है - हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व है। वह स्वतंत्र अस्तित्व क्या है ? साधन-तत्त्व। कोई भाई यह न समझ बैठे कि यह स्थूल देह ही साधन-तत्त्व है। वास्तव में साधन-तत्त्व का स्वरूप है, जगत् के अधिकारों की रक्षा और भगवन्त-विश्वास, सम्बन्ध, प्रीति एवम् तत्त्व-जिज्ञासा।

अब विचार करें कि मानवता क्या हुई ? भगवान् की प्रीति और जगत् के अधिकार की रक्षा तथा तत्त्व साक्षात्कार। इसी मानवता को साधन-तत्त्व कहते हैं। राग-रहित प्रवृत्ति को चाहे आप सदाचार कहो, संसार का अधिकार कहो, धर्म कहो या कर्त्तव्य कहो, इन्हीं कल्पनाओं तथा मान्यताओं से आप अपने अस्तित्व को प्रकाशित कर सकते हैं।

हमारी साधना की आवश्यकता संसार को सदैव है और हमारी प्रीति भगवान् को भी प्रिय है। अब यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि

क्या हमारी साधना ऐसी महत्त्वपूर्ण वस्तु है, जिसकी आविश्यकता भगवान् को भी है और संसार को भी है। निःसन्देह ही यह सत्य है। आप विचार करें, क्या भगवान् ने अनेक वार यह नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ ? शरणागति साधना नहीं तो क्या है ? और क्या संसार आपके सामने नहीं कहता कि हमारे अधिकार की रक्षा करो ? अब विचार करो, संसार भी आपके सामने अधिकार की रक्षा के लिये आता है और भगवान् भी आप से कहते हैं कि तू मेरी शरण में आजा। तात्पर्य क्या है ? तुम्हारी माँग संसार को भी है और तुम्हारी माँग भगवान् को भी है। अन्तर केवल इतना है कि संसार को तो तुम्हारी माँग अपनी कामना-पूर्ति के लिये है, और भगवान् को तुम्हारी माँग तुम्हारे ही कल्याण के लिये है। कारण कि वे स्वभाव से ही प्राणी के परम सुहृद हैं। यदि कोई कहे कि जिस संसार को हमारी माँग है, क्या उस संसार की हमें माँग नहीं है ? कदापि नहीं। कारण कि अपने को देह से अतीत अनुभव करने पर किसी को भी संसार की चाह नहीं रहती। अतः यह सिद्ध हुआ कि हमें संसार की चाह नहीं है, किन्तु जब हम अविवेक के कारण देह से मानी हुई एकता स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें अपने में संसार की चाह का भास-मात्र होता है, वास्तव में नहीं। संसार की चाह निवृत्त होने पर अपना अस्तित्व एक मात्र अचाह-युक्त प्रीति ही रह जाती है, जो प्रभु को प्रिय है। यदि हम उसे प्रभु की आवश्यकता कह दें तो अत्युक्ति न होगी। प्रीति प्रभु को और प्रभु प्रीति को सदैव चाहते हैं। किन्तु, प्रीति का स्वरूप वास्तव में चाह-रहित ही है, क्योंकि कि प्रेम चाह-युक्त

नहीं हो सकता। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि हमें वास्तव में  
अचाह ही होना है।

आप विचार करके देखें, तो आपको यह स्पष्ट सिद्ध हो  
जायगा कि “आप” बड़े ही सुन्दर हैं। “आप” का अर्थ आपका  
शरीर या “अहम्” भाव नहीं, बल्कि आप में छिपी हुई मानवता  
अथवा आपकी साधना है। आपकी साधना का जो समूह है, उसीका  
नाम मानवता है और उसी का फल कल्याण है, तो कल्याण का अर्थ  
क्या हुआ ? जिसकी माँग प्रभु को हो और जिसकी माँग संसार को  
हो, जो इतनी प्यारी वस्तु हो जाय कि जिसके लिये संसार तरसत  
हो और जिसको बिना अपनाये भगवान् भी न रह सक।

भगवत-प्रेम के बिना कल्याण बन नहीं सकता। यदि आप  
आस्तिक दृष्टिकोण से विचार करें, तो यह आपको मानना ही होगा  
कि भगवान् को आपकी प्रीति की माँग है। आपकी प्रीति भगवान्  
को अभीष्ट है और आपके सदाचार, आपके संयम, आपकी सेवा  
की आवश्यकता संसार को है। इन दोनों दृष्टियों को सामने रखकर  
आप यह कह सकेंगे कि सदाचारयुक्त जीवन ही संसार को अभीष्ट  
है। परन्तु, इससे आप यह न समझें कि संसार को आपका शरीर  
अभीष्ट है।

जिस शरीर को आप अपना अस्तित्व मानते हैं, यह तो  
आपका और हमारा अविवेक है। शरीर हमारा अस्तित्व नहीं है  
हमारी जो साधना है, हमारा जो आचरण है, वही हमारा अस्तित्व  
है। शरीर के न रहने पर भी आपका आचरण तथा आपकी साधन

एवम् विचारधारा सतत रहेगी और समाज में विधान के रूप में आदर पाती रहेगी । शरीर नहीं रहेगा, बोलने वाली वाणी नहीं रहेगी, पर बोली हुई मधुरता सदैव रहेगी, बोली हुई सत्यता सदैव रहेगी । संकल्प करने वाला मन न रहेगा, लेकिन शुद्ध संकल्प सदैव रहेगा । विवेक का प्रकाश करने वाली बुद्धि न रहेगी, पर विवेक रहेगा । इस दृष्टिकोण से साधन-तत्त्व भी नित्य है, और साध्य-तत्त्व भी नित्य है । प्रीति नित्य है, और प्रीतम भी नित्य है । इससे यह सिद्ध हुआ कि आपका अस्तित्व अजर अमर होकर रहेगा, क्योंकि उसकी माँग जगत् को है, उसकी माँग प्रभु को है ।

आपके कल्याण का अर्थ क्या हुआ ? भगवान् के अधिकार की रक्षा, जगत् के अधिकार की रक्षा । जगत् के अधिकार की रक्षा करने से जगत् से मुक्ति, और भगवान् के अधिकार की रक्षा करने से भगवत-प्राप्ति ।

यदि आप गम्भीर दृष्टि से विचार करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति का अस्तित्व क्या है ? समाज के अधिकारों का समूह । व्यक्ति का जीवन क्या है ? जिस जीवन से सभी के अधिकार सुरक्षित हों, उसी का नाम वास्तव में मानव-जीवन है । मानवता इतना महत्त्वपूर्ण तत्त्व है कि जिसकी माँग सदैव सभी को रहती है ।

आपका साधन-युक्त जीवन ही आपका अस्तित्व है । इस अस्तित्व को आप सुरक्षित रखने के लिये अपने को मानव मान लें और छिपी हुई मानवता को विकसित कर अपने को सुन्दर बना लें ।

सुन्दर बनने का अर्थ हो जाता है, अचाह पद । अचाह का अर्थ है—अपनी कोई चाह नहीं रहती । जहाँ अपनी कोई चाह नहीं रहती, वहाँ बन्धन नहीं रहता, वहाँ पराधीनता नहीं रहती, वहाँ जड़ता नहीं रहती । वहाँ चिन्मयता आ जाती है, स्वतंत्रता आ जाती है और जीवन में एक ऐसी विलक्षणता आ जाती है, जिसको प्रकट करने के लिये शब्द नहीं हैं; परन्तु उसका अस्तित्व है । उसी जीवन को आप चिन्मय जीवन कह सकते हैं, आस्तिक जीवन कह सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन कह सकते हैं अथवा मानव-जीवन कह सकते हैं । मानव-जीवन उसे कहते हैं कि जिस जीवन में किसी के अधिकार का अपहरण न होने पावे और जिस जीवन की आवश्यकता सर्वदा सब ही को बनी रहे, उसी जीवन का नाम मानव-जीवन है और वह जीवन हम और आप प्राप्त कर सकते हैं । केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना है । इस सदुपयोग का नाम ही किसी ने पुरुषार्थ रख दिया, किसी ने कर्तव्य रख दिया और किसी ने साधना रख दिया । परिस्थिति के सदुपयोग के ही यह सब नाम हैं । यदि हमें अपना कल्याण अभीष्ट है तो अचाह होना अनिवार्य है ।

अब विचार यह करना है कि चाह की उत्पत्ति कब होती है और क्यों होती है ? चाह की उत्पत्ति तब होती है, जब हम अपने को मानव न मान कर देह मान लेते हैं । आप कहेंगे कि देह मानने और मानव मानने में क्या भेद है ? इसमें एक भेद है, देह मान कर हम अधिकार-लालसा में आवद्ध होते हैं और मानव मानकर कर्तव्य पालन में प्रवृत्त होते हैं, जिस समय जीवन में अधिकार लिप्सा

दिखाई देती है, उसी समय विचार करना चाहिये कि हम देह हैं या मानव, यदि आपको स्मरण आ जाय कि हम देह नहीं हैं, हम तो मानव हैं, तो स्वयम् आप यह कहने लग जायेंगे कि हमें तो दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी है, “अपने” को कुछ अधिकार लालसा नहीं है।

आप विचार करके देखें, एक रोगी है, वह यह चाहता है कि स्वस्थ व्यक्ति उसकी सेवा करे। क्या वेचारा रोगी सुखी होकर सेवा कराना चाहता है ? कदापि नहीं। सुखी तो सेवा करता है। आपको मानना पड़ेगा कि सेवा करने वाला तो सुखी सिद्ध होता है, लेकिन सेवा कराने वाला दुखी सिद्ध होता है। तो, अधिकार माँगने का अर्थ क्या है ? इसका अर्थ है, अपने को दुखी सिद्ध करना। अधिकार देने का अर्थ क्या है ? अपने को सुखी सिद्ध करना। तो, आप सोचिये कि क्या हम अपने को दुखी स्वीकार करें या सुखी सिद्ध करें ? आपको कहना पड़ेगा कि अपने को दुखी स्वीकार करना किसी को भी अभीष्ट नहीं है, अपने को सुखी सिद्ध करना ही सब को अभीष्ट है। यह स्वभाव मानव का स्वभाव है। मानव को तो केवल अपना कर्तव्य दिखाई पड़ता है, अधिकार नहीं। मानवता विकसित होने पर अधिकार-लालसा शेष नहीं रह जाती, और जब अविवेक के कारण मानवता नहीं रह जाती और देहाभिमान जागृत होता है, तब केवल अधिकार ही दिखाई देते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि हम में जो अधिकार की लालसा है, वह अपने को देह मानने पर ही होती है, जो प्रमाद है। तो क्या हम देह में आवद्ध होकर रहना पसन्द करेंगे ? कदापि नहीं।

किसी से कोई पूछे कि तुम खून में, हड्डियों में, मांस में, मज्जा में, मूत्र में रहना चाहते हो ? तो, सभी विचार-शील यही कहेंगे कि नहीं रहना चाहते, कारण कि मलीनता किसी को प्रिय नहीं। अब हम स्वयं सोचें कि देह में मलीनता के अतिरिक्त क्या है, तो मानना होगा कि कुछ नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि हम मलीनता को अपना कर ही अधिकार-लालसा से आवध होते हैं, और जिन्हें निर्मलता प्रिय है वे कर्तव्य-परायण होते हैं। जब हम मल-मूत्र से अलग रहें, तो अधिकार की कौनसी माँग आती है, आप बताइये ? कोई भाई-बहिन बतावे कि अपने को देह से अलग मान कर आपको कौनसे अधिकार चाहिये ? मान चाहिये तो देह बन कर, वस्तु चाहिये तो देह बन कर, भोग चाहिये तो देह बन कर, कोई परिस्थिति विशेष चाहिए तो देह बन कर, व्यक्ति विशेष की जरूरत हो तो देह बन कर। तीनों देह से असंग होने पर न किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, न किसी अवस्था की जरूरत होती है, न किसी परिस्थिति की जरूरत होती है, तो फिर क्या शेष रह जाता है ?

जब अपने को देह से अलग अनुभव करते हैं, तब निर्वासना आजाती है और जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। देह से अलग होने पर ही निर्वासना-पद प्राप्त होता है और प्रेम का उदय होता है। कारण कि चाह-रहित प्राणी ही प्रेम कर सकता है। जो कुछ नहीं चाहता, वही प्रेम कर सकता है और जो कुछ नहीं चाहता, वही मुक्त हो सकता है। स्वाधीनता तथा प्रेमपूर्ण जीवन ही कल्याण-

युक्त जीवन है। कल्याण का अर्थ है जहाँ अगाध अनन्त नित्य-नव-रस हो। वही अमर जीवन है। जहाँ देह है, वहीं मृत्यु है। देह से अतीत जीवन तो चिन्मय है और वही अमरत्व है। देह से अलग होकर कोई वासना उदय नहीं होती, जहाँ वासना का उदय नहीं है, वहाँ स्वाधीनता और मुक्ति होगी और जहाँ स्वाधीनता होगी, वहाँ प्रेम अवश्य होगा। तो भाई, प्रेम रहे, जीवन रहे, स्वाधीनता रहे, इसका नाम हुआ कल्याण। जहाँ मृत्यु प्रवेश कर सके, जहाँ पराधीनता आ सके और जहाँ बन्धन हो, इसी का नाम अकल्याण है। अब हमारा कल्याण किस पर निर्भर है? हमारे कर्त्तव्य और हमारी साधना पर, न किसी दूसरे के कर्त्तव्य पर। यदि कल्याण चाहने वाले भाई-बहिन यह सोचते हैं कि हमारा कल्याण किसी और पर निर्भर है तो मानना पड़ेगा कि वे, अपना कल्याण नहीं चाहते। आपका कल्याण तो आप पर ही निर्भर है, अर्थात् आपके साधन पर निर्भर है। साधन के दो भाग हैं। अचाह होना और दूसरों की हितकारी चाह को पूरा करना। कोई कहे कि यदि हम अचाह रहना चाहते हैं, तो दूसरों की चाह की पूर्ति क्यों करें, तो इसका उत्तर यह है कि आप दूसरों की चाह की पूर्ति इसलिये करें कि आप में अचाह होने का बल आजाय। जो दूसरे की चाह की पूर्ति नहीं करता, वह अचाह नहीं रह सकता। जब दूसरे की चाह हमारा जीवन बन जायगी, तभी हम अचाह हो सकते हैं। समाज के अधिकारों के समूह का नाम ही व्यक्ति का जीवन है। इन अधिकारों की रक्षा कर देना ही अचाह होने का सुगम उपाय है, इसमें यह



सिद्ध हुआ कि सुन्दर समाज के निर्माण में ही हम अचाह होने की योग्यता सम्पन्न कर सकते हैं । सुन्दर समाज का निर्माण तो हमारी वह साधना है, जो हमें अचाह बनादे और अचाह वह साधना है, जो सुन्दर समाज के निर्माण की योग्यता विकसित कर दे । इससे यह सिद्ध हुआ कि साधना के दो भाग होने पर भी वास्तव में दोनों एक ही हैं । इसका विभाजन नहीं हो सकता । इस दृष्टिकोण से हमें और आपको अपनी वस्तुस्थिति पर, अर्थात् अपनी वर्तमान दशा पर विचार करना चाहिये । प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक जो प्रवृत्ति हमारे द्वारा होती है, उस प्रवृत्ति से दूसरे के संकल्प की पूर्ति होती है या नहीं, यह देखना चाहिये । यदि हमारी प्रवृत्ति दूसरों के शुद्ध संकल्पों को पूरा करती है, तो हम अवश्य अचाह-पद का प्राप्न कर लेंगे और यदि हमारी प्रवृत्ति दूसरों के द्वारा अपने संकल्प पूरे कराने में रत है, तो हम अचाह न हो सकेंगे । इस प्रकार अपने कल्याण का साधन यह है कि हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति में दूसरों का हित निहित हो और किसी का हित न कर सकें, तो निवृत्ति को अपना कर चाह से मुक्त हों । अचाह-पद का अर्थ है सहज निवृत्ति । सहज निवृत्ति का अर्थ है, वृत्ति का स्फुरण न होना और स्फुरण न होने का फल है "अपना" प्रेम । वृत्तियों के स्फुरण अर्थात् "स्वः" से "पर" की ओर गतिशील होने से ही हम अपने प्रेमास्पद से विमुख हो कर संसारोन्मुखी हो जाते हैं, और फिर उसमें आसक्त हो कर रागी बन जाते हैं, और रागी बन कर भोगी बन जाते हैं और भोगी होकर रोगी

हो जाते हैं और रोगी होकर व्यथित हो जाते हैं, इसी का नाम अकल्याण, अमानवता तथा पशुता है ।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि कोई अपने को दूसरे की चाह पूरी करने में निर्वल पाता है, तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा ? इसका उत्तर यह है कि यदि कोई सचमुच दूसरे की चाह पूरी करने में असमर्थ है, तो उसे अपनी भी कोई चाह नहीं रखनी चाहिये । तब भी साधन-निर्माण हो जायगा; क्योंकि चाह-रहित होने से कर्तव्य-परायणता की शक्ति स्वतः आ जाती है । किन्तु, यदि कोई अपनी चाह-पूर्ति की तो आशा करता है और दूसरे की चाह-पूर्ति से निराश रहता है, तो यह उसका प्रमाद है, क्रोध है, द्वेष है, जो उसे कर्तव्यनिष्ठ नहीं होने देता, जो अकल्याण का हेतु है । जिस अंश में हमारे कर्तव्य से दूसरे की चाह को पूर्ति होती है, उसी अंश में हमारा जीवन उदारता तथा प्रेम से भर जाता है, जो कल्याण का हेतु है । और जिस अंश में हम अपनी चाह-पूर्ति को सोचते हैं, उसी अंश में हम परतंत्र तथा भांगी हो जाते हैं, जो अकल्याण का हेतु है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जिसे अचाह-पद अभीष्ट है, उसके लिये दूसरों की चाह-पूर्ति में और अपनी चाह की अपूर्ति में कोई अन्तर नहीं है, कारण कि अचाह में जो रस है, वह चाह-पूर्ति में नहीं है । चाह-पूर्ति का रस तो पुनः चाह उत्पन्न करता है, और अचाह होने पर पुनः चाह उत्पन्न न होगी । अचाह होने से कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि चाह-पूर्ति के पदचान् भी प्राणी उसी दशा में आ जाता है, जो चाह की उत्पत्ति से पूर्व थी । तो, फिर चाह-पूर्ति

करने का प्रयत्न ही निरर्थक सिद्ध हुआ । इसी रहस्य को जानकर विचारशील दूसरों की चाह पूरी करते हुये भी स्वयम् अचाह रहते हैं ।

चाह का जन्म अविवेक से होता है । इसी का नाम अमानवता है । अतः अविवेक और अमानवता एक ही बात है । और चाह की निवृत्ति विवेक से होती है, और उसी का नाम मानवता है ।

जब आप “अहम्” से रहित हो जायेंगे, तो राग न रहेगा । राग के न रहने पर भोग वासनाएँ मिट जायेंगी, भोग योग में बदल जायगा, फिर अध्यात्मवाद का जन्म होगा जो असर जीवन प्राप्त कराने में समर्थ है । मानवता आ जाने से ही सुन्दर समाज का निर्माण होगा, जो भौतिकवाद की पराकाष्ठा है । मानवता आ जाने से ही परम प्रेम प्राप्त होगा, जो आस्तिक जीवन है और प्रभु-प्राप्ति का साधन है । अतएव असर जीवन, सुन्दर समाज का निर्माण तथा अगाध, अनन्त नित-नव-रस मानव को मानवता विकसित होने पर प्राप्त हो सकता है । इस दृष्टि से प्रत्येक भाई-बहिन को मानव होने के लिये अथक प्रयत्नशील होना चाहिये । ॐ

४

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव,

कल सेवा में निवेदन किया था कि साधना का सार चाह रहित होना अथवा समाज की चाह की पूर्ति करना है। अर्थात् होने के लिये सबसे प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि हम यह जान लें कि चाह की उत्पत्ति का कारण क्या है? चाह की उत्पत्ति का कारण यदि विवेक-दृष्टि से देखा जाय, तो एकमात्र अविवेक है। और अविवेक क्या है? अविवेक कहते हैं-विवेक के अनादर को। अविवेक का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। जो विवेक है, उस विवेक का हम अनादर करते हैं, अर्थात् जाने हुये को नहीं मानते, उसी का नाम अविवेक है। किसी भाई से यह कहा जाय कि क्या वह वही है जो कुछ काल पूर्व अमुक स्कूल में हमारे साथ पढ़ता था, तो वह कहेगा, हाँ! मैं वही हूँ; परन्तु अब मैं अमुक पद पर नियुक्त हो गया हूँ और पढ़ने वाला भी यह कहेगा कि भाई मैं भी वही हूँ और अब भिखारी बन गया हूँ। दोनों की अवस्था में बड़ा भेद है, किन्तु दोनों के इस ज्ञान में भेद नहीं है कि मैं वही हूँ। जो आज एक पद-विशेष पर स्थित है और जो एक दीनता में आसक्त है, वे दोनों यही जानते हैं कि हम दोनों वही हैं जो पहिले थे। परिस्थितियों का भेद होने पर

भी अपना भेद स्वीकार नहीं करते । इससे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि परिस्थिति में और अपने में भिन्नता है । इस भिन्नता को जान कर भी परिस्थिति से अभिन्न रहना यह अविवेक है । हम जानते हैं कि हम और हमारी अवस्था, और हम और हमारी परिस्थिति, हम और हमारी वस्तुएँ हम से भिन्न हैं । परन्तु, जानते हुए भी परिस्थिति से ही अपने को मिला लेते हैं । जहाँ हमने अपने को किसी परिस्थिति से मिलाया, वहीं किसी न किसी प्रकार की चाह उत्पन्न हुई । इस प्रकार चाह की उत्पत्ति का मूल कारण निज-विवेक का अनादर ही हुआ ।

अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आजाता है कि हम जाने हुये का अनादर क्यों करते हैं ? इसका कारण क्या है ? इस पर यदि आप विचार करें, तो यह विदित होगा कि जाने हुये का अनादर करने में कोई वाद्य हेतु नहीं है । ऐसी बात नहीं है कि किसी परिस्थिति ने ऐसा हमें बना दिया कि हम जाने हुये का भी अनादर करें और न किसी और व्यक्ति ने ऐसा कर दिया कि हम जाने हुये का अनादर करें । जाने हुये के अनादर का एक-मात्र कारण परिस्थिति द्वारा सुख लेने की आसक्ति है और कोई कारण नहीं ।

परिस्थिति द्वारा सुख लेने की आसक्ति क्या है ? यह मानना होगा कि परिस्थिति में और अपने में जो हमने एकता मानली है, उस एकता की सत्यता इतनी दृढ़ हो गई है कि हमारी सत्ता से परिस्थिति सत्ता पाकर हमी पर शासन करने लगी है । परिस्थिति अपनी सत्ता से हम पर शासन नहीं करती है,

किन्तु सत्ता हम से लेती है, चेतना हमसे लेती है और हम पर ही शासन करती है। यही कारण है, परिस्थितियों में सुख की आसक्ति होने का। यदि हम अपनी सत्ता को परिस्थितियों से असंग कर लें, तो बेचारी परिस्थिति कभी हमें मूँह नहीं दिखाती और न हम पर शासन ही करती है, और न हमें कभी दीन और अभिमानी ही बनाती है और न हममें चाह-उत्पन्न करती है। सभी विकार हमारे इस प्रमाद से उत्पन्न हुये हैं कि हमने अपनी सत्ता परिस्थिति को देकर अपने को परिस्थिति का दाम बना लिया है। यदि विवेकी साधक परिस्थिति से अपनी सत्ता वापस ले ले, असंग हो जाय, विमुख हो जाय, तो बड़ी सुगमता से अचाह-पद को प्राप्त कर सकता है। अचाह होने पर प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूलता में बदल जाती है और अनुकूल परिस्थिति से असंगता आजाती है। यह अचाह की महिमा है। इस महिमा पर जिसका विश्वास हो जाता है, अथवा इस महिमा को जो अनुभव कर लेते हैं, वे बड़ी सुगमता से प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग कर अपने को परिस्थिति से असंग कर लेते हैं। परिस्थितियों के सदुपयोग का नाम ही वास्तव में कर्त्तव्य-परायणता है, कारण कि ऐसा कोई कर्त्तव्य नहीं है जो किसी परिस्थिति से सम्बन्धित न हो। अतः हमें अपनी परिस्थिति से भयभीत नहीं होना चाहिये और न उसकी दाम्पता में ही आवद्ध होना चाहिये। न अप्रान्त परिस्थितियों का आह्वान करना चाहिये और न प्रान्त परिस्थितियों से घृणा करनी चाहिये, चाहे वे दीन्दने में कितनी ही प्रविष्ट हों। हमें उन परिस्थिति

का आदर-पूर्वक स्वागत करते हुये उसका सदुपयोग करने में प्रयत्न-शील रहना चाहिये। इससे हम और आप बड़ी ही सुगमता-पूर्वक परिस्थितियों की दासता से मुक्त हो जावेंगे। परिस्थितियों की दासता से मुक्त होना ही मुक्ति है।

एक बात बहुत गम्भीरता से विचार करने की है कि मुक्ति होना भी साधना ही है, साध्य नहीं, यहाँ कुछ जिज्ञासु सोचने लगेंगे कि भाई मुक्ति के बाद तो कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है; फिर यह कहते हैं कि मुक्ति भी साधन ही है। आप विचार करें, किसी भूख से पीड़ित प्राणी से पूछें कि भोजन का करना अथवा भूख का दूर होना यह दो बातें हैं या एक ? तो, वह कहेगा "जितने-जितने अंश में हम भोजन करते हैं, उतने-उतने अंश में भूख से मुक्ति होनी जाती है।" भोजन की पूर्णता और भूख से मुक्ति एक ही वस्तु हैं। जब उससे पूछा जाय कि भाई भूख से जो मुक्ति मिलती, वह किस लिये ? तो, वह कहेगा कि तृप्ति के लिये। तो, क्या मुक्ति से तृप्ति कोई अलग चीज है ? तो, कहेगा, यह तो नहीं कह सकता कि मुक्ति और तृप्ति में कितना भेद है ? पर, यह अवश्य कह सकता है कि मुक्ति के पदचान ही तृप्ति हो जाती है। यह नियम है कि जो जिसके पदचान आती है, वह उसी का साध्य होता है और जिसके द्वारा आती है वह साधन होता है। इस दृष्टि से परिस्थिति से मुक्त होना भी एक साधन ही सिद्ध हुआ। वस्तु, जो लोग उसी से गन्तु हो जाते हैं, वे सब साधन के लिये उसे साध्य मान सकते हैं। जैसे उन्मिदित से ही सब वस्तु मिलने पर कष्ट काय के लिये सभी को तृप्ति का अनुभव

होता है, परन्तु कालान्तर में फिर एक नई इच्छा उदय होती है—इसी प्रकार मुक्ति प्राप्त हो जाने पर एक ऐसे अनुपम जीवन का उदय होता है कि जिस जीवन में न तो किसी प्रकार का अभाव ही है और न चाह की उत्पत्ति ही है। इस प्रकार अचाह-पद साधन है नित्य वृत्ति का।

अत्र विचार यह करना है कि अचाह साधन कब है ? वासनाओं की निवृत्ति में। अचाह साध्य कब है ? लक्ष्य की पूर्ति में। क्योंकि चाह की पूर्ति में भी एक अचाह है और चाह की निवृत्ति में भी एक अचाह है, तो चाह की निवृत्ति और पूर्ति में क्या अन्तर है ? चाह की निवृत्ति की बात वही कही जाती है, जहाँ परिस्थिति से सम्बन्ध रखने वाली चाह का उदय हो और चाह की पूर्ति की बात वही कही जाती है, जहाँ परिस्थितियों से अतीत चिन्मय जीवन हो। चिन्मय जीवन की प्राप्ति को चाह की पूर्ति और वासनाओं की निवृत्ति को चाह की निवृत्ति कहेंगे। चाह की निवृत्ति और चाह की पूर्ति ये दोनों एक मालूम होते हुये भी एक बड़ा ही विचित्र भेद रखते हैं। चाह की निवृत्ति में दुख की निवृत्ति निहित है और चाह की पूर्ति में आनन्द की उपलब्धि निहित है। दुख की निवृत्ति और आनन्द की उपलब्धि इन दोनों को जो मानते हैं, वे चाह की निवृत्ति के साथ-साथ चाह की पूर्ति की भी चर्चा करते हैं। और जो केवल दुख की निवृत्ति को ही साध्य मानते हैं, वे आनन्द के प्राप्ति पर सोच ही नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं है कि चाह की निवृत्ति के पश्चात् चाह की पूर्ति नहीं हुई—बल्कि यह है कि चिन्मय वह है, जो न चाह है



उसे नहीं कहते जो किसी के न मानने से अथवा किसी के वर्णन न करने से न रहे। सत्य तो उसे कहते हैं जो आप जानें तो सत्य, न जानें तो सत्य, मानें तो सत्य और न मानें तो सत्य और उसके संबंध में मौन रहें तो सत्य। अतः दुख की निवृत्ति के पश्चात् जो उपलब्ध होता है, उसी का नाम सत्य है। तो, अन्तर केवल यह रहा कि जिन्होंने वर्तमान पर ही विचार किया और भविष्य के लिये मौन हो गये, वे तो यह ही कहेंगे कि चाह की निवृत्ति ही जीवन है। और जिन्होंने वर्तमान के परिणामों पर भी विचार किया वे कहेंगे कि चाह की पूर्ति भी जीवन है। अर्थात् दुख की निवृत्ति भी जीवन है और आनन्द की उपलब्धि भी जीवन है। एक बार मैं अपने एक साथी से चर्चा कर रहा था—दूसरे भाई ने पूछा कि आपके और उनके विचारों में क्या भेद है? उन्होंने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा कि मैं तो यह कहता हूँ कि गर्मी मिट जायगी और स्वामी जी यह कहते हैं कि ठण्डा बगीचा भी मिल जायगा। और कोई अन्तर नहीं है।

तो, मेरा आग्रह यह नहीं है कि हर एक भाई चाह की निवृत्ति और चाह की पूर्ति दोनों को ही माने, किन्तु निवेदन यह है कि चाह की निवृत्ति में आपका पुरुषार्थ अपेक्षित है और चाह की निवृत्ति के पश्चात् जिस जीवन से अभिन्नता होनी है उसमें कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं रहता है; क्योंकि चाह का समूह जो सीमित अहम् था, वह चाह की निवृत्ति से मिट जाता है। प्रयत्न का जन्म जिस अहम् से होता है, वह अहम् नहीं रहा।

जो अप्रयत्न जीवन है, उसकी चर्चा करें तो कोई विशेषता

नहीं आ जाती और न करें तो कोई क्षति नहीं हो जाती है। इसलिये अचाह तक जो सब विचारकों का एक मत है और उसके पश्चात् जो अप्रयत्न जीवन है उसमें अपना-अपना दृष्टिकोण है। कोई मुक्ति के पश्चात् भक्ति मानता है और कोई मुक्ति के पश्चात् मौन हो जाता है। किन्तु, मुक्ति तक तो सब ही साथ हैं।

अब प्रश्न यह है कि जब अचाह-पद ही मुक्ति-पद है, तो अचाह-पद की प्राप्ति हमें कैसे हो ? उसके लिये अभी निवेदन किया कि अपने जाने हुये ज्ञान का आप अनादर न करें और आप यह जानते हैं कि सब परिस्थितियों में आप एक हैं, सब परिस्थितियों में आप अपरिवर्तनशील हैं, तो अपने अपरिवर्तनशील जीवन को इस परिवर्तनशील जीवन में मिलाकर न देखें, अलग करके अनुभव करें। और उसका अनुभव कल पर न छोड़ें, भविष्य पर न छोड़ें, वर्तमान में करें। वर्तमान उसको कहते हैं, जिसके लिये लेशमात्र भी भविष्य अपेक्षित न हो।

एक और गहरी बात है कि वर्तमान में जिसका अनुभव होगा, उसके लिये कोई भी प्रयत्न अपेक्षित नहीं होगा। यह बड़ी गहरी भरी बात है और इसमें बहुत से लोग उलझ जाते हैं—उलझन यह होती है कि प्रयत्न तो उत्पन्न होता है अहम् भाव से और अनुभव होता है अहम् मिटने से। बोध तत्त्व है, और अहम् कृति। ज्ञान कृति-रहित है। जो कृति-रहित है, उसे कृति से नहीं प्राप्त कर सकते। कहा यह जाता है कि वर्तमान में अनुभव करें, पर यहाँ "करें" का अर्थ यत्न-प्रयत्न नहीं है। अनुभव के लिये अप्रयत्न ही प्रयत्न है।

अप्रयत्न होते ही अहम् मिटने लगता है। गुणों का आश्रय छूटने लगता है। ऐसी दशा में कभी-कभी साधक बचराकर पुनः अहम् के द्वारा प्रयत्न करके अपने परिस्थिति-जन्य मोह को सुरक्षित रखने लग जाता है, जो वास्तव में प्रमाद है। अतः साधक बड़ी सावधानी से अपने उस जीवन का जिसमें परिवर्तन न हुआ है और न होगा, अनुभव किसी कृति द्वारा न करे, प्रयत्न द्वारा न करे, किन्तु अप्रयत्न होकर ही करे।

यदि कोई कहे कि अनुभव करना और अप्रयत्न होना, ये दो विरोधी बातें हैं, तो अप्रयत्न होना और अनुभव करना इनमें विरोध नहीं है। अनुभव करना लक्ष्य है, अप्रयत्न साधन और यह नियम है कि साधन-पूर्ण होने पर साध्य से अभिन्न हो जाता है। अतः अप्रयत्न होने पर लक्ष्य से स्वतः अभिन्नता हो जाती है।

अप्रयत्न होने के लिये अन्तः वाद्य मौन होना अनिवार्य है। अथवा यों कहो कि अन्तः वाद्य मौन ही अप्रयत्न है। अन्तः वाद्य मौन एक ऐसा सुगम स्वाभाविक और समर्थ साधन है कि जिसके सिद्ध होने पर सबल से सबल और निर्बल से निर्बल सभी साधक समान हो जाते हैं। बोलने में भेद है, पर न बोलने में कोई भेद नहीं, देखने में भेद, न देखने में कोई भेद नहीं, सुनने में भेद, न सुनने में कोई भेद नहीं, गति में भेद, गति-रहित होने में कोई भेद नहीं, सोचने-समझने में तथा चिंतन में भेद है, पर उनके न होने में कोई भेद नहीं है। जिस साधन में सभी साधक विलीन हो जाते हैं, उसी को अन्तिम साधन मानना होगा। इस अन्तिम साधन में सभी साधक

एक हैं। किन्तु, यह साधन किस प्रकार होगा ? हमें न देखने के लिये सही देखना होगा, न बोलने के लिये सही बोलना होगा, न सुनने के लिये सही सुनना होगा, न सोचने के लिये सही सोचना होगा। इसी का नाम है जो करना चाहिये, उसको करना। यह नियम है कि जो करना चाहिये उसके करने से न करना स्वतः आ जाता है और फिर उससे उपर्युक्त साधन की सिद्धि हो जाती है। यदि कोई कहे कि बिना सही किये हम “न करना” प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी सम्भव नहीं है, कारण कि करने का राग सही करने से ही निवृत्त होता है। सही करने का अर्थ है कि जिस प्रवृत्ति से जिनका सम्बन्ध है, उनके अधिकार की रक्षा। जैसे, हम बड़ी बोलें जिससे सुनने वाले का हित तथा प्रसन्नता हो और अगर हम बंसा न बोल सकें तो बोलने के राग से रहित होकर मौन हो जाय।

एक बार मेरे जीवन में घोर दुःख हुआ। उस दुःख से दुखी होकर सोचने लगा कि मुझे इस अभावयुक्त जीवन को नहीं रखना चाहिये। जिस जीवन की माँग संसार को नहीं है, उस जीवन को रखने से कोई लाभ नहीं। यह नियम है कि यदि दुःखी अपने दुःख का कारण किसी और को न माने, तो दुःख दुःखी के प्रमाद का विनाश कर देता है। यह जो हम आज दुःखी होते हैं और हमारा विकार नहीं होता है, उसका कारण एकमात्र यह ही है कि हम दुःख का कारण दूसरों को मानते हैं। यदि हम अपने दुःख-काल में अपने दुःख का कारण किसी और को न मानें, तो यह हमारा दुःख हमारे प्रमाद को नष्ट करता है और जब वह दुःख प्रमाद को नष्ट करता है, तो जीवन में एक

नवीन आशा का संवार हो जाता है और एक ऐसा पथ दीख जाता है जो चेतना देता है। दुखी में कर्तव्य-परायणता उदय हो जाती है। जब दुख ने मुझ पर कृपा की और मेरे प्रमाद को हर लिया, तब मैं विचार करने लगा कि हे संसार देवता ! तुम मुझे इसलिये नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे काम नहीं आ सका। पर, तुम भी तो मेरे काम न आ सके। इस विचार के दृढ़ होते ही मुझे अपने में और संसार में समानता का अनुभव होने लगा। उसके होते ही दीनता का दुख मिट गया, उसके मिटते ही अभिमान भी गल गया। उसके गलते ही जीवन विवेक के प्रकाश से प्रकाशित हो गया, और फिर जो मेरे विना रह सकता है, उसके विना रह सकने का साहस हो गया, जिसने जीवन को साधन-युक्त कर दिया और मैंने यह नियम बना लिया कि उन प्रवृत्तियों का आरम्भ ही न करूँगा जिसमें दूसरों का हित तथा प्रसन्नता निहित नहीं है। कुछ काल निवृत्ति रहने से सर्व हितकारी प्रवृत्ति की शक्ति स्वतः आ जाती है, यह प्राकृतिक नियम है। अतः जब मैं संसार से विमुख होकर शान्त रहने लगा, तब संसार को स्वतः आवश्यकता होने लगी। किन्तु, जब-जब सम्मान के रस में आवद्ध हुआ, तब-तब संसार मुझसे विमुख होने लगा। मेरा यह अनुभव है कि संसार से सुख लेने की आशा ने ही सदैव दुख दिया है और बेचारे दुख ने सदैव संसार से निराश होने का पाठ पढ़ाया है, जिससे दुखी से दुखी को भी नित्य चिन्मय आनन्द मिला है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि साधक भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी

साधन का निर्माण कर सकता है और साध्य से अभिन्न हो सकता है। उपर्युक्त पाठ ने बोलने की सामर्थ्य होते हुये भी वाणी को मौन कर दिया, गति रुकने लगी, चञ्चलता स्थिरता में बदलने लगी और जैसे-जैसे चञ्चलता स्थिरता में बदलने लगी, वैसे-वैसे छिपे हुये राग की पूर्ति भी होने लगी; अर्थात् जिस दुख से दुखी होकर मन संसार से निराश हुआ था, वह दुख सुख में बदलने लगा। यह मेरा ही अनुभव नहीं है, बहुधा साधकों का अनुभव है। कारण कि यह नियम है कि जिस कठिनाई को शान्तिपूर्वक सहन कर लिया जाता है, वह कठिनाई स्वयम् हल हो जाती है। शान्तिपूर्वक सहन करने का अर्थ है, अपने दुख का कारण किसी और को न मानकर दुख को सहन कर लेना। सुख आने पर अपने-से दुखियों को बिना किसी अभिमान के वितरण कर देना चाहिये, चूँकि सुख वास्तव में दुखियों की ही धरोहर है, उसे अपना नहीं मानना चाहिये। अन्तर केवल यह है कि आस्तिक उस सुख को प्रभु के नाते दुखियों को भेंट करता है, तत्त्वज्ञ सर्वात्म भाव से और सेवक विश्व के नाते दुखियों को भेंट करता है। यह नियम है कि जिसके नाते जो कार्य किया जाता है, कर्ता प्रवृत्ति के अन्त में उसी में विलीन हो जाता है, अर्थात् अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो, यदि हम किसी की चाह-पूर्ति कर सकते हैं, तो पूरी करें; किन्तु यह अवश्य देख लें कि जिसकी चाह पूरी करने हम जा रहे हैं, उसमें अपना सुख है, अथवा उसका हित है। यदि उसमें आपको उसका हित दिखाई दे, तो अवश्य पूरा कर दें। यदि उसमें अपना सुख ही दिखाई दे, तो उसे दुख का आह्वान

समझें। यह बड़े ही रहस्य की बात है। जब हम किसी की चाह पूरी करने जाँय, और सोचें कि उसमें उसका हित निहित है, तो समझना चाहिये कि हम समाज के ऋण से मुक्त होकर आनन्द की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

आनन्द किसको मिलता है ? जिसकी प्रवृत्ति दूसरों के हित के लिये हो, और जिसकी निवृत्ति वासना रहित हो। दुख किसके पास आता है ? जिसकी प्रवृत्ति अपने सुख के लिये हो, अथवा जिसकी निवृत्ति वासना-युक्त हो। यदि आपको दुख बुलाना है, तो अपने सुख के लिये प्रवृत्ति कीजिये। यदि आपको आनन्द अपनाना है, तो दूसरों के हित की प्रवृत्ति कीजिये। यदि असमर्थ हैं, तो शान्त हो जाइये, मौन हो जाइये। ऐसा करने से अहम् भाव गल जायगा, और अनन्त चिन्मय नित्य जीवन से अभिन्नता हो जायगी। जहाँ प्रवृत्ति के द्वारा साधन की सुविधा न हो, वहाँ वासना-रहित निवृत्ति अपना लेनी चाहिये। निवृत्ति और प्रवृत्ति यह दो दायें-बाँयें पैर के समान साधन-क्रम हैं। जैसे दोनों पैरों से यात्रा सुगमता-पूर्वक हो जाती है, उसी प्रकार निवृत्ति और प्रवृत्ति में हमारी साधन-रूप जो यात्रा है, वह सुगमतापूर्वक पूरी हो जाती है और हम अपने साध्य तक पहुँच जाते हैं। केवल प्रवृत्ति अथवा केवल निवृत्ति के द्वारा ही जो अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, उनकी वही दशा होती है, जो एक पैर से यात्रा करने वाले की होती है, जिसमें सफलता की कोई आशा नहीं। सर्व हितकारी प्रवृत्ति और वासना-रहित निवृत्ति, यह साधना का मूल है। सर्व हितकारी प्रवृत्ति वही कर सकता है,

जो यह विश्वास करता है कि विश्व एक जीवन है अथवा यह मानता है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन विश्व के अधिकारों का समूह है। अथवा यों कहो जो कर्म-विज्ञान के रहस्य को जान लेता है, वह सर्व हितकारी प्रवृत्ति में परायण होता है। कारण कि यह नियम है कि प्रवृत्ति द्वारा तभी अपना हित होता है, जब उस प्रवृत्ति में दूसरों का हित निहित हो। और निवृत्ति द्वारा तभी अपना हित होता है, जब सभी वस्तुओं, अवस्थाओं तथा परिस्थितियों से अतीत जीवन पर विश्वास हो और विवेक-पूर्वक अचाह-पद प्राप्त कर लिया हो। जो चाह-रहित जीवन पर विश्वास नहीं करते, वे निवृत्ति के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, एक बात अवश्य है कि सर्व हितकारी प्रवृत्ति से वास्तविक निवृत्ति की योग्यता आ जाती है और वास्तविक निवृत्ति से जीवन सर्व हितकारी प्रवृत्ति के योग्य बन जाता है। अतः हम जिस अंश में सुखी हों, उस अंश में सर्व हितकारी प्रवृत्ति द्वारा सुखा-सक्ति से मुक्त होने का प्रयत्न करें। और जिस अंश में दुखी हों, उस अंश में अचाह होकर वास्तविक निवृत्ति द्वारा दुख के भय से मुक्त होकर अचाह-पद प्राप्त करें। अचाह होने पर भी हम अपने साधन का निर्माण कर सकते हैं और सुखासक्ति मिट जाने पर भी हम अपने साधन का निर्माण कर सकते हैं। अतः सुखासक्ति से मुक्त होकर तथा दुख के भय से रहित होकर हम बड़ी सुगमतापूर्वक प्रत्येक परिस्थिति में साधन-निर्माण कर विद्यमान मानवता विकसित कर सकते हैं, जिसके आ जाने पर बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर स्वतः हो जाता है। बल के सदुपयोग करने से हम बल की दासता से मुक्त



हो जाते हैं, और विवेक का आदर करने से बल के सदुपयोग की योग्यता आ जाती है। बल का सदुपयोग वही कर सकता है, जो बल का दास नहीं है, अपितु उसका स्वामी है। बल का दास तो विचारा बल के अभिमान में आवद्ध रहता है, जो वास्तव में एक निर्बलता है। बल का सदुपयोग करते समय बल को निर्बलों का अधिकार ही समझना चाहिये, तभी बल की दासता से मुक्त हो सकेंगे। विवेक का आदर करने पर देहाभिमान मिट जावेगा, जिसके मिटते ही भिन्नता मिट जायगी। और भिन्नता मिटते ही सब प्रकार के संघर्षों का अन्त हो जावेगा और फिर स्नेह की एकता प्राप्त होगी, जो वास्तव में मानवता है। स्नेह की एकता प्राप्त होने पर ही वास्तविक निर्दोषता प्राप्त होती है, और निर्दोषता आ जाने पर एक ऐसे अनुपम जीवन की उपलब्धि होती है जिसके लिये कोई परिस्थिति अपेक्षित नहीं है, अर्थात् जो सभी परिस्थितियों से अतीत है। बलवान उस जीवन को बल के सदुपयोग से और निर्बल उस जीवन को अन्तर वाह्य मौन से, अचिन्तता से, निवृत्ति से प्राप्त कर सकते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक मानव अपनी योग्यतानुसार साधन-निर्माण करने में सर्वदा स्वतंत्र है, और यह नियम है कि प्राप्त योग्यतानुसार साधक का निर्माण करने पर साधक साध्य से अभिन्न हो जाता है। ॐ

दिनाङ्क १५ अगस्त, १९५४.

६

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

कल आप की सेवा में निवेदन किया था कि अचाह-पद प्राप्त होने पर अथवा सर्व हितकारी प्रवृत्ति को अपना लेने पर हम अपने को साधन-तत्त्व से अभिन्न कर सकते हैं। साधन-तत्त्व से अभिन्न होने पर ही साध्य की उपलब्धि हो सकती है, ऐसा नियम ही है।

अब विचार यह करना है कि अचाह-पद प्राप्त करने के हेतु सर्वहितकारी प्रवृत्ति सुरक्षित रखने के लिये हमें क्या करना है ? गंभीरता से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है, कि यदि हम प्राप्त बल का दुरुपयोग न करें और अपने विवेक का अनादर न करें तो बड़ी ही सुगमता से अचाह-पद प्राप्त कर सकते हैं, और सर्व हितकारी प्रवृत्ति को भी सुरक्षित रख सकते हैं। बल का सदुपयोग और विवेक का आदर अत्यन्त आवश्यक साधन हैं। हमारे जीवन में जितनी भी दुर्बलताएँ हैं उनका मूल कारण एक-मात्र प्राप्त बल का दुरुपयोग है, और जितनी वेसमझी है, उसका मूल कारण एक-मात्र विवेक का अनादर है।

यदि हमें सभी निर्वलताओं का अन्त करना है, तो बल का सदुपयोग करना होगा और वेसमझी दूर करना है, तो विवेक का

हो जाते हैं, और विवेक का आदर करने से बल के सदुपयोग की योग्यता आ जाती है। बल का सदुपयोग वही कर सकता है, जो बल का दास नहीं है, अपितु उसका स्वामी है। बल का दास तो विचारा बल के अभिमान में आवद्ध रहता है, जो वास्तव में एक निर्बलता है। बल का सदुपयोग करते समय बल को निर्बलों का अधिकार ही समझना चाहिये, तभी बल की दासता से मुक्त हो सकेंगे। विवेक का आदर करने पर देहाभिमान मिट जावेगा, जिसके मिटते ही भिन्नता मिट जायगी। और भिन्नता मिटते ही सब प्रकार के संघर्षों का अन्त हो जावेगा और फिर स्नेह की एकता प्राप्त होगी, जो वास्तव में मानवता है। स्नेह की एकता प्राप्त होने पर ही वास्तविक निर्दोषता प्राप्त होती है, और निर्दोषता आ जाने पर एक ऐसे अनुपम जीवन की उपलब्धि होती है, जिसके लिये कोई परिस्थिति अपेक्षित नहीं है, अर्थात् जो सभी परिस्थितियों से अतीत है। बलवान उस जीवन को बल के सदुपयोग से और निर्बल उस जीवन को अन्तर्-बल से, अचिन्तता से, निवृत्ति से प्राप्त कर सकते हैं। उससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक मानव अपनी योग्यतानुसार साधन-निर्माण करने में सर्वदा स्वतंत्र है, और यह नियम है कि प्राप्त योग्यतानुसार साधक का निर्माण करने पर साधक माध्य से अभिन्न हो जाता है। ॐ

दिनाङ्क १५ अगस्त, १९५४.

९

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

कल आप की सेवा में निवेदन किया था कि अचाह-पद प्राप्त होने पर अथवा सर्व हितकारी प्रवृत्ति को अपना लेने पर हम अपने को साधन-तत्त्व से अभिन्न कर सकते हैं। साधन-तत्त्व से अभिन्न होने पर ही साध्य की उपलब्धि हो सकती है, ऐसा नियम ही है।

अब विचार यह करना है कि अचाह-पद प्राप्त करने के हेतु सर्वहितकारी प्रवृत्ति सुरक्षित रखने के लिये हमें क्या करना है ? गंभीरता से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है, कि यदि हम प्राप्त बल का दुरुपयोग न करें और अपने विवेक का अनादर न करें तो बड़ी ही सुगमता से अचाह-पद प्राप्त कर सकते हैं, और सर्व हितकारी प्रवृत्ति को भी सुरक्षित रख सकते हैं। बल का सदुपयोग और विवेक का आदर अत्यन्त आवश्यक साधन हैं। हमारे जीवन में जितनी भी दुर्बलताएँ हैं उनका मूल कारण एक-मात्र प्राप्त बल का दुरुपयोग है, और जितनी बेसमझी है, उसका मूल कारण एक-मात्र विवेक का अनादर है।

यदि हमें सभी निर्वलताओं का अन्त करना है, तो बल का सदुपयोग करना होगा और बेसमझी दूर करना है, तो विवेक का

आदर करना होगा। दोष-युक्त प्रवृत्ति बल के दुरुपयोग से होती है, निर्बल से नहीं। कारण कि निर्बल तो उसे कहते हैं जो कुछ कर न सके। दोष-युक्त प्रवृत्ति उससे भी नहीं होती जो कुछ नहीं जानता। दोष-युक्त प्रवृत्ति उससे होती है जो ज्ञान का अनादर करता है। इस दृष्टि से हमारे जीवन में जितने भी दोष हैं, उनका एक-मात्र कारण है, विवेक का अनादर तथा बल का दुरुपयोग। बल के दुरुपयोग से केवल हम ही निर्बल नहीं होते, अपितु सारे समाज में निर्बलता फैलती है और विवेक के अनादर से हम में ही वेसमभी नहीं आती बल्कि सारे समाज में वेसमभी फैलती है। अतः बहुत ही सावधानी-पूर्वक हमें बल का सदुपयोग करना है और विवेक का आदर करना है।

बल के सदुपयोग का अर्थ है, हमारा बल किसी और की निर्बलता का हेतु न बन जाय, और विवेक के आदर का अर्थ है, हम अपने को धोखा न दें। भूठ क्या है ? जिसे हम स्वयम् जानते हैं। सत्य से असत्य की ओर हम तभी जाते हैं, जब हम अपने को धोखा देते हैं और यह नियम है, कि जब हम सत्य से असत्य की ओर जाते हैं, तभी अमरत्व से मृत्यु की ओर भी गति-शील होते हैं, अर्थात् हमारी गति विपरीत हो जाती है। यह विपरीत गति विवेक के अनादर का ही कारण है। जब हमसे कोई भूल हो जाती है, तो उसका कारण हम किसी और को मानने लगते हैं जो वास्तव में हमारा प्रमाद है। कोई कहने लगता है, हमारा संस्कार अच्छा नहीं था, कोई कहने लगता है, हमारी परिस्थिति अनुकूल

नहीं थी, कोई कहता है, हमको योग्य गुरु नहीं मिला और कुछ लोग तो यहाँ तक कहेंगे कि प्रभु ने कृपा नहीं की। अर्थात्, हम अपनी भूल का कारण अपने को न मान कर दूसरों को मानने लगते हैं जो मानवता की दृष्टि से सही नहीं है। यह तो स्पष्ट ही है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, या तो सुखमय होगी या दुःखमय। सुखमय परिस्थिति में भी बल का दुरुपयोग और विवेक का अनादर किया जा सकता है और दुःखमय परिस्थिति में भी बल का सदुपयोग और विवेक का आदर किया जा सकता है। अतः परिस्थिति का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग तथा विवेक का आदर अथवा अनादर किसी परिस्थिति विशेष पर निर्भर नहीं है, अपितु इसमें मानवता अथवा अमानवता ही हेतु है।

संस्कार जितने भी होते हैं, वे सब हमारे द्वारा ही सत्ता पाते हैं। यदि हम उन्हें स्वीकार न करें अथवा उनका शासन न मानें तो वेचारे संस्कार अपने ही आप मिट जाते हैं, अथवा बदल जाते हैं। यदि कोई कहे कि हमें योग्य गुरु नहीं मिला, तो विचार करना चाहिये कि गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है साधक की योग्यतानुसार साधन का निर्माण तथा उसके दोषों का ज्ञान कराना। यह दोनों बातें प्रत्येक भाई-बहिन अपने विवेक के आदर से स्वतः जान सकते हैं। अतः यह कहना भी नहीं बनेगा कि हमें योग्य गुरु नहीं मिला। कोई भी गुरु और ग्रन्थ हमें ऐसी बातें बता ही नहीं सकते जो कि हमारे विवेक में निहित नहीं है। आप विचार कीजिये, जिसे हम बुराई कहते हैं, क्या उसका ज्ञान हमें नहीं है?

यदि बुराई का ज्ञान न होता तो हम दूसरों से अपनी भलाई की आशा क्यों करते हैं ? भलाई की आशा यह सिद्ध करती है कि हमें भलाई और बुराई का भली-भाँति ज्ञान है । अतः यह स्पष्ट होजाता है कि गुरु का बहाना ढूँढना भी निज-विवेक का अनादर ही है । अब रही भगवान् की कृपा की बात, आप विचार करके देखें कि क्या वह भी भगवान् हो सकता है जो कृपा न करे ? यदि भगवान् कृपा न करता तो क्या हमें मानव-जीवन मिलता ? मानव जीवन मिलना ही उसकी हम पर अहेतु की कृपा है । पर उसका अनुभव उन्हीं को होता है, जो उनके दिये हुये बल का सदुपयोग और विवेक का आदर करते हैं ।

मानव-जीवन माधन-शुक्त जीवन है । अतः हमें अपना साधन-निर्माण न करने में केवल अपनी ही भूल माननी चाहिये । इस दृष्टि-कोण को अपना लेने पर हमें किसी से कुछ भी कहने का साहस नहीं होता और अपनी ओर ही देखना पड़ता है । हम अपनी ही भूल से प्राप्त बल का दुरुपयोग तथा विवेक का अनादर करते हैं । जाने हुये की भूल को ही भूल कहते हैं । भूल उसे नहीं कहते जिसे नहीं जानते थे, जैसे कोई अपनी बड़ी जेब में रखकर भूल गया है; जब बड़ी की जरूरत हुई तब मालूम होता है, कि न जाने बड़ी कहाँ है, किन्तु जेब की वस्तु-स्थिति जैसी की तैसी रहती है, उस भूल-काल में भी और मिलने पर भी । मिलने पर कहने लगता है, भाई ! बड़ी जेब में ही है, उससे यह सिद्ध हुआ कि भूल उसे कहते हैं, जिसे जानते हैं ।

न जानने जैसी स्थिति का नाम ही वास्तव में भूल है। वह भूल कब तक जीवित रहती है ? जब तक हम अपने विवेक का उपयोग अपने पर नहीं करते। जब हम विवेक का उपयोग अपने पर करने लगते हैं और अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति विवेक के प्रकाश में ही करते हैं, तब भूल अपने आप मिट जाती है। भूल मिटने का अर्थ है विवेक का आदर और भूल बनाये रखने का अर्थ है विवेक का अनादर। इस दृष्टि से प्रत्येक भाई-बहन अपनी भूल को अपने विवेक से मिटा सकते हैं।

विवेक का आदर जीवन का आदर है। बल का सदुपयोग जीवन का सदुपयोग है। विवेक के आदर के बिना हम कभी अपने जीवन का आदर नहीं कर सकते और बल का सदुपयोग किये बिना हम कभी अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर सकते। अथवा यों कहें कि विवेक का आदर और बल का सदुपयोग ही वास्तव में जीवन है। इससे भिन्न को जीवन नहीं कह सकते, मृत्यु कह सकते हैं। जब हमें जीवन प्राप्त करना है, तो बल के दुरुपयोग का कोई स्थान नहीं, विवेक के अनादर का कोई स्थान नहीं। यदि बल का दुरुपयोग न हो, तो बुराई जैसी चीज देखने में ही नहीं आती और विवेक का अनादर न हो, तो वेसमझी का कहीं दर्शन ही नहीं होता। वेसमझी वहीं है, जहाँ विवेक का अनादर है। बुराई वहीं है, जहाँ बल का दुरुपयोग है। इस बात को मान लेने के बाद हम और आप एक ऐसे जीवन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, जो वास्तव में जीवन है, अर्थात् उसमें किसी प्रकार का भय नहीं है, अभाव नहीं है।



भय का अन्त और अभाव का अभाव करने में साधनयुक्त जीवन ही समर्थ है और साधन का सार है, बल का सदुपयोग और विवेक का आदर ।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि विवेक का आदर करने में कठिनाई क्या है ? कठिनाई यह है कि हम मन, इन्द्रिय आदि के व्यापार का ही जीवन मग्न लेते हैं । यदि हम विवेक-पूर्वक मन, इन्द्रिय आदि के व्यापार से अपने को असंग कर लें, अथवा उसमें जीवन-बुद्धि न रखें, तो बड़ी ही सुगमता-पूर्वक विवेक का आदर कर सकते हैं ।

यदि हम यह जानना चाहें कि हमारा समस्त जीवन, अर्थात् मन, इन्द्रिय आदि का व्यापार विवेक के प्रकाश से प्रकाशित है अथवा नहीं, तो उसकी कसौटी यह होगी कि हम मन, इन्द्रिय आदि से उत्पन्न हुई प्रवृत्तियों को देखें कि क्या वे ही प्रवृत्तियाँ दूसरों के द्वारा अपने प्रति होने पर हमें उन प्रवृत्तियों में अपना हित तथा अपनी प्रियता प्रतीत होती है ? यदि नहीं होती तो जान लेना चाहिये कि अभी मन, इन्द्रिय आदि में अविवेक का अन्धकार विद्यमान है और उसे विवेक के प्रकाश से सदा के लिये मिटाना है ।

अविवेक का अन्धकार हमें इन्द्रियों के व्यापार में आवद्ध करता है, इन्द्रियों का व्यापार हमें विषयों में आसक्त करता है, विषयों की आसक्ति हमारे देहाभिमान को पुष्ट करती है और देहाभिमान हमें अमरत्व से मृत्यु की ओर ले जाता है । अतः यदि हम मृत्यु से अमरत्व की ओर जाना चाहते हैं, तो विवेकपूर्वक देहाभिमान का

अन्त करना होगा। देहाभिमान का अन्त करने के लिये इन्द्रियों के व्यापार द्वारा जो सुख मिलता है, चित्त के चिन्तन द्वारा जो सुख मिलता है, स्थिरता द्वारा जो सुख मिलता है, इन सुखों की आसक्ति का त्याग करना होगा। यह तीनों प्रकार के सुख देहाभिमान के आधार पर ही भोगे जा सकते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सुख लोलुपता जब तक जीवन में रहेगी, तब तक देहाभिमान का अन्त न हो सकेगा। और ज्यों-ज्यों सुख-लोलुपता मिटती जायगी अथवा जीवन की लालसा जागृत होती जायगी, त्यों-त्यों देहाभिमान अपने आप मिटता जायगा। सुख-लोलुपता ने ही हमें देहाभिमान में आवद्ध किया है।

तत्त्व-जिज्ञासा कहो अथवा मानवता की माँग कहो अथवा प्रिय की लालसा कहो, यह तीनों ही दृष्टि-भेद से भले ही अलग-अलग हों, किन्तु वास्तव में एक हैं। अपने को मानव मानकर जिसे हम मानवता कहते हैं, जिज्ञासु मानकर उसी को तत्त्व-जिज्ञासा कहते हैं और भक्त मानकर उसी को प्रिय की लालसा कहते हैं और विषयी मानकर उसी को आसक्ति कहते हैं। सारांश यह निकला कि आसक्ति को ही प्रिय की लालसा, तत्त्व-जिज्ञासा अथवा मानवता में परिणत करना है। आसक्ति को तत्त्व-जिज्ञासा तथा प्रिय की लालसा एवम् मानवता में हम तभी परिणत कर सकेंगे, जब हृदय सन्देह की वेदना से पीड़ित हो तथा हृदय प्रभु के प्रति सरल विश्वास से परिपूर्ण हो एवम् निर्दोषता-प्रिय हो।

सरल विश्वास उसे कहते हैं जिसमें कोई विकल्प न हो, जो

सहज भाव से प्राप्त हो । जिसे यह विश्वास हो कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ; वह कहाँ है ? कैसा है ? यह न जानते हुये भी जिसे अपने और प्रभु के नित्य संबन्ध पर विश्वास हो, उसी का नाम सरल विश्वास है । अर्थात्, जो यह मान लेता है कि मैं प्रभु का हूँ, उसी की आसक्ति प्रिय की लालसा में बदल जाती है । जो अपने जाने हुये सन्देह को सहन नहीं कर सकता, उसी की आसक्ति तत्त्व-जिज्ञासा में बदल जाती है । सन्देह कुछ न जानने पर भी नहीं होता और सब कुछ जानने पर भी नहीं होता । सन्देह की उत्पत्ति तब होती है, जब हम कुछ जानते हों और कुछ न जानते हों, अर्थात् अधूरी जानकारी में । सन्देह की वेदना ही तत्त्व-जिज्ञासा जागृत करती है और तत्त्व जिज्ञासा आसक्ति को भस्मीभूत कर देती है । आसक्ति का अन्त होने पर तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति, प्रिय की लालसा की नित-नव-जागृति और मानवता की प्राप्ति हो जाती है । इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारी आसक्ति ही हमारे अभीष्ट की प्राप्ति में बाधक है, और कोई नहीं । अतएव हमारे विकाम के लिये हमें सबसे पहले अपनी आसक्तियों का ही पता लगा लेना चाहिये । आसक्तियों को जानने के लिये हमें अपनी वस्तु-स्थिति का अध्ययन करना होगा और वस्तु-स्थिति का अध्ययन करने के लिये जो ज्ञान हमें प्राप्त है उसके प्रकाश में हमें अपने समग्र जीवन को रखना होगा । समग्र जीवन का अर्थ है अपनी चेष्टाएँ, संकल्प तथा चिन्तन आदि । ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में किसी न किसी प्रकार का विश्वास न हो, किसी न किसी प्रकार का चिन्तन न हो, किसी न किसी प्रकार

की प्रवृत्ति न हो । जब हमारी सब ही चेष्टाएँ, संकल्प तथा चिन्तन, निजविवेक के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती हैं, तब उनमें शुद्धता आ जाती है । शुद्धता आते ही बुरे सकल्प सदा के लिये मिट जाते हैं और भले सकल्प स्वतः पूरे हो जाते हैं । व्यर्थ चिन्तन मिट जाता है, सार्थक चिन्तन उत्पन्न हो जाता है; दूषित प्रवृत्ति मिट जाती है, शुद्ध प्रवृत्ति उदय हो जाती है; जो विश्वास नहीं करना चाहिये वह मिट जाता है और जो विश्वास होना चाहिये वह हो जाता है । इन सब बातों के समूह का नाम साधन-तत्त्व है । साधन-निर्माण के लिये अधिकार भेद से विश्वास भी अपेक्षित है, चिन्तन भी अपेक्षित है, प्रवृत्ति भी अपेक्षित है और सम्बन्ध भी अपेक्षित है । पर, सम्बन्ध किसके साथ हो ? विश्वास किस पर ? चिन्तन किसका ? प्रवृत्ति केली हो ? इन्हीं पर विचार करना है । इन्हीं को देखना है । जिसके जीवन में केवल भगवत-विश्वास है अथवा कर्तव्य-विश्वास है, वही विश्वास साधन है । जिसके जीवन में तत्त्व-चिन्तन है अथवा प्रियचिन्तन है, वही सार्थक चिन्तन है । जिसकी प्रवृत्ति में दूसरे का हित निहित है, वही सार्थक प्रवृत्ति है, जिसने सबसे अथवा अपने से अथवा प्रभु से सम्बन्ध जोड़ा है, वही सार्थक सम्बन्ध है । इसका यह अर्थ हुआ कि जितनी भी चीजें हमारे जीवन में हैं, वे सब ज्यों की त्यों हैं, पर, उनके रूप और स्थान बदल गये । स्थान बदलते ही वे साधन-रूप हो गये और साधन-रूप होते ही साधक और साधन में अभिन्नता हो गई और साधन से अभिन्नता होते ही साध्य की प्राप्ति हो गई । इस से यह सिद्ध हुआ कि हम सब साधक बनने में सर्वदा स्वतंत्र हैं,

परतन्त्र नहीं। कारण कि जिस सामग्री की आवश्यकता साधन में होती है, वह सारी सामग्री हमारे और आपके पास है।

विश्वास वही सुरक्षित रहता है, जिसमें अपनी अनुभूति का विरोध न हो। आज हम अपने विश्वास की खोज करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जागृत तथा स्वप्न की सभी वस्तुएँ गहरी नींद अर्थात्, सुषुप्ति में हमें प्रतीत नहीं होती। पर हम उस समय दुख से रहित होते हैं, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जागृत एवम् स्वप्न की वस्तुओं के बिना हम दुखी नहीं होते, हमारी यह अनुभूति जागृत और स्वप्न में प्रतीत होने वाली वस्तुओं के विश्वास को खा लेती है। जिन वस्तुओं की प्रतीति सुषुप्ति में ही नहीं रहती, उनका अस्तित्व भला समाधी और मुक्ति में कैसे रहेगा ?

यद्यपि विश्वास बड़े ही महत्त्व की वस्तु है, पर वह भगवान् के प्रति हो, कर्त्तव्य के प्रति हो, अपने गुरु के प्रति हो अथवा अपने पर हो। इसके अतिरिक्त विश्वास का साधन में कोई स्थान नहीं है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उपर्युक्त विश्वासों के अतिरिक्त क्या हम उन वस्तुओं पर जो प्राप्त हैं अथवा निकटवर्ती सम्बन्धियों पर एवम् अन्य व्यक्तियों पर विश्वास न करें ? तो कहना होगा "न करें।" तो क्या करें ? वस्तुओं का सदुपयोग करें और व्यक्तियों की सेवा करें। आप को जो व्यक्ति मिला है, वह विश्वास करने के लिये नहीं, सेवा करने के लिये मिला है। आपको जो वस्तुएँ मिली हैं वे संग्रह करने के लिये अथवा विश्वास करने के लिये नहीं मिली हैं। वस्तुओं का सम्बन्ध प्राण तक है, इससे आगे नहीं। शरीर का

सम्बन्ध मृत्यु से पूर्व तक है, इससे आगे नहीं। आप देखेंगे कि जिस शरीर पर हम विश्वास करते हैं, उस शरीर का जन्म होते ही मृत्यु आरंभ होजाती है। जो शरीर निरन्तर काल रूपी अग्नि में जल रहा है, उस पर विश्वास करना क्या सही है ? इसका अर्थ कोई यह न समझे कि भाई शरीर का नाश कर लिया जाय। क्यों कि किसी वस्तु को मिटाने की सोचना भी उसके अस्तित्व को स्वीकार करना है, और उस वस्तु से द्वेष करना है, जो वास्तव में एक प्रकार का सम्बन्ध है। अतः जो शरीर और वस्तुएँ हमें प्राप्त हैं, उनको मिटाने की न सोचें, उनके सदुपयोग की बात सोचें। यदि हम वस्तुओं के उपभोग अथवा विनाश की बात सोचेंगे, तो वह सही न होगा और उसका परिणाम मानवता न होकर अमानवता होगा। और वह साधन भी नहीं है। अतः बड़ी ही सावधानी से हमें प्राप्त वल तथा वस्तुओं का सदुपयोग करना है। उस सदुपयोग के लिए अपने ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को रखना है।

हमारा वर्तमान जीवन क्या है ? कुछ करना, कुछ मानना और कुछ जानना। जो कुछ हम करें, वह विवेक के प्रकाश से प्रकाशित होकर करें, जो कुछ मानें, वह विवेक के प्रकाश में ही मानें और जो कुछ जानें वह स्वयम् से जानें। स्वयम् से जानने का अर्थ होता है; किसी कारण इन्द्रियों द्वारा न जाने, यह बड़ी सूक्ष्म बात है। कारण के द्वारा हम जो कुछ जानते हैं, वह पूरा नहीं जानते। विचार कीजिये इन्द्रियों द्वारा जिस वस्तु को आप जैसी जानते हैं, क्या वह वास्तव में वैसी ही है ? आपको मानना होगा कि वैसी नहीं है।

नेत्र से सूर्य छोटा-सा दिखाई देता है, परन्तु क्या सूर्य छोटा-सा है ? आप को कहना होगा नहीं। ऐसे ही बुद्धि से जो हम जानते हैं, क्या वह सही जानते हैं ? यद्यपि इन्द्रियों की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान अधिक सही है, पर वास्तविक ज्ञान तो बुद्धि के मौन होने पर ही होता है, जो विलक्षण है। बुद्धि से जानने का भी जीवन में स्थान है, और इन्द्रियों से जानने का भी जीवन में स्थान है। इन्द्रियों द्वारा जो हम जानते हैं उससे तो हमें केवल वस्तुओं का उत्पादन कर उपभोग करना है और बुद्धि द्वारा जो कुछ हम जानते हैं उससे केवल वस्तुओं के सतत परिवर्तन को जानना है। वस्तुओं के सतत परिवर्तन को जान कर हम राग से रहित होजाते हैं। और राग से रहित होजाने पर बुद्धि की आवश्यकता शेष नहीं रहती। जब बुद्धि का कार्य पूरा होजाता है, तब वह स्वतः अपने अधिष्ठान में विश्राम पा जाती है। जब हमारी बुद्धि विश्राम पाजाती है, तब हमारा मन निर्विकल्प होकर बुद्धि में विलीन हो जाता है। और इन्द्रियाँ विषयों से विमुख होकर अविषय होजाती हैं, अर्थात् बुद्धि के सम होते ही निर्विकल्पत जितेन्द्रियता और समता आजाती है। जितेन्द्रियता से चरित्र-निर्माण और निर्विकल्पता से आवश्यक शक्ति का विकास स्वतः होता है, और समता से चिर-शान्ति आजाती है। चिर-शान्ति आजाने पर हमें स्वाभाविक अमर-जीवन प्राप्त होजाता है। चरित्र-बल के समान और कोई बल नहीं है। निर्विकल्पता के समान और कोई शक्ति-संचय का साधन नहीं है और समता के समान कोई शान्ति नहीं है। यह सब कुछ मानव-जीवन में ही निहित है। इस जीवन की प्राप्ति के

लिये प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग के अतिरिक्त किसी अप्राप्त परिस्थिति तथा वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वस्तुओं से जितेन्द्रियता प्राप्त होती, तो उन्हें हो जाती जिनके पास वस्तुओं का संग्रह है और यदि किसी बल-विशेष से प्राप्त होती तो आज संसार में बल का दुरुपयोग ही क्यों होता ? जब यह निश्चित है कि भाई जितेन्द्रियता किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है, किसी बल पर निर्भर नहीं है, तो फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि अमुक वस्तु हमारे पास नहीं है। इसलिये जितेन्द्रियता नहीं आ सकती। जिन साधनों से जितेन्द्रियता प्राप्त होती है, वे साधन मानव-मात्र को प्राप्त हैं।

अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि क्या निर्वल इन्द्रिय-लोलुप नहीं हो सकता ? वास्तविक निर्वल में इन्द्रिय-लोलुपता नहीं होती और न बल का सदुपयोग करने वालों में ही होती है। तो, इन्द्रिय लोलुपता किस में होती है ? उसमें जो बल का दुरुपयोग करता है। भाई ! आज हमें इस भगड़े में नहीं पड़ना है कि हम में कितना बल है और कितना विवेक ? जितना भी बल हमारे पास है उसका हमें सदुपयोग करना है। ज्यों-ज्यों हम बल का सदुपयोग करते जायेंगे, त्यों-त्यों बल प्राप्त होता जावेगा और अन्त में हम उस प्राप्त बल के अभिमान से भी मुक्त हो जायेंगे। बल के संग्रह-मात्र से, बल के अभिमान से कोई मुक्त नहीं हो सकता। प्राप्त बल के सदुपयोग से जब हमें आवश्यक बल मिलेगा, तब हम बल के अभिमान से मुक्त होने के अधिकारी हो जायेंगे। बल के अभिमान से मुक्त होने का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है, जब पहले आवश्यक बल प्राप्त हो। किन्नी अप्राप्त वस्तु के



अभिमान से मुक्त होने का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता । जो आवश्यक बल है, वह निर्विकल्पता में ही निहित है और निर्विकल्पता बुद्धि की समता में निहित है और बुद्धि की समता विवेक में निहित है । अतः विवेक से ही हम बुद्धि की समता प्राप्त करें और बुद्धि की समता से मन में निर्विकल्पता प्राप्त करें । मन में निर्विकल्पता आ जाने पर वुरे संकल्प अर्थात् अमानवता के संकल्प मिट जाते हैं और भले सकल्प पूरे होने पर और वुरे संकल्प मिट जाने पर निर्विकल्पता समता में विलीन हो जाती है । मानवता हमें निर्विकल्पता में आवद्ध रहने के लिये विवश नहीं करती । वह हमें बताती है कि निर्विकल्पता भी एक आवश्यक स्थिति-मात्र है । इससे हमें बुद्धि के सम होने की योग्यता प्राप्त होती है । समता से हमें अलौकिक विवेक से अभिन्नता प्राप्त होती है । और इसी अभिन्नता में हमें वास्तविक अनन्त नित्य चिन्मय जीवन प्राप्त होता है । उस दिव्य जीवन का प्राप्त होना ही अपना कल्याण है ।

आज जिसे हम जीवन कहते हैं, वह तो जीवन की साधन सामग्री है, जीवन नहीं है । यद्यपि हमें जीवन प्राप्त होता, तो जीवन की लालसा न रहती और न किसी प्रकार का भय होता । लालसा अप्राप्त की होती है और भय किसी अभाव में होता है । क्या आज हमारा जीवन लालसा और भय से मुक्त है ? यदि नहीं, तो यह मानना ही होगा कि हमें अभी वास्तविक जीवन प्राप्त नहीं हुआ । यह नियम है कि अप्राप्त की जिज्ञासा ग्यतः जागृत होती है । जिज्ञासा की जागृति इच्छाओं को ग्वा लेती है । अस्वाभाविक इच्छाओं के

मिटते ही बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर स्वतः होने लगता है, जो मानव में छिपी हुई मानवता को विकसित करने में समर्थ है। पूर्ण मानवता आ जाने पर ही भक्त को भगवान्, जिज्ञासु को तत्त्व-ज्ञान, योगी को योग, भौतिकवादी को विश्व-प्रेम स्वतः प्राप्त हो जाता है।

अब हमें यही सीखना और सिखाना है कि बल के सदुपयोग और विवेक के आदर से ही हम लोग अपने में छिपी हुई मानवता को विकसित करने में प्रयत्नशील रहें।

मानव-जीवन में एक बड़ी अलौकिक बात है। वह यह है कि यह ऐसी किसी बात की आशा नहीं दिलाता जिसे आप वर्तमान में प्राप्त नहीं कर सकते। और न किसी ऐसी आशा की ओर ही ले जाता है जिसकी पूर्ति दूसरों पर निर्भर हो। यदि कोई कहे कि क्या संसार से हमें कुछ नहीं मिल सकता ? क्या भगवान् से हमें कुछ नहीं लेना है ? तो विचार करो, यह प्रश्न तभी उत्पन्न हो सकेगा जब मानवता से बढ़कर भी और कोई वस्तु हो। मानवता से संसार के तो अधिकार की रक्षा हो जाती है जो संसार को अभीष्ट है और संसार के पास कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जो मानवता के लिये अपेक्षित हो। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि मानवता प्राप्त हो जाने पर संसार से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रहती। अब रही भगवान् से लेने की बात, तो वह इसलिये उत्पन्न नहीं होती कि मानवता प्रेम से परिपूर्ण कर देती है। प्रेम ही भगवान् को अत्यन्त प्रिय है। वही उसका मानव पर अधिकार है, इससे यह सिद्ध हुआ कि मानवता सब

ही के अधिकारों की पूर्ति करती है। जो मानवता अधिकार-पूर्ति में समर्थ है, भला उसके मिलने पर किसी से कुछ माँगने की बात शेष रहती ही कहाँ है ? यद्यपि वह मानवता भगवान् की अहेतु की कृपा से ही प्राप्त है।

संसार के अधिकारों की रक्षा का परिणाम यह होता है कि मानवता संसार में विभु हो जाती है और प्रेम का परिणाम यह होता है कि प्रेमी भगवान् से अभिन्न हो जाता है, जो मानव की वास्तविक माँग है और जिसकी उपलब्धि साधन-युक्त जीवन से ही सम्भव है। साधन करने में प्रत्येक साधक सर्वदा स्वतंत्र है। ॐ

-----

६.

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव,

कल आपकी सेवा में निवेदन किया था कि साधन-युक्त जीवन बनाने के लिये अथवा यों कहो मानवता प्राप्त करने के लिये बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर अनिवार्य है। ऐसा कोई साधन हो ही नहीं सकता, जिसका जन्म विवेक के आदर तथा बल के सदुपयोग से न हो।

साधन की जहाँ चर्चा की जाती है, वहाँ सब से प्रथम यह आवश्यक होता है कि साधक अपनी वर्तमान वस्तु-स्थिति का निरीक्षण करे, अपने दोष को सही-सही अपने ज्ञान से जाने। अपने दोष का निरीक्षण करने पर हमें अपनी स्वाभाविक आवश्यकता तथा अस्वाभाविक इच्छाओं की जानकारी हो जाती है। स्वाभाविक आवश्यकता उसे कहते हैं, जिसकी पूर्ति अनिवार्य हो और अस्वाभाविक इच्छाएँ उन्हें कहते हैं जिनका मिटाना आवश्यक हो। जो किसी प्रकार से मिटाई नहीं जा सकती, उसी का नाम आवश्यकता है। इच्छाएँ अनेक हो सकती हैं; किन्तु आवश्यकता एक ही होती है। जब साधक निजविवेक के प्रकाश में अपनी वस्तु-स्थिति का अध्ययन कर लेता है, तब उसे अपनी आवश्यकता का बोध हो जाता है।

आवश्यकता की जागृति इच्छाओं के मिटाने में समर्थ होती है। आज हमें जो इच्छाएँ तंग कर रही हैं, इसका एकमात्र कारण यह ही है कि हम अपनी स्वाभाविक आवश्यकता को भूल जाते हैं। स्वाभाविक आवश्यकता का प्रसाद इच्छाओं को सबल बनाता है।

अब स्वाभाविक आवश्यकता क्या है ? किसी से पूछा जाय कि तुम जीवन चाहते हो या मृत्यु ? यह कोई न कहेगा कि हम जीवन नहीं चाहते। जीवन की माँग सभी को है। मृत्यु की माँग किसी को भी नहीं है। किसी से पूछा जाय, कि भाई ! तुम किसी प्रकार अभाव चाहते हो या पूर्णता ? सब ही कहेंगे, हमें पूर्णता चाहिये। किसी से कहा जाय कि तुम सन्देह चाहते हो अथवा निःसन्देहता। सभी कहेंगे कि हमें तो निःसन्देहता चाहिये। इससे सिद्ध हुआ कि निःसन्देहता की माँग ज्ञान की आवश्यकता, पूर्णता की माँग आनन्द की आवश्यकता और जीवन की माँग अमरता की आवश्यकता है। यह तीनों बातें तीन नहीं हैं। जिसमें जीवन है, उसी में अमरत्व है, उसी में ज्ञान है, और उसी में आनन्द है। कोई यह कहे कि इन तीनों बातों के लिये हमें तीन चीजें अलग-अलग प्राप्त करनी होंगी, तो ऐसी बात नहीं है। जो इन तीनों में से किसी भी एक को प्राप्त कर लेगा, उसे सब ही प्राप्त हो जायेगी। कारण, सत्य एक है, अनेक नहीं; किन्तु यह सब मिलेंगे कब ? जब हमारी स्वाभाविक आवश्यकता अस्वाभाविक इच्छाओं को खा जाय। इससे पूर्व यह न मिल सकेंगे।

अब विचार यह करना है कि हम इच्छाओं की पूर्ति में स्वाधीन हैं अथवा इच्छाओं की निवृत्ति में। तो, यह सभी भाई-

वहिनों को मान्य होगा कि इच्छाओं की पूर्ति में हम उतने स्वाधीन नहीं हैं, जितने कि इच्छाओं की निवृत्ति में; कारण कि यह सभी का अनुभव है कि सभी इच्छाएँ पूरी नहीं होतीं, पर यह भी सभी का अनुभव है कि इच्छाओं की पूर्ति होने पर भी प्राणी पुनः उसी स्थिति में आ जाता है, जो स्थिति इच्छाओं की उत्पत्ति से पूर्व थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इच्छाओं की पूर्ति का प्रयत्न कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता।

इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छाओं की पूर्ति एक वीच की अवस्था-मात्र है। जो आदि और अन्त में न हो, केवल मध्य में प्रतीत मात्र हो, वह अवस्था सुरक्षित नहीं रह सकती। अतः इच्छा-पूर्ति का सुख सदैव नहीं रह सकता।

यदि विचार-पूर्वक देखें, तो यह सभी को अनुभव होगा कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका ही विनाश होता है, जिसका विनाश होता है उसकी स्थिति सिद्ध नहीं होती। विनाश का जो क्रम है, वही स्थिति के स्वरूप में प्रतीत होता है। पर, इस रहस्य को वे ही विचार-शील जानते हैं जिन्होंने उत्पत्ति से पूर्व जो “है” उससे अभिन्नता प्राप्त की हो। जीवन वही है, जो उत्पत्ति विनाश-रहित है और जो उत्पत्ति विनाश-रहित है, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, यह कहना न्यायसंगत नहीं मालूम होता; निज-विवेक से सिद्ध नहीं होता। विवेक-युक्त दृष्टि से तो यह ही सिद्ध होता है कि जो उत्पत्ति ने पूर्व था और जो विनाश के पश्चात् है, उसे साधक मुगमता-पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। कारण, प्राणि उसी की होनी है जो “है”। जो नहीं है

उसकी प्राप्ति नहीं होती, अपितु प्रतीति होती है। साधारण प्राणी इन्द्रियों के ज्ञान पर ही पूरा विश्वास करके जो वास्तव में अल्प ज्ञान है, प्रतीति को प्राप्ति मान लेते हैं। यद्यपि प्रतीति में प्रवृत्ति तो होती है, पर प्राप्ति कुछ नहीं होती।

अब प्रश्न यह होता है कि “ है ” क्या है ? जो उत्पत्ति विनाश से रहित है अथवा उत्पत्ति विनाश से पूर्व है ? जिससे उत्पत्ति और विनाश प्रकाशित है, उसी को “ है ” के अर्थ में लेना चाहिये।

“ है ” का वर्णन संकेत भाषा से ही संभव है, कारण जिन साधनों से हम “ है ” का वर्णन कर सकते हैं, वे सब “ है ” से ही प्रकाशित हैं और “ है ” की सत्ता से ही सत्ता पाते हैं। जो साधन जिससे सत्ता पाते हैं उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं, केवल संकेत ही कर सकते हैं।

अब प्रश्न यह होता है कि इच्छाओं की निवृत्ति कैसे हो ? इच्छाओं की निवृत्ति के अनेक साधन हैं; परन्तु उन अनेक साधनों में से आज एक-दो साधन की ही चर्चा करेंगे, और वह यह है कि यदि हमें अपनी इच्छाओं का अन्त करना है, तो सर्व प्रथम अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करना चाहिये। उत्पन्न हुई इच्छाओं में जो ऐसी इच्छाएँ हैं कि जिनका संबन्ध वर्तमान से हो, जिनको पूरा किये बिना किसी प्रकार नहीं रह सकते अथवा जिनकी पूर्ति के साधन प्राप्त हों अथवा जिनसे किसी का अहित न हो, उन इच्छाओं की पूर्ति कर लेनी चाहिये; परन्तु पूरा करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि उनकी पूर्ति का जो सुख है वह हमें अभीष्ट

नहीं है। कारण, यदि हम इच्छा-पूर्ति का सुख लेते रहेंगे, तो पुनः इच्छाएँ उत्पन्न होती रहेंगी और वह चक्र चलता ही रहेगा। जिन इच्छाओं में उपर्युक्त चार बातें न घटती हों, उन इच्छाओं का विचार-पूर्वक त्याग करना होगा। यह नियम है कि आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति करने पर अनावश्यक इच्छाओं के त्याग का बल स्वतः आजाता है।

जब उपर्युक्त चार बातों से संबन्ध रखने वाली इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, और जिनका इन चार बातों से सम्बन्ध नहीं है, उनका जब त्याग कर देते हैं, तब स्वाभाविक निरीक्षता आजाती है, अर्थात् इच्छाएँ निवृत्त होजाती हैं। यह नियम है कि आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति, और अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति होने पर मन अमन अर्थात् निर्विकल्प हो जाता है और बुद्धि सम हो जाती है, और इन्द्रियाँ अविषय हो जाती हैं।

ऐसा होने से जीवन अलौकिक विवेक के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। यह नियम है कि विवेक का प्रकाश स्वतः साधक का पथ-प्रदर्शन करने लगना है, अर्थात् साधक को स्वतः अपने कर्त्तव्य का बोध हो जाता है। कर्त्तव्य उसे नहीं कहते जिसके करने में कर्त्ता असमर्थ हो तथा जिसके करने पर सफलता न हो; अर्थात् कर्त्तव्य उसे कहते हैं, जो किया जा सके तथा जिससे सकलता अवश्य हो। आज जो हम इच्छाओं में आवद्ध होकर उलझनों में उलझे रहते हैं और इन्द्रियाँ विषयों में आसक्त रहती हैं, वसका एकमात्र कारण यह ही है कि हम आवश्यक इच्छाओं को



कुछ प्राप्त नहीं होता और भयभीत होने से प्राप्त शक्ति का हास और अविवेक की दृढ़ता होती है, जो अवनति का हेतु है ।

अब यदि कोई यह कहे कि जब लालच और भय का मानव-जीवन में कोई स्थान नहीं है, तो ये क्यों उत्पन्न होते हैं, तो कहना होगा कि अनुकूलता और प्रतिकूलता का सदुपयोग न करने से लालच तथा भय की उत्पत्ति होती है । वास्तव में अनुकूलता और प्रतिकूलता साधन-सामग्री हैं; और कुछ नहीं, किन्तु हम प्रमादवश इन्हे ही जीवन मान लेते हैं । यदि ये जीवन होतीं, तो इन में सतत परिवर्तन नहीं होता । किन्तु, कोई भी वस्तु, अवस्था या परिस्थिति ऐसी नहीं है जो निरन्तर कालरूप अग्नि में न जल रही हो, अर्थात् उसका निरन्तर परिवर्तन न हो रहा हो ।

परिस्थिति आदि के परिवर्तन का ज्ञान हममें नित्य जीवन की जिज्ञासा जागृत करता है । इसके अतिरिक्त परिस्थितियों का साधनयुक्त जीवन में कोई महत्त्व नहीं है । जब प्रत्येक परिस्थिति साधनरूप है, तब वर्तमान परिस्थिति का उत्साहपूर्वक तथा आदरपूर्वक सदुपयोग न करना और अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तन करना, कर्त्तव्य-विमुखता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।

प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है, उस न्याय का आदर करने में ही मानव का हित निहित है । यह नियम है कि न्याय का आदर करने से निर्दोषता प्राप्त होती है । न्याय को दण्ड तथा दुर्भाग्य मान लेना प्रमाद है और इस मान्यता से कोई हित भी नहीं हो सकता; प्रत्युत प्राप्त शक्ति का हास ही होता है । न्याय को दुर्भाग्य

मानने से आत्मग्लानि और दण्ड मानने से न्याय-कर्त्ता पर क्रोध उत्पन्न होता है। इसी प्रकार परिस्थिति आदि की अनुकूलता से मानव अपने को भाग्यशील और विधान को सुखदाता मान लेता है। यद्यपि प्राकृतिक विधान में तो प्राणी का वास्तविक हित निहित है और इस दृष्टि से विधान में सुख-दुख दोनों समान हैं। किन्तु, सुख भोग की आसक्ति के कारण प्राणी प्रमादवश अपने को सुख की दासता में आवद्ध करता है और दुख से भयभीत होने लगता है। यह सभी को मान्य होगा कि ऐसा कोई सुख नहीं है, जिसका जन्म किसी दुख से न हो और ऐसा भी कोई सुख नहीं है जिसका दुख में अन्त न हो। जैसे, भूख का दुख ही भोजन का सुख और वियोग का दुख ही संयोग का सुख प्रदान करता है। इसी प्रकार संयोग का सुख वियोग का दुख और अनुकूलता का सुख प्रतिकूलता का दुख प्रदान करता है। इतना ही नहीं, सुख से दुख दबता है, मिटता नहीं और यह नियम है कि दबा हुआ दुख बढ़ता है, घटता नहीं। इस दृष्टि से दुख मिटाने के लिए सुख अपेक्षित नहीं है, दुख बढ़ाने के लिए सुख भले ही अपेक्षित हो।

जो दुख हमारे न चाहने पर भी आता है, उसकी हम से सबलता स्वतः सिद्ध हो ही जाती है। इसलिए विचार यह करना चाहिए कि दुख जिसकी प्रेरणा से आता है, क्या वह हमारा अहित चिन्तक है ? कदापि नहीं। क्योंकि पूर्ण कभी अंश का विरोधी अथवा अहितकर हो ही नहीं सकता। अहितकर तो वही होता है, जो अपूर्ण हो।

अब प्रश्न यह हो सकता है कि दुख से प्राणी का क्या हित होता है ? तो, कहना होगा कि दुख ही सुख की वासना से मुक्त कर अनन्त-नित्य-चिन्मय आनन्द से अभिन्न करने में समर्थ है । जिस प्रकार धन की आवश्यकता के अतिरिक्त निर्धनता और कुछ नहीं है, उसी प्रकार आनन्द की आवश्यकता के अतिरिक्त दुख कुछ नहीं है । आवश्यकता उसे ही कहते हैं जिसकी निवृत्ति न हो, अर्थात् जो मिटाई न जा सके, अपितु उसकी पूर्ति अनिवार्य हो ।

इस दृष्टि से दुख सुख की अपेक्षा अधिक महत्त्व की वस्तु है । इसका अर्थ यह नहीं है कि दुख आने पर हम उसे जीवन मान लें । दुख जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है, उसको दुख के द्वारा प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न करना चाहिए । यह नियम है कि आवश्यकता जिसकी होती है, उससे अभिन्न होने पर आवश्यकता सदा के लिए मिट जाती है । दुख भी जिस अनन्त-चिन्मय आनन्द की आवश्यकता है, उससे अभिन्न कर वेचारा सदा के लिए मिट जाता है । इस प्रकार दुख को महत्त्व देने का अर्थ यह नहीं है कि मानव दुख को जीवन मानकर आनन्द से निराश हो जाय । दुख का महत्त्व सुखलोलुपता का अन्त करने में है ।

अनुकूलता तथा सुख का सदुपयोग उदारता तथा सेवा में निहित है और प्रतिकूलता, अर्थात् दुख का सदुपयोग विरक्ति तथा त्याग में निहित है । उदारता तथा सेवाभाव जागृत होने पर सुख-लोलुपता स्वतः मिट जाती है, कारण कि उदारचरित्र प्राणी किसी दुखी के दुख को सहन नहीं कर सकता । जिसका हृदय पराये दुख से

दुखी होने लगता है, वह प्राप्त सुख को दुखियों की भेंट कर देता है। ऐसा करते ही साधक सुख की दासता से मुक्त हो जाता है। जो सुख की दासता से मुक्त हो जाता है, वह किसी का बुरा नहीं चाहता। जो किसी का बुरा नहीं चाहता उसका हृदय दुखियों को देखकर करुणा से भर जाता है। करुण-रस सुख-भोग के रस को उत्पन्न ही नहीं होने देता, अर्थात् सुख की आसक्ति सदा के लिए मिट जाती है। इसी प्रकार जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उसका हृदय सुखियों को देखकर प्रसन्नता से भर जाता है। जिस हृदय में स्थायी प्रसन्नता निवास करती है, उस हृदय में किसी प्रकार की चाह उत्पन्न नहीं होती, कारण चाह की उत्पत्ति खिन्नता में ही होती है। अचाहपद प्राप्त होते ही देहाभिमान गल जाता है और फिर प्राणी सुखदुख के आक्रमणों से चूध नहीं होता, अर्थात् उसका जीवन स्थायी प्रसन्नता तथा चिरशान्ति से भर जाता है।

विरक्ति तथा त्याग आ जाने पर प्रतिकूलता स्वतः अनुकूलता में बदल जाती है, कारण इन्द्रियादि विषयों से अरुचि ही विरक्ति है और 'अहम्' तथा 'मम' का त्याग ही त्याग है। इन्द्रियादि विषयों से अरुचि होने पर इन्द्रियाँ विषयों से विमुख होकर मन में विलीन हो जाती हैं और फिर मन निर्विकल्प होकर बुद्धि में विलीन हो जाता है। मन के विलीन होते ही बुद्धि सम हो जाती है। उसके सम होते ही अलौकिक विचार स्वतः उदय होता है। अलौकिक विचार अविचार को खाकर अमर जीवन को अभिन्नता प्रदान करता है। अतः दुख के सदुपयोग से भी प्राणी चिरशान्ति तथा स्थायी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है।

इस दृष्टि से सुख-दुख दोनों का समान अर्थ हो जाता है। मानव-जीवन सुख-दुख भोगने के लिए नहीं मिला, अपितु सुख-दुख का सदुपयोग करने को मिला है। सुख-दुख का सदुपयोग ही साधन तत्त्व है। पर, वह तभी सम्भव होगा, जब साधक सुख-दुखों के आक्रमणों से लुब्ध न हो। सुखदुख के आक्रमणों से हम लुब्ध कब होते हैं ? जब सुख-दुख को जीवन मान लेते हैं। सुख-दुख को जीवन कब मानते हैं ? जब अपने को शरीर से अभेद कर लेते हैं। अपने को शरीर से अभेद कब कर लेते हैं, जब निज ज्ञान का अनादर करते हैं। इस दृष्टि से निज-ज्ञान का अनादर ही सुख-दुखों के आक्रमणों से भयभीत करने का हेतु हुआ। जो निजज्ञान का अनादर नहीं करते हैं, वे किसी के कर्त्तव्य को अपना अधिकार नहीं मानते, अपितु दूसरों के अधिकार को अपना कर्त्तव्य अवश्य मानते हैं। और, न किसी की उदारता को अपना गुण मानते हैं, और न किसी की निर्बलता को अपना बल मानते हैं। जो किसी के कर्त्तव्य को अपना अधिकार नहीं मानते, वे कभी लुब्ध नहीं होते और जो अपने कर्त्तव्य से दूसरों के अधिकार की रक्षा करते हैं, वे कभी पराधीन नहीं होते। और, जो दूसरे की उदारता को अपना गुण नहीं मानते, वे हृदयहीन नहीं होते, अर्थात् उदार बने रहते हैं, और जो किसी की निर्बलता को अपना बल नहीं मानते वे अभिमान रहित हो जाते हैं। उदारता तथा निराभिमानता आने पर भी उद्विग्नता उत्पन्न नहीं होती। अतः उद्विग्नता से बचने के हेतु हमारे लिए कर्त्तव्य-परायणता, उदारता तथा

निराभिमानता को अपना लेना अनिवार्य होगा ।

उद्विग्नता मिटाने के लिए सरल होने की अत्यन्त आवश्यकता है, कारण सरलता के बिना मन में उत्पन्न हुए क्षोभ को प्राणी प्रकट नहीं कर पाते । यह नियम है कि दबा हुआ दोष उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है । दोषों को शीघ्रातिशीघ्र प्रकट कर देना चाहिए, जिससे वे बड़ी ही सुगमता से निकल जाते हैं । इस दृष्टि से क्षुब्धता को मन में छिपाकर नहीं रखना चाहिए । छिपी हुई क्षुब्धता क्रोधी बना देती है । क्रोधयुक्त जीवन बिना ही अग्नि के प्राणी को मस्म कर देती है । उससे मुक्त होने के लिए उद्वेग से रहित होना परम अनिवार्य है ।

यदि आई हुई प्रतिकूलताओं के बिना उद्वेग शान्तिपूर्वक सहन कर लिया जाय, तो कालान्तर में प्रतिकूलताएँ अनुकूलताओं में स्वतः बदल जाती हैं । कारण क्षोभरहित होते ही आवश्यक शक्ति का विकास और दिव्यगुण स्वतः उत्पन्न होते हैं । पर, यह तभी सम्भव होगा, जब साधक प्रतिकूलताओं का अनुकूलताओं के समान आदर करे, उनसे भयभीत न हो जाय । प्रतिकूलताओं का भय अनुकूलताओं से भी अधिक भयंकर तथा दुखद है । प्रतिकूलता तो साधक के जीवन में अनुकूलता की दासता मिटाने और तप कराने के लिए आई है और अनुकूलता साधक को उदार बनाने के लिए आई है । ये दोनों दाएँ-बाएँ पैर के समान हैं । अतः अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए दोनों ही आवश्यक हैं । ऐसा जानकर साधक को सर्वदा प्रत्येक परिस्थिति में शान्त तथा क्षोभ-रहित रहना चाहिए । तभी साधन का निर्माण सुगमतापूर्वक हो सकता है ।

सच्चा आस्तिक प्रत्येक परिस्थिति में अपने परं प्रेमास्पद की अहेतु की कृपा का ही अनुभव करता है । अनुकूलता में दया और प्रतिकूलता में विशेष कृपा का दर्शन करता है । दया का दर्शन करने से विश्वास में दृढ़ता आती है, और विशेष कृपा का अनुभव करने से प्रेम की जागृति होती है । जब आस्तिक के मन की बात पूरी होती है, तब उसे उसमें अपने प्रभु की दया का दर्शन होता है और जब उसके मन की बात पूरी नहीं होती, तब प्रभु की विशेष कृपा का दर्शन होता है, कारण आस्तिक यह भलीभाँति जानता है कि जो बात मेरे मनकी नहीं है, वह मेरे प्यारे के मन की है । यह नियम है कि जिसके मन की बात पूरी होती है, वह उससे प्रेम करने लगता है जिसने उसके मन की बात पूरी की । अतः आस्तिक को अपनी बात पूरी होने में विशेष कृपा का अनुभव इस कारण होता है । अब मेरे प्यारे ने अपने मन की बात की है, अतः वे मुझसे अवश्य प्रेम करेंगे । प्रेमास्पद का प्रेम ही तो प्रेमी का सर्वस्व है । इस दृष्टि से आस्तिक किसी भी अवस्था में चुन्ध नहीं होता ।

अध्यात्मवादी की दृष्टि में प्रत्येक परिस्थिति उसी की एक अवस्था है, अथवा मायामात्र मिथ्या है । अतः अध्यात्मवादी भी प्रत्येक अवस्था में शान्त रहता है । भौतिकवाद की दृष्टि से भी चुन्ध न होना अत्यन्त आवश्यक है, कारण चुन्ध न होने से ही आवश्यक शक्ति का विकास होता है । अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि साधनयुक्त जीवन में चुन्ध होने के लिए कोई स्थान ही नहीं है ।  
ॐ आनन्द ।

१८

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

हमारे दैनिक जीवन में भाव-शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना कर्म-शुद्धि नहीं हो सकती और कर्म-शुद्धि के बिना जीवन में सच्चरित्रता नहीं आ सकती। तथा सच्चरित्रता के बिना सुन्दर समाज का निर्माण सम्भव नहीं है और न अपना कल्याण ही हो सकता है। यह नियम है कि प्रत्येक कर्म का जन्म कर्ता के अनुरूप ही होता है और अन्त में कर्म कर्ता को ही पुष्ट करता है। जैसे, अपने को सत्यवादी मान लेने पर ही सत्य बोलने की प्रवृत्ति होती है और सत्य बोलने की प्रवृत्ति से 'मैं सत्यवादी हूँ' इस भाव की दृढ़ता हो जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा हम अपने को मान लेते हैं, वैसे ही हम से कर्म होते हैं और कर्म के अन्त में हम वैसे ही बन जाते हैं।

अब यदि कोई यह कहे कि जब हम अपने में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ देखते हैं, तो उनके होते हुए अपने को शुद्ध कैसे मान लें ? तो, कहना होगा ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, जो सर्वांश में बुरा हो, जो सर्वदा बुराई ही करता रहता हो। दोष की प्रवृत्ति के पूर्व सभी निर्दोष हैं और दोष की निवृत्ति होने पर सभी निर्दोष हैं।



परन्तु, सबसे बड़ी असावधानी यह होती है कि दोष-काल में तो दोष को देखते नहीं। दोष के अन्त में अपने को दोषी मानते हैं। यदि पुनः दोष को न दुहराया जाय, तो की हुई दुष्कृति अपना फल देकर स्वतः मिट जाती है, किन्तु जब प्राणी अपने को दोषी मान लेता है, तो पुनः दुष्कृति होने लगती है और बारबार दोषों के दुहराने से अपने को दोषी भाव में आवद्ध कर लेता है; परन्तु फिर भी निर्दोष होने की लालसा मिटती नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राणी की निर्दोषता से जातीय एकता है और दोषों से मानी हुई एकता है।

साधनयुक्त जीवन होने से मानी हुई एकता की निवृत्ति और जातीय एकता की प्राप्ति अवश्य हो सकती है, पर वह तभी सम्भव होगा, जब हम जाने हुए दोषों का त्याग, निर्दोषता को स्थापना कर, अचिन्त हो जाँय, अर्थात् पुनः दोषों का चिन्तन न करें। सर्वांश में दोषों का चिन्तन मिट जाने पर दोषों की उत्पत्ति सम्भव नहीं है, पर यह वे ही साधक कर सकेंगे, जो दोषों को दुहराते नहीं हैं।

अब यदि कोई कहे कि जीवन में दोषों की उत्पत्ति होती ही क्यों है ? तो, कहना होगा कि निजविवेक के अनादर से ही दोषों की उत्पत्ति होती है, अर्थात् जैसा हम जानते हैं, वैसा नहीं मानते और यदि मान भी लेते हैं, तो उसके अनुसार जीवन नहीं बनाते। इसी प्रमाद से दोष उत्पन्न होते हैं।

दोष उसे नहीं कहते जिससे स्वयं दोषी नहीं जानता। दोष और निर्दोषता का विवेचन निजज्ञान के प्रकाश में ही सम्भव है। किसी मान्यता तथा प्रथा के आधार पर निर्दोषता तथा दोष का निर्णय

करना वास्तविक निर्णय नहीं है। यह नियम है कि जिस ज्ञान में दोष को दोष जान लेने की सामर्थ्य है, उसी ज्ञान में दोष को मिटाने का उपाय भी विद्यमान है। अतः निजज्ञान के प्रकाश में इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि को सर्वदा रहना चाहिए। ऐसा करने से इन्द्रियों में जितेन्द्रियता, मन में शुद्ध संकल्प तथा निर्विकल्पता एवं बुद्धि में समता स्वतः आ जायगी और फिर जीवन शुद्धता से परिपूर्ण हो जावेगा।

जो मान्यता निजज्ञान के विरुद्ध हो, वह साधक को अशुद्धता की ओर ले जाती है और जो मान्यता निजज्ञान के अनुरूप हो, वह शुद्धता की ओर ले जाती है। इस दृष्टि से यह स्पष्ट हो जाता है कि निजज्ञान के प्रकाश में ही शुद्धता निवास करती है और यही मानव-जीवन है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हमारी समस्त प्रवृत्तियाँ किस-किस भाव से हों, जो हमें शुद्ध बनाने में समर्थ हैं। सर्वात्मभाव, अर्थात् प्राणी-मात्र में अपने समान प्रीति हो। जिस प्रकार शरीर का प्रत्येक अवयव समान प्रिय होता है, यद्यपि प्रत्येक अवयव की आकृति तथा कर्म में भेद होता है, किन्तु समस्त शरीर के प्रति आत्मीयता समान होती है, इस कारण सभी में प्रियता होती है, उसी प्रकार सर्वात्मभाव दृढ़ होने पर प्राणीमात्र से समान प्रीति होती है, जिसके होते ही स्वार्थ-भाव मिट जाता है। स्वार्थभाव मिटते ही निर्वासना आ जाती है और फिर जीवन निर्वैरता, निर्भयता, समता, मुदितता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। इतना ही नहीं, शरीर आदि वस्तुओं से अतीत नित्य-चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती

है। सर्वत्र भगवद्भाव आ जाने पर सभी में अपने परम प्रेमास्पद का ही दर्शन होने लगता है और फिर प्रत्येक कार्य प्रेमास्पद की पूजा बन जाता है। ज्यों-ज्यों प्रीति सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों सभी दोष तथा निर्वलताएँ मिटती जाती हैं और फिर समस्त जीवन प्रीति से परिपूर्ण हो जाता है, अथवा यों कहो कि प्रीति ही बन जाता है, जिससे प्रीति और प्रीतम से भिन्न कुछ नहीं रहता, अर्थात् प्रीति और प्रीतम का नित-नव-मिलन रहता है, जो अगाध-अनन्त-रस से अभिन्न करने में समर्थ है। सभी अशुद्धियों का मूल स्वार्थभाव है, जो सेवाभाव आने पर ही मिट सकता है। सेवाभाव ज्यों-ज्यों सबल तथा स्थायी होता जाता है, त्यों-त्यों हृदय विष्णु-प्रेम, सर्वात्मभाव एवं भगवद्भाव से परिपूर्ण होता जाता है। अतः सेवाभाव स्वीकार करना प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है। उसके बिना जीवन में शुद्धता आना सम्भव नहीं है।

देहाभिमान गल जाने पर तो सभी दोषों की निवृत्ति स्वतः हो जाती है, अर्थात् साधक के निजज्ञान के प्रकाश में यह अनुभव कर लेते हैं कि देह मैं नहीं हूँ, अर्थात् देह मेरा नहीं है, उसका 'अहम्' और 'मम' मिट जाता है। 'अहम्' के मिटते ही अनन्त-नित्य जीवन और 'मम' के मिटते ही विभु-प्रेम का प्रादुर्भाव स्वतः हो जाता है और फिर कुछ करना तथा पाना शेष नहीं रहता। परन्तु, जब तक देहाभिमान नहीं गलता, तब तक अपने को सदाचारी बनाने के लिए 'मैं सदाचारी हूँ' तथा क्रोध रहित होने के लिए 'मैं क्षमाशील हूँ' एवं झूठ न बोलने के लिए 'मैं सत्यवादी हूँ' इत्यादि शुद्ध मान्यताओं से

‘अहम्’ को परिपूर्ण करना अनिवार्य है, क्योंकि मान्यता दृढ़ होने पर उसके अनुरूप प्रवृत्ति स्वतः होने लगती है। यह नियम है कि मान्यता के अनुरूप प्रवृत्ति होने पर मान्यता सिद्ध हो जाती है, अब यदि कोई कहे कि दोषयुक्त प्रवृत्ति होते हुए हम अपने में निर्दोषता स्थापित कैसे कर लें, तो कहना होगा कि निर्दोषता की स्थापना करने पर ही निर्दोष प्रवृत्ति होगी। यह नियम है कि पवित्रता स्वीकार करने पर ही पवित्र प्रवृत्ति होती है, क्योंकि कर्त्ता के अनुरूप कर्म होता है। अतः कर्त्ता पहिले पवित्र होगा और पवित्र प्रवृत्ति उसके पश्चात् स्वतः होगी।

अब यदि कोई यह कहे कि अपने को सत्यवादी, सदाचारी, क्षमाशील आदि मान लेने पर एक अभिमान की वृद्धि होगी, तो कहना होगा कि असत्यवादी, दुराचारी, क्रोधी आदि के अभिमान से तो सत्यवादी, सदाचारी, क्षमाशील आदि का अभिमान श्रेष्ठ तथा हितकर है। कारण कि अशुद्ध अभिमान से अशुद्ध प्रवृत्ति और शुद्ध अभिमान से शुद्ध प्रवृत्ति होगी। यद्यपि निराभिमानता बड़े ही महत्त्व की वस्तु है, परन्तु अशुद्ध अभिमान के रहते हुए निराभिमानता नहीं आती। जिस काल में शुद्ध अभिमान अशुद्ध अभिमान को खा लेता है, उसी काल में दोषयुक्त प्रवृत्ति का अन्त हो जाता है।

यह नियम है कि दोषयुक्त प्रवृत्ति का अन्त होते ही निर्दोषता स्वतः आजाती है। निर्दोषता आ जाने पर दोष उत्पन्न नहीं होते और गुणों का अभिमान शेष नहीं रहता। जब दोषों की उत्पत्ति नहीं होती और गुणों का अभिमान नहीं होता, तब निराभिमानता

स्वतः आती है। इस दृष्टि से अशुद्धि मिटाने के लिए शुद्ध मान्यताओं को अपना लेना अत्यन्त अनिवार्य है।

शुद्धि, अशुद्धि का द्वन्द्व रहते हुए ही माना हुआ 'अहम्' भाव जीवित रहता है। जिस काल में शुद्धता अशुद्धता को खा लेती है, उसी काल में द्वन्द्व मिट जाता है। द्वन्द्व के मिटते ही माना हुआ 'अहम्' भाव अपने आप मिट जाता है और फिर जीवन नित्य योग तथा बोध एवं प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है।

वर्तमान द्वन्द्वात्मक सीमित 'अहम्' भाव गुण-दोष का समूह है, और कुछ नहीं। दोष अविवेक का कार्य है। जब निज-विवेक अविवेक को खा लेता है, तब सभी दोष मिट जाते हैं। दोष मिटते ही गुण विमुक्त हो जाते हैं, कारण कि गुण स्वाभाविक हैं। वे किसी व्यक्ति विशेष की उपज नहीं हैं, किन्तु व्यक्तियों की खोज है। खोज से उसी की प्राप्ति होती है जिसका अस्तित्व खोजकर्त्ता से पूर्व है। इस दृष्टि से सभी दिव्य गुण उस अनन्त की महिमा-मात्र हैं। जब प्राणी अविवेक के कारण अनन्त से विमुख होकर अन्त होने-वाली देह से सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब दोषों की उत्पत्ति होती है और देह से विमुख होते ही सभी दोष स्वतः मिट जाते हैं।

यह आज तक कभी किसी को पता नहीं चला कि इस देह से सम्बन्ध कब जोड़ा था, क्यों जोड़ा था और अनन्त से क्यों विमुख हुए थे और कब विमुख हुए थे ? परन्तु, तीनों देह से विमुख होने पर अनन्त-नित्य-चिन्मय-जीवन से अभिन्नता हो जाती है, इस कारण यह मानना पड़ता है कि अनन्त से विमुख हुए थे। अतः सभी दोषों

का मूल अनन्त से विमुखता है। इस मूल दोष के मिटते ही सभी दोष स्वतः मिट जाते हैं। उसके मिटाने के लिए चाहे तो 'देह मैं नहीं हूँ, इस विवेक को अपनाये' अथवा मैं उस अनन्त नित्य का हूँ' इस विश्वास को अपनाये। अर्थात्, चाहे तो सर्व समर्थ प्रभु का होकर रहे, अथवा अपने को तीनों देहों से अतीत अनुभव करे। इन दोनों में से जो साधना जिसको सुगम हो वह उसे अपना ले। जब साधक अपनी स्वीकार की हुई साधना से अभिन्न हो जाता है, तब बड़ी ही सुगमतापूर्वक अपने साध्य को प्राप्त कर लेता है। यह निर्विवाद सत्य है।

अतः अपनी-अपनी रुचि, योग्यता तथा विश्वास के अनुसार अपने में सेवकभाव को स्थापना कर सेवा-द्वारा सभी दोषों को मिटा दे, अथवा सर्वात्मभाव स्वीकार कर सभी दोषों को मिटा दे, अथवा सर्व समर्थ प्रभु से नित्य संबन्ध स्वीकार कर सभी दोषों को मिटा दे। और, निर्दोष होकर अपना कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण कर कृतकृत्य हो जावे। ॐ आनन्द

१६

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

विवेकयुक्त जीवन मानव-जीवन है । उसमें चाह तथा व्यथे-चिन्तन के लिए कोई स्थान ही नहीं है, कारण कि इन दोनों बातों से न तो अपना कल्याण ही होता है और न सुन्दर समाज का निर्माण । प्रत्येक चाह की उत्पत्ति अविवेक सिद्ध है, अर्थात् निज-ज्ञान के अनादर से होती है । जब तक प्राणी 'यह' को 'मैं' स्वीकार नहीं करता, तब तक किसी भी चाह की उत्पत्ति नहीं होती । 'यह' को 'मैं' स्वीकार करना प्राप्त विवेक के अनादर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विवेकयुक्त जीवन में चाह तथा व्यर्थ चिन्तन का कोई स्थान ही नहीं है ।

व्यक्ति, वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि के द्वारा सुख लेने की रुचि का ही दूसरा नाम चाह है । तत्त्व-जिज्ञासा को चाह नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी पूर्ति किसी वस्तु आदि के द्वारा सम्भव नहीं है और प्रेम को भी चाह नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम का उदय ही तब होता है, जब अचाह-पद प्राप्त हो जाय, कारण कि जो कुछ भी चाहता है, वह प्रेम नहीं कर सकता । योग को भी चाह नहीं कह सकते, क्योंकि सब प्रकार की चाह तथा चिन्तन से रहित होने पर ही नित्य योग सम्भव है ।

चाह-रहित होने से शारीरिक तथा सामाजिक सभी समस्यायें हल हो सकती हैं ? निःसन्देह चाह-रहित होने से मानव-जीवन की सभी समस्यायें हल हो सकती हैं । शारीरिक तथा सामाजिक ऐसी कोई समस्या हो ही नहीं सकती, जो वर्तमान परिस्थिति के सदुपयोग से हल न हो सके । परिस्थिति का सदुपयोग चाह नहीं है, अपितु कर्त्तव्यपरायणता है । चाह तो प्राणी को केवल आगे-पीछे के चिंतन में आवद्ध करती है, किसी समस्या को हल नहीं करती । परिस्थिति का सदुपयोग प्राप्त बल तथा विवेक के द्वारा होता है । यह नियम है कि जो बल का दुरुपयोग तथा विवेक का अनादर नहीं करते, उनकी सभी समस्याएँ स्वतः हल हो जाती हैं ।

आज जो सामाजिक समस्यायें हमारे सामने उपस्थित हैं, उनके मूल में यही प्रमाद है कि हम बल का दुरुपयोग तथा विवेक का अनादर करते हुए समस्या हल करने का स्वप्न देखते हैं, जो कभी सम्भव नहीं है । ऐसी कोई निर्बलता नहीं है, जो बल का दुरुपयोग करने से नहीं हुई हो, ऐसा कोई अज्ञान नहीं है, जिसका जन्म निज-ज्ञान के अनादर से न हुआ हो । यह सभी को मान्य होगा कि निर्बलता तथा अज्ञान के कारण ही समस्या हल नहीं हो पाती हैं । जो वस्तु कर्म से प्राप्त होती है, वह वस्तु केवल चाह तथा चिन्तन-मात्र से प्राप्त नहीं हो सकती । उसके लिए तो उद्योगशील होना होगा । प्रत्येक कर्म की सिद्धि प्राप्त परिस्थिति से होती है, न कि अप्राप्त की चाह से ।

अप्राप्त की चाह तो प्राणी को स्वार्थभाव तथा जड़ता में ही



आबद्ध करती है। यह नियम है कि ज्यों-ज्यों हम स्वार्थभाव तथा जड़ता में आबद्ध होते जाते हैं, त्यों-त्यों हम सीमित होकर विनाश की ओर गतिशील होते जाते हैं। यह नियम किस्मी की कल्पना नहीं है, प्रत्युत प्रकृति का विधान है। मानव की तो केवल खोज-मात्र है। जैसे, अमरवेल जिस वृक्ष पर पड़ जाती है, अपने को पुष्ट बनाने के लिए उस वृक्ष की खुराक स्वयं खाने लगती है। यहाँ तक कि वह वृक्ष सूख जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि अन्त में अमरवेल स्वयं सूर्य के ताप से सूख जाती है और वायु के झकड़ों से उसी वृक्ष की जड़ में गिर जाती है, तथा बरसात के पानी से सड़ कर उस वृक्ष की खाद बन जाती है और वृक्ष पूर्ववत् हराभरा हो जाता है और अमरवेल सदा के लिए मिट जाती है, यही दशा स्वार्थभाव तथा जड़ता में आबद्ध प्राणियों की प्राकृतिक नियम के अनुसार स्वतः हो जाती है। इसके विपरीत पीपल का वृक्ष अपनी छाया में बोये हुए पौधों का पोषण करता है। उसका परिणाम यह होता है कि पीपल का वृक्ष दूसरे पेड़ों पर उग जाता है और हरा-भरा बना रहता है। यही दशा स्वार्थभाव से रहित चेतन की ओर गतिशील प्राणियों की होती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने तथा समाज के विकास के लिए यह अनिवार्य है कि स्वार्थभाव को सेवाभाव में परिणत कर दिया जाय। यह तभी संभव होगा, जब प्राणी अचाह-पद को प्राप्त कर प्राप्त बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर करने में समर्थ हो।

अब यदि कोई यह कहे कि अचाह हम क्यों नहीं हो पाते ?

तो, कहना होगा कि आज हमें यह विश्वास नहीं रहा कि वस्तु, अवस्था तथा परिस्थितियों से अतीत भी कोई जीवन है। इस प्रमाद का एकमात्र कारण निजज्ञान का अनादर है। क्योंकि सतत परिवर्तनशील पर-प्रकाश वस्तु आदि का ज्ञान, जिस ज्ञान को है, उस ज्ञान में प्रीति तथा उससे अभिन्नता हो जाने पर हमें उस जीवन का अनुभव हो सकता है, जो सभी वस्तु, अवस्था आदि से अतीत है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम प्राप्त विवेक का आदर करने लगे, तो वड़ी ही सुगमतापूर्वक उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, जो सभी वस्तुओं से अतीत है।

शरीर आदि वस्तुओं से अतीत जीवन प्राप्त करने के लिये हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग और व्यक्तियों की सेवा करना अनिवार्य होगा, अर्थात् अपने कर्त्तव्य से दूसरों के अधिकार की रक्षा तथा अपने अधिकार का त्याग करना होगा। ऐसा करते ही शरीरादि वस्तुओं की आसक्ति भी मिट जायगी और उनसे सम्बन्ध-विच्छेद भी हो जायगा। आसक्ति मिटने से स्वार्थभाव मिट जायगा और सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने से निर्वासना आ जायगी। स्वार्थभाव मिटते ही सेवाभाव की जागृति और निर्वासना आते ही अमर जीवन की प्राप्ति स्वतः हो जायगी। सेवाभाव की जागृति साधक को अकाम बना देती है। और, अमर जीवन की प्राप्ति साधक को आप्तकाम बना देती है, और फिर कुछ करना तथा पाना शेष नहीं रहता। अथवा यों कहो कि जीने की आशा तथा मृत्यु का भय शेष नहीं रहता।

अचाह होने से ही सर्वहितकारी प्रवृत्ति उदय होती है, जो सुन्दर समाज का निर्माण करने में समर्थ है और अचाह होने से ही तत्त्वज्ञानमा की पूर्ति होती है, कारण कि चाह-रहित होते ही जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है, उसकी प्राप्ति और जिससे मानी हुई एकता है, उसकी स्वतः निवृत्ति हो जाती है और फिर अमर जीवन प्राप्त होता है। अचाह होने से ही प्रीति उदय होती है, जो प्रेमास्पद को प्रमी बनाने में समर्थ है, कारण कि जो साधक भोग तथा मोक्ष नहीं चाहता, उसी को प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम प्राप्त होने पर ही प्रेमास्पद प्रमी होते हैं, अथवा यों कहो कि प्रमी और प्रेमास्पद में केवल प्रेम का ही आदान-प्रदान होता है। यह सभी को मान्य होगा कि प्रेम के बिना रस की वृद्धि नहीं होती और तत्त्व-साक्षात्कार के बिना अमरत्व नहीं प्राप्त होता और सर्वहितकारी प्रवृत्ति के बिना सुन्दर समाज का निर्माण तथा विश्वशान्ति नहीं होती। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि चाह-रहित होने में ही मानव-जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है, जिसके करने में प्रत्येक भाई-बहिन सवदा स्वाधीन हैं, क्योंकि विवेकयुक्त जीवन ही मानव-जीवन है। ॐ

१०

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ।

कर्त्तव्यनिष्ठ जीवन ही मानव-जीवन है । अतः कर्त्तव्यपालन में प्रत्येक भाई-बहिन प्रत्येक अवस्था तथा परिस्थिति में सर्वदा स्वाधीन है । कारण कि कर्त्तव्य उसे नहीं कह सकते जिसके करने में साधक असमर्थ हो, क्यों कि किसी को वह नहीं करना है जिसे वह नहीं कर सकता । जैसे, नेत्र को सही देखना है, सुनना नहीं और श्रवण को ठीक सुनना है, देखना नहीं, इत्यादि । अर्थात्, जिसका जो कर्त्तव्य है उसे वही करना है और उसके करने से ही कर्त्ता अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है, क्यों कि कर्त्तव्यपालन का प्रश्न ही लक्ष्य तक पहुँचने के लिए होता है, जो कर्त्तव्य हमें हमारे लक्ष्य तक न पहुँचा सके, वह हमारा कर्त्तव्य नहीं हो सकता ।

कर्त्तव्य का निर्णय सत्संग के द्वारा ही संभव है और किसी प्रकार नहीं । वह सत्संग चार भागों में विभाजित है । (१) निजविवेक के प्रकाश में अपने जाने हुये असत् को त्याग सत् में प्रतिष्ठित होना ही सर्वोत्कृष्ट सत्संग है । यह नियम है कि असत् का त्याग करते ही सत् का संग स्वतः होजाता है । असत् को असत् जान लेने पर असत् के त्याग का चल आजाता है । (२) सत्पुरुषों के

प्रकाश में बैठकर अपने असत् को असत् जानकर उसका त्याग कर सत् का संग प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई कहे कि सत्पुरुष कौन है ? तो, कहना होगा कि जिनमें अपनी बुद्धि से किसी दोष का दर्शन न हो और स्वाभाविक श्रद्धा जागृत हो, अपने लिए वही सत्पुरुष है। (३) सद्ग्रन्थों के प्रकाश में अपने असत् को देखना और उसका त्याग करना भी सत्संग है। (४) परस्पर में स्नेह तथा सद्भावना के साथ विचार विनिमय द्वारा अपने असत् को जानना और उसका त्याग कर सत् में परायण होना भी सत्संग है।

कर्त्तव्य-निर्णय होने पर अपने कर्त्तव्य के प्रति निःसन्देहता, विश्वास तथा प्रियता स्वतः उत्पन्न होती है। यह नियम है कि जिसके कर्त्तव्य में निःसन्देहता, विश्वास तथा प्रियता हो जाती है, वह स्वतः होने लगता है, अर्थात् उसके पालन करने में न तो कठिनाई होती है और न अरुचि। यदि अरुचि तथा असमर्थता प्रतीत हो तो समझना चाहिए कि हम अपनी योग्यतानुसार कर्त्तव्य का निर्णय नहीं कर पाये हैं, अर्थात् कर्त्तव्य-निर्णय में कोई दोष है।

कर्त्तव्यपरायण न होने में अपने से भिन्न किसी अन्य को दोषी मान लेना, तथा बाधक समझना अपना ही प्रमाद है। इतना ही नहीं, प्राप्त परिस्थिति को कर्त्तव्य-पालन न करने में हेतु मान लेना भी अपनी ही असावधानी है। कारण कि प्रत्येक परिस्थिति में साधक कर्त्तव्यनिष्ठ हो सकता है। परिस्थिति-भेद से कर्त्तव्य में भेद हो सकता है, किन्तु हम कर्त्तव्यपरायण नहीं हो सकते, यह मानना भूल ही हो सकती है, वास्तविकता नहीं।

समस्त कर्तव्य तीन भागों में विभाजित हो सकते हैं । (१) समाज के अधिकार की रक्षा (२) तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति और (३) परम प्रेम की प्राप्ति । समाज के अधिकारों की रक्षा करने से तो साधक समाज के ऋण से मुक्त होता है और सुन्दर समाज का निर्माण भी हो जाता है । तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति से भोग-इच्छाओं की निवृत्ति भी होती है और अमरत्व की प्राप्ति भी हो जाती है । अथवा यों कहो कि वास्तविक स्वाधीनता प्राप्त होती है, जो मानव-मात्र को प्रिय है । परम प्रेम की प्राप्ति से नित-नव रस तथा दिव्य-चिन्मय आनन्द से अभिन्नता हो जाती है, जो सभी को अभीष्ट है ।

कर्तव्यपरायणता का परिणाम सुख-दुख के भोग में नहीं है, अपितु सुख-दुख के बन्धन से रहित होकर अनन्त-नित्य-चिन्मय जीवन से अभिन्न होने में है, क्योंकि सुख-दुख का भोग तो पशु-पक्षी आदि अन्य योनियों में भी सम्भव है । मानव-जीवन में तो प्राप्त सुख-दुख का सदुपयोग करना है, भोग नहीं । यह नियम है कि सुख-दुख का सदुपयोग करने पर सुख-दुख से अतीत के जीवन में प्रवेश हो जाता है । सुख-दुख का सदुपयोग उदारता तथा त्याग में निहित है ।

कर्तव्यनिष्ठ होने पर जीवन तथा मृत्यु दोनों ही सरस हो जाते हैं और कर्तव्यच्युत होने पर जीवन नीरस तथा मृत्यु दुःखद एवं भयंकर होती है । कर्तव्यनिष्ठ प्राणी का जीवन इसलिए सरस हो जाता है कि त्याग और प्रेम से परिपूर्ण रहता है और निर्माहता के कारण मृत्यु सरस हो जाती है । कर्तव्यच्युत होने से राग-द्वेष के कारण जीवन नीरस हो जाता है और मोह में आदद्ध होने से

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

अपने बनाये हुये दोषों का अन्त करने में प्रत्येक साधक सर्वदा स्वतंत्र हैं और यही साधक का परम पुरुषार्थ है। कारण कि जानने के अनुसार, मानने में और मान्यता के अनुरूप करने से अपने बनाये हुये सभी दोष मिट जाते हैं और उनके मिटते ही स्वतः निर्दोषता प्राप्त होती है, जो वास्तविक मानव-जीवन है। यह तभी सम्भव होगा जब हम प्राप्त अलौकिक विवेक को ही अपना गुरु, अपना नेता तथा अपना शासक बनायें। अर्थात्, निज-ज्ञान का उपयोग किसी और पर न करके अपने ही ऊपर करें। जो विवेक हमें अपने दोष देखने के लिये मिला है, उसे पर-दोष-दर्शन में न लगायें, जो बुद्धि हमें अपने को समझाने के लिये मिली है, उससे अपने को ही समझायें, तभी हम अपने गुरु, अपने नेता एवं अपने शासक बन सकेंगे।

अब विचार यह करना है कि पर-दोष-दर्शन से अपनी क्या हानि तथा अहित होता है, तो कहना होगा कि पर-दोष-दर्शन तो दोष करने की अपेक्षा कहीं अधिक दोष है। कारण कि दोषयुक्त प्रवृत्ति करने पर तो अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आती हैं, अर्थात् अनेक प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं, किन्तु पर-दोष-दर्शन में कोई

कठिनाई नहीं आती और न कोई भय उत्पन्न होता है, अपितु मिथ्या अभिमान उत्पन्न हो जाता है, जो सभी दोषों का मूल है ।

यह सम्भव है कि किये हुये दोष का प्रायश्चित्त तथा प्रार्थना आदि उपचारों से निराकरण करके साधक निर्दोष हो सकें । पर, पर-दोष-दर्शन रूपी दोष का निराकरण तो उस समय तक सम्भव नहीं है, जब तक कि सदा के लिये पर-दोष-दर्शन का त्याग न कर दिया जाय और जिसको दोषी मान लिया था, उससे अपने को क्षमा न करा लिया जाय । इतना ही नहीं, जिसको बुरा समझा है, उसको प्रेम न किया जाय । अर्थात्, जिसके दोषों का दर्शन किया है, उससे क्षमा माँगना तथा उससे प्रेम करना अनिवार्य है । क्षमा माँगने का अर्थ है कि जिस भूल के लिये क्षमायाचना की है, उस भूल को फिर न दुहराया जाय और प्रेम करने का अर्थ है कि उसके हित के लिये अपना सर्वस्व लगा दिया जाय, जिससे प्रेम किया है ।

अब यदि कोई यह कहे कि जिसमें सचमुच दोष है, उसके दोष को क्यों न देखें ? तो, कहना होगा कि जिनके आप दोष देखते हैं, क्या उनके किये हुये दोष का फल स्वयं भोगने को राजी हैं ? क्या कोई पर-दोषदर्शी दूसरों के किये हुये दोष को अपने द्वारा मिटा सकता है ? यदि ये दोनों बातें वह नहीं कर सकता है, तो उसे किसी के दोष देखने का क्या अधिकार है, अर्थात् कुछ नहीं । हाँ, यह अवश्य है कि जिसमें किसी को दोष का दर्शन हो, वह उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता है । सम्बन्ध-विच्छेद का अर्थ द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, प्रत्युत सम्बन्ध-विच्छेद का अर्थ है, उससे विमुख होकर उसे सदा के लिये भूल जाना ।



अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जन्हें हम अपना प्रियजन मानते हैं, यदि उनमें कोई दोष है, तो क्या उनके हित के लिये हम उनका भी दोष न देखें ? तो, इसका उत्तर यह होगा कि यदि अपने को सब प्रकार से निर्दोष बना लिया है और प्रियजनों के दोष से अपने को घोर दुख होता है, तो ऐसी दशा में प्रियजनों को निर्दोष बनाने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न करना होगा। यह नियम है कि जिसके दुख से हम सचमुच दुखी होते हैं और उसका हित चाहते हैं, इतना ही नहीं उसके हित के लिये जो कुछ कर सकते हैं, उससे अपने को बचाते नहीं, तो उसका सुधार अवश्य हो जायगा। ऐसा करना तो पर-दोष-दर्शन नहीं है। यह तो वास्तविक सेवा है। सेवा करने का अधिकार तो सभी को है। पर-दोष-दर्शन का अर्थ है कि किसी के दोष को देख कर अपने में गुण का अभिमान करना और दोषी का तिरस्कार करना तथा उसको मदा के लिये दोषी मान लेना, जो वास्तव में प्रमाद है।

जब तक स्वयं दोषी अपना दोष स्वीकार न करें, तब तक किसी में कोई दोष है, यह मानना ही भूल है, क्योंकि दोष वास्तव में वही है, जिसे स्वयं दोषी जानता है। दोष देखने के लिये अपौरुपेय विधान ने मनुष्यमात्र को विवेक दिया है, जो अपने दोष को स्वीकार कर लेता है और उसको पुनः न दोहराने का व्रत लेता है, यह तो चेचारा क्षमा तथा प्रेम का पात्र है। किसी का दोष देखना तथा सुनना एवं किसी को दोषी मानना, ये तीनों ही महान् दोष हैं। कारण कि देखने-मात्र से किसी की वास्तविकता का बोध नहीं होता। कभी-कभी तो क्रमा हमें दिखाई देता है, वास्तविकता उसके विपरीत

होती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि देखने तथा सुनने-मात्र से ही किसी को दोषी मान लेना, न्यायसंगत नहीं है।

अब विचार यह करना है कि क्या कभी कोई दोषी अपना दोष स्वीकार कर सकता है ? हाँ, यदि दोषी को यह विश्वास हो जाय कि मुझे क्षमा कर दिया जावेगा और मेरा प्यार तथा आदर सुरक्षित रहेगा तथा मेरे सुधार के लिये यथेष्ट सहायता मिलेगी, तो दोषी अवश्य अपना दोष स्वीकार कर लेगा, क्योंकि प्राकृतिक नियमानुसार कभी कोई अपने को दोषी रखना नहीं चाहता। कारण कि दोषयुक्त जीवन होने पर प्राणी अपनी ही दृष्टि में अपने को आदर के योग्य नहीं पाता। यह नियम है कि जब तक प्राणी अपनी दृष्टि में अपने को निन्दनीय पाता है, तब तक उसे शान्ति तथा प्रसन्नता नहीं मिलती। अतः अपने को निर्दोष बनाने की लालसा स्वाभाविक है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी के दोष का दर्शन हो ही जावे, तो उसे निर्दोष बनाने के लिये अथक प्रयत्नशील रहना चाहिये, जो वास्तव में मानवता है।

अब विचार यह करना है कि हम अपने नेता, अपने गुरु तथा अपने शासक कब बन सकते हैं ? तो, कहना होगा कि जब हम पर-दोष-दर्शन न करके केवल अपने ही दोष को देखें और उसके मिटाने का उपाय जानकर उसे अपने जीवन में चरितार्थ करें, तभी हम अपने नेता, गुरु तथा शासक हो सकते हैं। नेता उसे कहते हैं, जो दोष को देखकर दुःखी हो और गुरु उसे कहते हैं, जो दोष को मिटाने का उपाय जानता हो और शासक उसे कहते हैं, जो जाने हुये

उपाय को अमल कराने में समर्थ हो । इस दृष्टि से जब हम अपना दोष देखकर घोर दुःखी हो जायेंगे, तभी अपने नेता हो सकेंगे और जब अपने दोष की निवृत्ति का उपाय जान लेंगे और उसको चरितार्थ कर लेंगे तभी हम अपने गुरु तथा शासक हो सकते हैं ।

अपना दोष देखकर उसी को घोर दुःख होता है, जो यह मान लेता है कि मेरे समान और कोई दोषी नहीं है । जब तक अपने समान तथा अपने से अधिक कोई दोषी दिखाई देता है, तब तक दोष-युक्त जीवन का गहरा दुःख नहीं होता, यह नियम है कि गहरा दुःख होने से जीवन बदल जाता है, क्योंकि जब दुःख सुख-लोलुपता को खा लेता है, तब सुख-भोग की कामना मिट जाती है, जिसके मिटते ही सभी दोष स्वतः मिट जाते हैं और दोषों के मिटते ही निर्दोषता अपने आप आ जाती है, क्योंकि दोषों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है । कारण कि दोषयुक्त प्रवृत्ति से पूर्व सभी निर्दोष हैं और यदि दोष पुनः न दोहराया जाय, तो भी निर्दोषता आ जाती है । इस दृष्टि से केवल दोषयुक्त प्रवृत्ति-काल में ही प्राणी दोषी है । उस प्रवृत्ति से पूर्व और अन्त में निर्दोष ही है । हाँ, यह अवश्य है कि दुष्कृति का परिणाम जो कुछ है, वह अवश्य कुछ काल भोगना पड़ता है । यह नियम है कि कालान्तर में किये हुये का फल अपने आप मिट जाता है । अतः यदि दोषों को न दोहराया जाय, तो निर्दोषता से अभिन्नता हो जाती है, अर्थात् दोषों की उत्पत्ति नहीं होती और गुणों का अभिमान शेष नहीं रहता । गुण-दोष-रहित होते ही सीमित "अहम्" भाव गल जाता है और फिर अनन्त-नित्य चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है ।

सभी दोष उसी समय तक जीवित रहते हैं, जब तक दोषी का हृदय घोर दुःख से भर नहीं जाता, क्योंकि पूर्ण दुःखी होने पर प्राणी संसार से निराश हो जाता है और हृदय से स्वतः पतितपावन प्रभु को पुकारने लगता है। वस, उसी काल में दुःखहारी प्रभु उसके दुःख को खा लेते हैं और उसे सदा के लिये निर्दोष बना देते हैं। इतना ही नहीं, अपनी अहेतु की कृपा से उसे प्रेम-प्रदान करते हैं। जिसके जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसके जीवन में भोग, मोक्ष आदि कोई भी कामना शेष नहीं रहती। सर्व कामनाओं से रहित होते ही जिज्ञासा की पूर्ति तथा प्रेमास्पद की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, जो मानव का लक्ष्य है।

यह नियम है कि जिसने अपने पर अपना नेतृत्व किया तथा जो अपना गुरु तथा अपना शासक बन गया है, उसका संसार पर नेतृत्व स्वतः होने लगता है, कारण कि उसका जीवन संसार के लिये अनुकरणीय हो जाता है। पर, अपना नेता, अपना गुरु तथा अपना शासक वही हो सकता है, जो अपने प्रति न्याय तथा दूसरों के प्रति क्षमा तथा प्रेम करने में समर्थ है। ॐ आनन्द

---

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

जीवन में दो बातें सभी को अनुभव होती हैं। एक तो “मैं कर रहा हूँ” और दूसरा “स्वतः हो रहा है।” इन दोनों का समूह ही मानव-जीवन है।

जीवन को साधनयुक्त बनाने के लिये “करने” में सावधान और “होने” में प्रसन्न रहना होगा, “करने” का जन्म सुखभोग की रुचि में निहित है और “होना” अपौरुषेय विधान पर निर्भर है, अथवा यों कहो कि उस अनन्त की अहेतु की कृपा का परिचय है, अथवा उस महान् का प्रेम है।

यदि कोई यह कहे कि हम “करने” और “होने” का विभाजन कैसे करें, तो कहना होगा कि जो प्रवृत्ति भोग-बुद्धि से प्रेरित होकर होती है, उसमें करने का भाव आता है, जैसे “मैं भोजन करता हूँ”, स्वाद के लिये तथा स्वास्थ्य के लिए। भोगबुद्धि का अर्थ है, कुछ पाने की रुचि। किन्तु मिलता है, “होने” के आधीन। जैसे, स्वास्थ्य कब मिलेगा ? जब भोजन पचेगा। जैसा कर्त्तापन भोजन करते समय प्रतीत होता है कि “मैं भोजन कर रहा हूँ” वैसा भोजन पचते समय प्रतीत नहीं होता कि “मैं पचा रहा हूँ।” उसके लिए तो कहना पड़ता

है कि “भोजन पच रहा है।” इतना ही नहीं, भोजन करते समय यहाँ तक भास रहता है कि अमुक भाग, अर्थात् इतने परिमाण में खा लिया; किन्तु पचते समय यह प्रतीत नहीं होता कि मैंने इतने परिमाण में पचा लिया। यंत्रों द्वारा कोई डाक्टर भले ही देखे कि इतना पच गया, अथवा इतना पच रहा है। अर्थात्, किये हुये का परिवर्तन “होने” के आधीन होता है, “करने” के नहीं। “करने” से तो किसी न किसी प्रकार के अभिमान का ही जन्म होता है, और कुछ नहीं। यह नियम है कि जिस क्रिया के साथ अभिमान मिल जाता है, उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि “करना” भोगने में बदलता है, “होने” में नहीं।

यदि हम यह चाहते हैं कि किये हुये का परिणाम हमें अवनति की ओर न ले जाय, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि हम “करने” में सावधान रहें और “होने” में प्रसन्न रहें। “करने” में सावधान रहने का अर्थ क्या है ? तो, कहना होगा कि जब कोई संकल्प करने का उदय हो, तब निज-विवेक के प्रकाश में देखो कि किस लक्ष्य के लिये “करने” की रुचि उत्पन्न हुई है और किस भाव से प्रेरित होकर क्रिया करना चाहते हैं, तथा उसके करने का ढंग कैसा है ? अर्थात् तीन बातों पर दृष्टि रखनी चाहिए—(१) किस लिये कर रहे हैं ? (२) किस भाव से कर रहे हैं और (३) कैसे कर रहे हैं ? यदि ये तीनों बातें विवेक के प्रकाश से प्रकाशित हैं, तो समझना चाहिए कि हम करने में सावधान हैं। यह नियम है कि जो “करने” में सावधान हैं, उसका कभी ह्रास न होगा, अपितु उसका उत्तरोत्तर विकास ही होगा।

कारण, किं होनहार में तो सभी का हित निहित है, किसी का ह्रास नहीं। ह्रास का एकमात्र कारण “करने” में असावधानी ही है, होनहार नहीं।

अब विचार यह करना है कि होनहार क्या है ? तो, कहना होगा कि जो स्वतः हो रहा है, उसी को होनहार कहते हैं। अब यदि कोई कहे कि स्वतः क्या हो रहा है ? तो, कहना होगा कि उत्पत्ति, विनाश तथा दुःख एवं सतत् परिवर्तन ही स्वतः हो रहा है।

अब यह विचार करना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, वह किस लिये कर रहे हैं ? अर्थात्, करने का लक्ष्य क्या है ? तो, कहना होगा कि सतत् परिवर्तन से अनन्त नित्य की ओर और उत्पत्ति विनाश से अमरत्व की ओर तथा दुःख से आनन्द की ओर गतिशील होना ही हमारा लक्ष्य है। अतः उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिये जो कुछ कर सकते हैं, करना है।

यह नियम है कि स्वार्थभाव, अर्थात् सुखभोग की रुचि से प्रेरित होकर हम जो कुछ करते हैं, उसका परिणाम सतत् परिवर्तन तथा उत्पत्ति विनाश एवं जड़ता आदि दुःखों में ही आवद्ध होना है। किन्तु, हमारा लक्ष्य उसके विपरीत अनन्त-नित्य-चिन्मय आनन्दघन की ओर गतिशील होना है। यह तभी सम्भव होगा, जब हम स्वार्थ-भाव को सेवाभाव में बदल दें। अतः हमें प्रत्येक प्रवृत्ति सेवाभाव से करनी होगी।

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए सेवाभाव से तो हमें करना ही है, पर करने का ढंग कैसा हो ? तो,

फहना होगा कि जो कार्य हमारे सामने उपस्थित है, उसे योग्यता, ईमानदारी परिश्रमपूर्वक तथा तत्परतापूर्वक करना चाहिए। योग्यता का अर्थ है, जिस कार्य को करना है, उस विषय की पूरी-पूरी जानकारी अर्थात् ज्ञान, विज्ञान एवं कला का समावेश और ईमानदारी का अर्थ है कि अपने को पूरा लगा देना तथा श्रम का अर्थ है. यथा समय करना, अर्थात् कार्य को जमा न रखना।

जब हमारी सभी प्रवृत्तियाँ कार्य-कुशलता, एवं भाव की पवित्रता तथा लक्ष्य पर दृष्टि रखकर होने लगती हैं, तब समझना चाहिये कि “करने” में असावधानी नहीं है। यह नियम है कि जब करने में असावधानी नहीं रहती, तब करने का अभिमान तथा करने की रुचि एवं करने की आसक्ति यह तीनों ही दोष मिट जाते हैं। इन तीनों दोषों की निवृत्ति होते ही कर्त्तव्य तथा भोक्तृत्व का भाव शेष नहीं रहता और फिर उस जीवन में प्रवेश हो जाता है, जो कुछ न करने से प्राप्त होता है। यह नियम है कि “करने” से जो कुछ मिलता है, वह सदैव नहीं रहता, अर्थात् नित्य नहीं है। किन्तु, “कुछ न करने” से जो कुछ मिलता है, वह सदैव रहता है, अर्थात् नित्य है। सही करने से गलत करना भी मिट जाता है और “न करना” भी स्वतः प्राप्त होता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि “करने” में सतत सावधान रहना चाहिये।

“न करने” का अर्थ आलस्य, व्यर्थ चिन्तन तथा जड़ता में आवद्ध होना नहीं है। “न करने” का अर्थ है, निराभिमानतापूर्वक अचाह होना, अथवा यों कहो, सीमित अहम् भाव का शेष न रहना।



अब यदि कोई कहे कि “करने” में सावधान रहने की बात तो ठीक मालूम होती है, पर जो स्वतः हो रहा है, यदि वह हमारे लिये दुखद है, तो उसमें हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं ? तो, कहना होगा कि दुःख के स्वरूप में जो कुछ हो रहा है, वह “करने” में जो असावधानी हुई है, उसको न दुहराने का आदेश-मात्र है। अतः उस दुःख में भी हमारा हित ही निहित है; क्योंकि यदि दुःख न होता, तो हमें अपनी असावधानी का बोध ही न होता और हम जड़ता में ही आवद्ध हो जाते। अतः जड़ता से मुक्त करने के लिये ही दुःख के स्वरूप में अहेतु की कृपा की प्राप्ति हुई है, और कुछ नहीं।

अब यदि कोई कहे कि “करने” से रहित हो जाने पर हमें क्या मिलता है, तो कहना होगा कि “करने” का जन्म किसी न किसी चाह से ही होता है। “न करना” उन्हीं को प्राप्त होगा, जो चाह से रहित हैं। चाह से रहित वे ही हो सकते हैं, जिन्होंने अपने को सब प्रकार से उस अनन्त के समर्पण कर दिया है।

यह नियम है कि चाह से रहित होते ही साधक चिन्तन से रहित हो जाता है। चिन्तन-रहित होते ही इन्द्रियाँ अविषय हो जाती हैं, मन निर्विकल्प हो जाता है और बुद्धि सम हो जाती है, जिसके होते ही भोग योग में बदल जाता है और फिर स्वतः विचार का उदय होता है, जो अविचार को खाकर अनन्त-नित्य-चिन्मय जीवन से अभिन्न कर देता है और हृदय प्रेम से भर जाता है और फिर नित-नव रस प्राप्त होता है, तथा नीरसता, जड़ता, मृत्यु आदि से छुटकारा मिल जाता है।

आज हम से सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम उन्हें भूले हुये हैं, जो हमारे न चाहने पर भी हमें चाहते हैं, तथा जो हमारे न जानने पर भी, हमें जानते हैं और हमारे न मानने पर भी हमें मानते हैं। जो हमारे प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं, वे कितने महान् हैं, कितने उदार हैं, कितने प्रेमी हैं, यह बात किसी भाव तथा भाषा के द्वारा कोई कह नहीं सकता। यदि हम अपनी वस्तुस्थिति का अध्ययन करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जब “हम कुछ नहीं करते”, तब वे हमें “सब कुछ” देते हैं और जब हम सही करते हैं, तब भी हमारी उत्तरोत्तर उन्नति होती है और जब हम गलत करते हैं, तब भी वे दुःख के स्वरूप में प्रकट होकर सचेत करते हैं। उनकी अहेतु की कृपा-शक्ति कितनी उदार है, कितनी महान् है, उसका वर्णन हो नहीं सकता। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि जो कुछ स्वतः हो रहा है, उसमें उनकी अहेतु की कृपा सभी का कल्याण कर रही है। इतना ही नहीं, जो कुछ हो रहा है, उसमें उनकी कृपा का नित-नव दर्शन है, नित-नव रस है। पर, इसका अनुभव उन्हीं को होता है, जो होनहार में सदैव प्रसन्न रहते हैं।

जब हम “करने” में सावधान तथा “होने” में प्रसन्न रहने लगते हैं, तब हमें उनके मंगलमय विधान का बोध हो जाता है और उनकी अहेतु की कृपा तथा उनके परम प्रेम पर भरोसा हो जाता है। कारण कि उनके समान न कोई प्रेमी है और न कृपालु। अतः हमें सब प्रकार से उनका होकर रहने का व्रत ले लेना चाहिये और “करने” में सावधान तथा “होने” में सदा प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा होते ही



मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

साधन-निर्माण करने के लिए दो बातें परमावश्यक हैं, एक तो वर्तमान वस्तु-स्थिति का ज्ञान, दूसरा जीवन-विभाजन। वर्तमान वस्तु-स्थिति के अध्ययन से अपने कर्त्तव्य का ज्ञान और जीवन-विभाजन से सुन्दर समाज का निर्माण होगा। वर्तमान वस्तु-स्थिति के ज्ञान का अर्थ है, साधक को अपनी योग्यता रुचि और लक्ष्य का यथार्थ बोध हो जाना। साधन-निर्माण करने में इन तीनों बातों की परमावश्यकता है। करना वही है जो साधक कर सकता है। प्रवृत्ति उसी में होती है, जिसमें रुचि हो और प्राप्त वही होता है जो लक्ष्य हो। जो कर सकता है, उसके करने से, करने की शक्ति उसी भाव में विलीन हो जाती है, जो उसका वास्तविक लक्ष्य है। लक्ष्य वही हो सकता है जिससे कभी च्युत न हो सके और जिसका कभी परिवर्तन हो एवं जिससे किसी प्रकार की दूरी तथा भेद न रहे; अर्थात् जीवन हो जाय।

जीवन-विभाजन चार अंगों में हो सकता है, गुणों का विकास, मर्यादित उपभोग, सेव और त्याग। गुणों के विकास का अर्थ है। ज्ञान, विज्ञान और कलाओं से सुशोभित होना। मर्यादित

उपभोग का अर्थ है जिस विद्यमान राग को साधक विवेक से न मिटा सके, उसके मिटाने के लिए विधान के अनुरूप प्रवृत्त होना । भोग प्रवृत्ति काल में उत्पन्न हुए स्वार्थभाव, विषय-चिन्तन और इन्द्रिय लोलुपता को मिटाने के लिए सर्व हितकारी प्रवृत्ति, सार्थक चिन्तन और जितेन्द्रियता में परायण होना ही सेवा है । सभी वस्तुओं और अवस्थाओं एवं परिस्थितियों से सम्बन्ध तथा गमता रहित होना ही त्याग है ।

बीज-रूप से मानव-मात्र में श्रम, उत्पादन, बल तथा विवेक विद्यमान है । जीवन में जब तक विवेक का साधान्य रहता है, तब तक बल-उत्पादन तथा श्रम का सदुपयोग स्वतः होना रहता है । बल के सदुपयोग से निर्बलता और उत्पादन के सदुपयोग से दरिद्रता एवं श्रम के सदुपयोग से आलस्य तथा विलास मिट जाते हैं । निर्बलता, दरिद्रता और आलस्य तथा विलास मिट जाने से अपना कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण स्वतः हो जाता है । इस दृष्टि से अपने पर विवेक का ही साधान्य रहना चाहिए ।

एव यदि कोई कहे कि अपने पर विवेक के साधान्य का क्या अर्थ है ? तो, कहना होगा कि जो ज्ञान हमें मिला है उसके प्रकाश में ही शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि की चेष्टा होनी चाहिए । मन में कोई ऐसा संकल्प न हो जिसका पूरा करना अपने ज्ञान के विपरीत हो । जैसे, अपना विनाश किरी का प्रिय नहीं और अपना विद्वान सभी को प्रिय है । इस ज्ञान का आदर करने पर उन सभी संकल्पों का अन्त हो जाना चाहिए जिसमें किरी का विनाश

निहित है, अर्थात् हम किसी का बुरा न चाहे। यह नियम है कि जो किसी का बुरा नहीं चाहता उसका भला अवश्य होता है। इतना ही नहीं उसके जीवन से समाज का हित होता है।

जो किसी का बुरा नहीं चाहता, वह सुखियों को देख कर प्रसन्न होने लगता है और दुखियों को देखकर उसका हृदय करुणा से भर जाता है। ज्यों-ज्यों करुणा सर्वत्र तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों सुख-भोग का राग स्वतः मिटता जाता है और फिर वीतराग होकर योग-बोध तथा प्रेम को प्राप्त हो कृत्य-कृत्य हो जाता है। वीतराग होने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम किसी के ऋणी न रहे और हमारी प्रसन्नता किसी अन्य पर निर्भर न रहे। अब विचार यह करना है कि हम किसके ऋणी हैं ? तो, कहना होगा कि जन्म होते ही हम भोजन देने वालों के तथा लालन-पालन करने वालों एवं शिक्षा देने वालों के ऋणी होते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक मानव के विकास का आरम्भ शिक्षा से ही होता है अथवा यों कहो कि समाज के द्वारा होता है। इतना ही नहीं, यदि हम गहराई से देखें, तो स्पष्ट हो जाता है कि पशुओं, वृक्षों तथा प्राकृतिक तत्त्वों द्वारा ही जीवनोपयोगी सामग्री मिलती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति समस्त संसार का ऋणी है। भौतिक वस्तुओं के द्वारा तो प्राणों की रक्षा होती है शारीरिक श्रम द्वारा लालन-पालन होता है, गुरुजनों के द्वारा हमें ज्ञान-विज्ञान और कलादि की शिक्षा मिलती है।

अब विचार यह करना है कि शिक्षित होने की कसौटी

क्या है ? तो, कहना होगा कि ज्ञान-विज्ञान कला आदि के द्वारा हम अपने को इतना सुन्दर बनाले कि समाज को हमारी आवश्यकता अनुभव होने लगे । यदि ऐसा नहीं हुआ, तो समझना चाहिए कि हम अभी शिक्षित नहीं हैं । यह नियम है कि समाज उसी की आवश्यकता अनुभव करता है जो उसकी पूर्ति में समर्थ हो । जिसे अपनी पूर्ति के लिए ही समाज के पीछे दौड़ना पड़ रहा है, उसे समझना चाहिए कि अभी मेरे जीवन में गुणों का विकास नहीं हुआ ।

अब यदि कोई यह कहे कि हम समाज के ऋणी क्यों है ? लालन-पालन तो हमारे माता-पिता आदि कुटुम्बी जनों द्वारा हुआ और शिक्षा अर्थ के आधार पर हुई एवं प्राकृतिक वस्तुओं पर हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है ही, तो कहना होगा कि गम्भीरता पूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति सर्वाश में समाज में समाज से सम्बन्ध-विच्छेद करके जीवित नहीं रह सकता, जैसे जिन सड़कों पर तुम चलते हो, वे केवल तुम्हारे माता-पिता-भाई ने नहीं बनवाई है, ऐसी अनेक आवश्यक सुविधाएँ हैं जो सामाजिक सहयोग से ही सिद्ध होती हैं । इतना ही नहीं, जिन्हे तुम अपना कुटुम्बीजन कहते हो, वे भी तो समाज के ही एक अंग हैं । शिक्षा की प्राप्ति भी शिक्षकों के द्वारा होती है केवल अर्थ से ही नहीं । अर्थ तो केवल परस्पर कार्य चलाने का माध्यम मात्र है । सच तो यह है कि जीवन में अर्थ की अपेक्षा नहीं है । आवश्यक वस्तुओं की अपेक्षा है, जिनका उत्पादन शारी-

रिक, बौद्धिक, श्रम तथा प्राकृतिक तत्त्वों के द्वारा होता है और शारीरिक, बौद्धिक श्रम की क्षमता शिक्षा के द्वारा प्राप्त होती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा का महत्त्व अर्थ से कहीं अधिक है। अथवा यह कहो कि अर्थ शिक्षा को उत्पन्न नहीं कर सकता, किन्तु शिक्षा अर्थ को उत्पन्न कर सकती है। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि शिक्षा के बिना मानव, मानव नहीं है।

अब विचार यह करना है कि शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या है ? तो, कहना होगा कि समाज की उपयोगिता की सिद्धि जिस योग्यता से सफल हो उस योग्यता का नाम शिक्षा है। किसी (डिग्री) उपाधि विशेष से ही शिक्षा नहीं मान लेना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति की समाज को आवश्यकता सदा ही रहती है, कारण कर्म करने में कुशलता सभी को अभीष्ट है।

माता-पिता आदि के ऋण से मुक्त होने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि अपने से योग्य संतान उत्पन्न करे तथा समाज के बालकों की यथोचित सेवा करें। भोजन देने वालों के ऋण से मुक्त होने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि पशु, वृक्षादि की यथेष्ट सेवा करना और प्राकृतिक शक्तियों को दूषित न करना। शिक्षा के ऋण से मुक्त होने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि अपने शारीरिक बौद्धिक श्रम द्वारा जीवन का कुछ भाग शिक्षा देने में व्यय किया जाय। केवल अर्थ के द्वारा ही कोई शिक्षा के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। कारण, नौकर वास्तविक शिक्षक नहीं हो सकता। बड़े-बड़े विद्यालय प्रयोगशाला खोलने-मार्ग से भी



शिक्षा नहीं हो सकती और यदि आज के युग में अर्थ के बल पर शिक्षित हो भी जावें, तो वह उस शिक्षा का सदुपयोग नहीं कर सकेगा केवल अर्थ सम्पादन में ही लग जावेगा। सेवाभाव से प्राप्त शिक्षा सेवक बनाती है और अर्थ के द्वारा प्राप्त शिक्षा लोभी बनाती है। ज्यों-ज्यों समाज में सेवा-भाव की वृद्धि होती है, त्यों-त्यों सुन्दर समाज का निर्माण होता है। और, ज्यों-ज्यों समाज में लोभ की वृद्धि होती है, त्यों-त्यों समाज में दरिद्रता तथा संघर्ष उत्पन्न होता है। यह सभी को मान्य होगा कि शिक्षित व्यक्तियों के सहयोग के बिना समाज में भलाई तथा बुराई नहीं फैल सकती। भले शिक्षक होने से भलाई फैलेगी। भले शिक्षक वे ही हो सकेंगे, जिन्होंने सेवा द्वारा शिक्षा प्राप्त की है और जिन्हें सेवकों ने अपने जीवन से शिक्षा दी हो।

यह सभी विचारशीलों को मान्य होगा कि बालकों का सुधार ही समाज का सुधार है। कारण, बालक ही भविष्य का राष्ट्र तथा समाज है। बालक का सुधार तभी संभव होगा, जब उसे नौकर तथा स्नेह की गोद से मुक्त कर इन्द्रियजन्य सत्य की खोज तथा सार्थक चिन्तन करने वाले सेवक की गोद में रख दिया जाय, कारण सेवक और बालक का जीवन उपार्जनकाल है, उपभोगकाल नहीं है। यह नियम है कि बालक देखकर बदलते हैं। जब उन्हें 'सच्चाई', सच्चरित्रता एवं उदारता आदि दिव्यगुण सम्पन्न जीवन देखने को मिलेगा, तो वे स्वयं वैसे ही बन जायेंगे। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि बालकों के विकास के लिए सच्चे सेवकों का निर्माण अनिवार्य

है। सच्चा सेवक वही हो सकेगा, जो गुरुओं के विकास तथा मर्यादित उपभोग के पश्चात् जीवन सेवा में व्यतीत करे।

सेवा करने से स्वार्थभाव गलत जाता है। स्वार्थभाव गलते ही राग-द्वेष मिट जाते हैं और जीवन त्याग तथा प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। त्याग से चिर शान्ति तथा प्रेम से नित नव रस स्वतः प्राप्त होता है, जो मानव की वास्तविक माँग है, उसकी पूर्ति तभी संभव हो सकेगी जब हम वस्तु-विभाजन के साथ जीवन-विभाजन का व्रत धारण करें। वह तभी संभव होगा, जब हम अपनी प्राप्त योग्यता-नुसार साधन करने में तत्पर हो जाँय, कारण साधनयुक्त जीवन ही मानव-जीवन है। ॐ आनन्द

---

१४

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

साधनयुक्त जीवन में वर्तमान का सबसे सुन्दर उपयोग क्या है ? तो, कहना होगा कि यदि कुछ करना चाहते हो तो सेवा करो, यदि जानना चाहते हो, तो अपने को जानो और यदि मानना चाहते हो, तो प्रभु को मानो । अर्थात्, अपने को जानना है, प्रभु को मानना है और सेवा करनी है ।

अपने को तभी जान सकोगे जब निजज्ञान के प्रकाश में देह की वास्तविकता को जान लोगे । देह का वास्तविक ज्ञान होने पर काम का नाश हो जाता है, कारण साधारण ज्ञान से देह में जिस सत्यता, सुन्दरता तथा चेतना का भास होता है । निज-विवेक के प्रकाश में देखने से उसी देह में क्षणभंगुरता, मलीनता और जड़ता का दर्शन होता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश विलीन हो जाता है, उसी प्रकार विवेक के प्रकाश में साधारण ज्ञान विलीन हो जाता है और फिर शरीर तथा संसार का वास्तविक स्वरूप जो सतत् परिवर्तनशील है प्रत्यक्ष हो जाता है। उसके प्रत्यक्ष होते ही देह 'मैं' नहीं है, इसका बोध हो जाता है । ज्यों-ज्यों यह बोध दृढ़ होता जाता है, त्यों-त्यों निर्वासना आती जाती है । वासनाओं का अन्त होते ही इन्द्रियाँ

मन में और मन बुद्धि में विलीन हो जाता है और बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धि के सम होते ही भोग योग में विलीन हो जाता है। भोग के योग में विलीन होने से आवश्यक शक्ति का विकास होता है, क्योंकि भोग प्रवृत्ति-शक्ति का हास करती है और योग से शक्ति संचित होती है। योग प्राप्त होने पर जिज्ञासु में विचार का उदय होता है और भगवद्विश्वासी में प्रेम का उदय होता है तथा सेवक में सर्वहितकारी प्रवृत्ति तथा निष्कामता आ जाती है। निष्कामता आ जाने पर सेवा स्वतः होने लगती है। विचार का उदय अविचार को खाकर अमर जीवन से अभिन्न कर देता है और प्रेम का उदय नीरसता को खाकर नित-नव अगाध अनन्त रस प्रदान करने में समर्थ होता है।

अपने को जानने का अर्थ है, अमर जीवन की प्राप्ति, क्योंकि मृत्यु देह का धर्म है, अपना नहीं। देह की तद्रूपता ही काम की जननी है और तत्त्व-जिज्ञासा ही काम की मृत्यु है।

जानने का जन्म संदेह से होता है और विश्वास की उत्पत्ति निस्संदेहता से होती है, अर्थात् संदेह जिज्ञासा जागृत करता है और निस्सन्देहता विश्वास उत्पन्न करती है। विश्वास करने योग्य वही है, जिस में दोष का दर्शन न हो। इस दृष्टि से देहादि वस्तुएँ विश्वास करने योग्य सिद्ध नहीं होतीं। हाँ, यह अवश्य है कि देहादि वस्तुओं का सदुपयोग कर सकते हैं, उन पर विश्वास नहीं कर सकते। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वास करने योग्य एकमात्र सर्व समर्थ प्रभु हैं। यदि कोई कहे कि जिन प्रभु को हम नहीं जानते, उन पर हम विश्वास कैसे करलें ? तो, कहना होगा कि विश्वास न जानने पर ही

होता है, जानने पर तो अभिन्नता होती है, विश्वास नहीं। यह नियम है कि जिन पर हम विश्वास कर लेते हैं, उनसे नित्य-सम्बन्ध स्वाभाविक हो जाता है और जिनसे सम्बन्ध हो जाता है, उनसे प्रेम स्वतः हो जाता है। सरल विश्वासपूर्वक नित्य-सम्बन्ध की स्वीकृति होते ही प्रत्येक प्रवृत्ति निर्मोहता पूर्वक प्रभु के नाते निष्काम भाव से स्वतः होने लगती है। प्रभु के नाते की हुई प्रवृत्ति कर्त्ता को प्रभु-प्रेम में विलीन कर देती है, अर्थात् कर्त्ता का अस्तित्व गलकर प्रभु-प्रेम हो जाता है, जो प्रेमास्पद से अभिन्न करने में समर्थ है।

यह सभी को मान्य होगा कि शरीरादि वस्तुओं की समस्त संसार से जातीय एकता तथा मानी हुई भिन्नता है। मानी हुई भिन्नता ने ही स्वार्थ-भाव उत्पन्न कर दिया है, जिसने हमें संकीर्णता, जड़ता आदि में आवद्ध कर दिया है, इनसे मुक्त होने के लिए स्वार्थभाव का अन्त कर देना अनिवार्य हो जाता है। स्वार्थभाव मिटाने के लिए शरीरादि वस्तुओं की संसार से जातीय एकता स्वीकार करना परम आवश्यक है। अथवा यों कहो कि शरीर आदि वस्तुएँ संसार की हैं, अपनी नहीं। इस्वास्तविकता को स्वीकार करना अनिवार्य है। यह नियम है कि जब साधक शरीरादि वस्तुओं को अपनी नहीं मानता, तब उनकी आसक्ति स्वतः मिट जाती है, आसक्ति मिटते ही सर्व हितकारी प्रवृत्ति अपने आप होने लगती है। सर्वहितकारी प्रवृत्ति स्वार्थभाव को खाकर निष्काम बना देती है। निष्कामता मोह को प्रेम में बदल देती है और शरीरादि से विमुख कर अमर जीवन से अभिन्न कर देती है।

देहादि वस्तुओं के विश्वास ने ही हमें प्रभु-विश्वास से और देह में अहं बुद्धि ने ही हमें अमर जीवन से विमुख कर दिया है, जो वास्तव में प्रमाद है। देहादि वस्तुओं के विश्वास को मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए कि देहादि वस्तुओं की उत्पत्ति किन वस्तुओं से हुई है। जो देह ऊपर से इतनी सुन्दर मालूम देती है, वह भीतर से कैसी है, जो देह जीती जागती-सी दिखाई देती है, उसका अन्त क्या है, इन प्रश्नों का हल साधक को देह से असंग करने में समर्थ है। कारण, देह की मलीनता, असुन्दरता और क्षण-भंगुरता विवेकपूर्वक सभी को स्पष्ट है। ऐसा ज्ञान साधक को सदैव स्वाभाविक रहना चाहिए। देह की ममता का त्याग करना है। उससे घृणा नहीं करना है। उसको अपना स्वरूप नहीं मानना है, उससे अपने को असंग करना है। देह की मलीनता का ज्ञान काम को खा लेता है। देह से असंगता का बोध नित्य जीवन से अभिन्न करता है।

काम का जन्म अपने को देह मानने से होता है, जो वास्तव में अविवेक है। अविवेक का नाश विवेक से होगा। किसी अन्य अभ्यास से नहीं। विवेक मानव को स्वतः प्राप्त है; उसका अनादर ही अविवेक है, अर्थात् निज-ज्ञान का अनादर का नाम ही अज्ञान है। अज्ञान का और कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। यह सभी का जानकारी है कि जिसको 'यह' कहके सम्बोधन करते हैं, उसको 'मैं' नहीं कह सकते। 'यह' उसी को सम्बोधन किया जाता है, जिसको विषय कर सकते हों। शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी को निजज्ञान ने विषय करते हैं। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि जिस ज्ञान

से शरीरादि को विषय करते हैं, वह ज्ञान शरीर से परे है। उस ज्ञान को किसी और कारण से नहीं जानते। अर्थात्, ज्ञान से ही ज्ञान को जानते हैं, उस ज्ञान का नाम ही विवेक है। वह ज्ञान भौतिक नहीं है, अलौकिक है, क्योंकि भौतिक पदार्थ पर-प्रकाश होते हैं और वह ज्ञान स्वयं प्रकाश है। इसी कारण वह चिन्मय है, जड़ नहीं। उस ज्ञान के प्रकाश में ही यह अनुभव होता है कि देह "मैं" नहीं है। देह से 'मैं' हटने पर 'मैं' कुछ नहीं है, अथवा चिन्मय है। इसी बात को यों कह सकते हैं कि 'मैं' एक ऐसी विचित्र वस्तु है कि जिसके साथ मिला दो, उस जैसी प्रतीत होने लगती है। देह से अलग होने पर 'मैं' ज्ञान से अभिन्न हो जाता है। अर्थात्, तत्त्व-साक्षात्कार हो जाता है।

तत्त्व-साक्षात्कार होते ही मन का नाश हो जाता है, कारण किसी प्रकार का राग शेष नहीं रहता, राग-रहित होते ही अनुराग की उत्पत्ति होती है और फिर मन प्रभु का विश्वास तथा प्रेम बन जाता है। जो मन प्रभु का विश्वास तथा प्रेम बन जाता है, वह बन्धन का हेतु नहीं रहता, अथवा यों कहो कि मन प्रीति बन जाता है तथा स्वरूप से अभेद हो जाता है। प्रेमी और तत्त्वज्ञ दोनों ही वेमन के हो जाते हैं, कारण उनके पास अपना मन नहीं रहता।

अब यदि कोई कहे प्रेमी तथा तत्त्वज्ञ होने पर मन कहाँ चला जाता है ? तो, कहना होगा कि जब संसार नहीं था, तब जो था, अथवा जब संसार नहीं रहेगा, तब जो रहेगा, अथवा जो संसार में है और जिसमें संसार है, उसी में प्रेमी का मन प्रीति बन कर निवास

करता है और तत्त्वज्ञ का मन अभिन्न होकर रहता है। यही मन का अपने पास न रहना अथवा नाश होना है। जिस प्रकार हल्दी और चूना मिलने से एक लालिमा उत्पन्न होती है, जिसे वास्तव में न हल्दी ही कह सकते हैं और न चूना। उसी प्रकार चिन्मय ज्ञान-तत्त्व तथा पर-प्रकाश भौतिक-तत्त्व का परस्पर संसर्ग होने से मन रूपी विभूति उत्पन्न होती है। उन दोनों की भिन्नता का अनभव हो जाने पर मन रूपी विभूति योग-प्रेम तथा बोध का साधन बन जाती है। अतः मानव को मन-भोग प्रवृत्ति के लिए नहीं, अपितु तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति, परम प्रेम की प्राप्ति एवं नित्य-योग के लिए मिला है। देहादि वस्तुओं के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर देह-विश्वास मिट जाता है और भगवद्विश्वास उत्पन्न होता है और देहादि वस्तुओं के सदुपयोग से श्रम, संयम, सदाचार, सेवा, त्याग आदि से जीवन परिपूर्ण हो जाता है अथवा यों कहो कि प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम का उदय होने पर प्रेमास्पद स्वयं प्रेमी को अपना लेता है और विचार का उदय होने पर तत्त्व-जिज्ञासा तत्त्व से अभिन्न हो जाती है। वास्तव में तो वह अनन्त ही साधक की रुचि तथा योग्यतानुसार विचार तथा प्रेम के स्वरूप में प्रकट होता है। यह उस महान् की अहेतु की कृपा है।

साधनयुक्त जीवन ही मानव-जीवन है, इस दृष्टि से मानव-जीवन की प्राप्ति उस अनन्त की अनुपम, अनिर्वचनीय, अहेतु की कृपा है। उस कृपा का आदरपूर्वक सदुपयोग करना ही मानव का परंपुरुषार्थ है। ॐ



२६

मेरे निजस्वरूप उपस्थित हानुभाव !

सब प्रकार के भय का जन्म अकर्त्तव्य तथा अचिवेक से ही होता है । अर्थात्, जो करना चाहिए उसके न करने से अथवा जो नहीं करना चाहिये उसके करने से और निजज्ञान के अनादर से ही सब प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं ।

यह सभी को मान्य होगा कि देहाभिमान के बिना किसी भी प्रकार का भय हो ही नहीं सकता और देहाभिमान की उत्पत्ति एकमात्र निजज्ञान के अनादर से ही होती है । देहाभिमान के गल जाने पर निर्वासना आ जाती है और निर्वासना आ जाने पर सब प्रकार के भय स्वतः मिट जाते हैं । अब यदि कोई कहे कि देहाभिमान क्या है ? तो, कहना होगा कि अपने को देह मानना और देह को अपना मानना ही देहाभिमान है । जब हम अपने को देह मान लेते हैं अथवा देह को अपना मान लेते हैं, तब ही वासनाओं की उत्पत्ति होती है । कारण, ऐसी कोई वासना हो ही नहीं सकती, जिसका जन्म देह में अहं बुद्धि से न हो ।

भय दो प्रकार से प्रतीत होता है । एक तो अपने में से और दूसरा समाज आदि की ओर से । जो भय अपने में उत्पन्न होता है,

जैसे मृत्यु, परिवर्तन, अभावादि का भय उसका एकमात्र कारण अवि-  
वेक है और कुछ नहीं। जो भय बाहर से आते हुए प्रतीत होते हैं  
उनका एकमात्र कारण है कर्त्तव्यपरायण न होना अथवा वह  
करना जो नहीं करना चाहिए, अर्थात् समाज के सामने हमने अपने  
को जिस मान्यता के आधार पर प्रकाशित किया है, उस मान्यता के  
अनुरूप जो विधान है, उसका यथावत् पालन न करना अथवा उसके  
विपरीत करना हमें भय-प्रदान करता है, यह सभी को मान्य होगा  
कि किसी भी भाई-बहिन ने समाज के समक्ष अपने को दुराचारी,  
मिथ्यावादी, वंचक आदि मान्यताओं से प्रकाशित नहीं किया, इससे  
स्पष्ट हो जाता है कि मानव-जीवन की कोई ऐसी मान्यता नहीं है,  
जो साधन-रूप न हो, अर्थात् जिस मान्यता का विधान अपने को  
सुन्दर बनाने और समाज के अधिकार की रक्षा में हेतु न हो। अतः  
अपने को असुन्दर बनाने वाली और समाज का अहित करने वाली  
चेष्टाएँ जिन मान्यताओं से होती हैं, उन मान्यताओं का मानव-जीवन  
में कोई स्थान ही नहीं है।

अब यदि कोई ऐसा कहे कि दोषयुक्त मान्यता तो दोषयुक्त  
प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है, तो ऐसा कहना यथार्थ नहीं है; क्योंकि  
कर्त्ता के अनुरूप कर्म होता है। कर्म तो केवल कर्त्ता की मान्यता में  
दृढ़ता उत्पन्न करता है, जैसे अपने को चोर मान लेने पर ही चोरी में  
प्रवृत्ति होती है। चोरी रूप कर्म से मैं चोर हूँ, इस मान्यता की दृढ़ता  
ही होती है। यदि चोरी करने से पूर्व अपने को चोर नहीं माना होता,  
तो चोरी में प्रवृत्ति कदापि नहीं होती।

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि साधन रूप मान्यताएँ तो अपनी संस्कृति, मत, सम्प्रदाय आदि से हमें प्राप्त हुईं । किन्तु, असाधन रूप मान्यताओं की उत्पत्ति कैसे हुई ? जब-जब जीवन में काम और संयम का आदर घटता है और आलस्य तथा विलास की रुचि बढ़ती है, तब-तब दोषयुक्त प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । आलस्य की उत्पत्ति यथेष्ट विश्राम न मिलने से होती है और विलास का जन्म होता है, जीवन में नीरसता तथा खिन्नता बढ़ जाने से और इन दोनों की उत्पत्ति होती है, देह से अतीत जीवन पर विश्वास तथा उसका अनुभव न होने से ।

अलौकिक विवेक के प्रकाश में जब हम “यह” को “यह” अनुभव कर लेते हैं, उसमें “मैं” नहीं मिलते, तब स्वाभाविक विश्राम प्राप्त होता है । कुछ काल उसमें निवास करने से स्वाभाविक श्रम की रुचि तथा संयम प्राप्त होता है । संयम से आवश्यक शक्ति का विकास और श्रम से वर्तमान कार्य सुन्दरतापूर्वक स्वतः होने लगता है, जो वास्तव में कर्त्तव्यपरायणता है । जो कार्य सुन्दरतापूर्वक होने लगता है, उससे समाज के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, कारण समाज के अधिकार का समूह ही व्यक्ति का जीवन है ।

जब हमारे जीवन से दूसरों के अधिकार सुरक्षित होने लगते हैं, तब वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग हो जाता है, यह नियम है कि वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग परिस्थितियों से अतीत के जीवन में प्रवेश करने की सामर्थ्य प्रदान करता है अथवा उत्कृष्ट परिस्थिति को प्राप्त कराता है । हम चाहें किन्ती भी पद्धति, संस्कृति, मत आदि

को मानते हों, यदि हमारे जीवन से वर्तमान के सदुपयोग द्वारा समाज के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, तो हम बड़ी ही सुगमता से बाहर से आने वाले जो भय हैं, उनसे मुक्त हो सकते हैं ।

कर्त्तव्यनिष्ठ जीवन ही मानव-जीवन है । अतः साधक प्रत्येक दशा में अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकता है । क्योंकि प्रत्येक दशा कर्त्तव्य का क्षेत्र है और कल नहीं ? अब यदि कोई यह कहे कि हम तो इतने असमर्थ हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते, तो कहना होगा कि कुछ न करना अकर्त्तव्य नहीं है, किन्तु जिस दशा में जो करना चाहिएं, उसके विपरीत करना अकर्त्तव्य है, जैसे कोई इतना दुर्बल है कि बोल नहीं सकता, तो न बोलना अकर्त्तव्य नहीं है, किन्तु मिथ्या बोलना अकर्त्तव्य है । इसी प्रकार किसी संकल्प का न करना कोई अकर्त्तव्य नहीं है, किन्तु घुरे संकल्प करना अकर्त्तव्य है । इतना ही नहीं सब कुछ करने का फल भी न करना ही होता है, तो जो कुछ नहीं कर सकता, उससे कोई क्षति नहीं होती, प्रत्युत् उत्कृष्ट जीवन में प्रवेश होता है ।

अनादर का भय जीवन में तभी तक बना रहता है, जब तक हम अपनी दृष्टि में आदर के योग्य नहीं होते । हम अपनी दृष्टि में तब तक आदर के योग्य नहीं होते, जब तक अपने बनाए हुए दोषों का अन्त नहीं कर देते । जैसा जानते हैं, वैसा न मानना और जो मान लिया, उस मान्यता के विधान के अनुरूप कर्त्तव्यनिष्ठ न होना ही अपना बनाया हुआ दोष है ।

अपने बनाए हुए दोषों का अन्त हो जाने पर दोषों को प्रकट

करने में कोई भय नहीं होता और समाज भी उसका अनादर नहीं करता, क्योंकि वर्तमान की निर्दोषता समाज की आवश्यकता बन जाती है, इतना ही नहीं; उसके पूर्व दोषों को जानकर और आदर बढ़ जाता है। क्योंकि दोषयुक्त प्राणियों को उसके जीवन से निर्दोष होने के लिए प्रकाश मिलता है और उसमें दोषयुक्त प्राणियों को प्यार देने की सामर्थ्य आ जाती है, उससे वृथा घृणा नहीं होती, क्योंकि वह यह भली-भाँति जानता है कि आज यह विचारा जिस अवस्था में है, उस अवस्था में कभी मैं भी था।

अब यदि कोई कहे कि बाहर से आने वाले भय तो कर्त्तव्यनिष्ठ होने से मिट सकते हैं, किन्तु अपने में उत्पन्न हुए भय, जैसे मृत्यु का भय, होनहार का भय, दैव का भय कैसे मिट सकते हैं ? तो, कहना होगा कि यदि प्राणों के रहते हुए ही भोग-इच्छाओं का अन्त हो जाय और तत्त्व-जिज्ञासा तथा प्रिय-लालसा की पूति हो जाय, तो देह की आवश्यकता ही शेष नहीं रहती। अतः मृत्यु का भय स्वतः मिट जाता है। अब रही होनहार तथा दैव की बात। होनहार का भय उन्हीं को होता है, जो संयोग की दासता तथा वियोग के भय से पीड़ित हैं। विवेकपूर्वक नित्य-योग प्राप्त करने से होनहार का भय मिट जाता है। दैव भोगी के लिए भले ही न्यायकर्त्ता हो, परन्तु विवेकी तथा कर्त्तव्यनिष्ठ के लिए तो उदार तथा प्रेमी हैं। अथवा यों कहो कि भयहारी तथा दुःखहारी-अथवा कहो आनन्ददाता है। भय तो वही देता है, जो स्वयं भयभीत हो। पर, उस अनन्त में तो किसी प्रकार का भय नहीं है, भला वह किसी को भय दे ही कैसे सकता है ? उस

पर भी यदि किसी को उस अनन्त से भय लगता है, तो उसकी निवृत्ति केवल इतना मानने मात्र से हो जाती है कि मैं उनका हूँ। यह नियम है कि जो जिसका हो जाता है, वह उससे प्यार ही पाता है, भय नहीं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्त्तव्यनिष्ठ होने से बाहर से आने वाले भय और विवेकयुक्त होने से अपने में उत्पन्न होने वाले भय तथा सरल विश्वासपूर्वक प्रभु के समर्पण होने से सब प्रकार के भय मिट जाते हैं। ॐ आनन्द

---

२६

मेरे निजस्वरूप उपास्थित महानुभाव !

मानव-मात्र को नित-नव रस, अमरत्व, एवम् सामर्थ्य की आवश्यकता स्वाभाविक है। स्वाभाविक आवश्यकता उसी की होती है जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता हो। अतः हमारी जो स्वाभाविक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति और अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति अनिवार्य है। ऐसा तभी सम्भव है, जब पर से विमुख होकर जो नित्य प्राप्त है उसका बोध हो, अथवा उससे प्रीति हो। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जो नित्य प्राप्त है उसका बोध क्यों नहीं होता ? उससे प्रीति क्यों नहीं होती ? तो, कहना होगा कि पर की ओर गतिशील होने से ही जो नित्य प्राप्त है उससे दूरी प्रतीत होने लगती है, यद्यपि नित्य प्राप्त से देशकाल की दूरी सम्भव नहीं है, परन्तु प्रमादवश हम उसे अपने से दूर मान लेते हैं, कारण कि प्रतीति की ओर गतिशील हो जाते हैं। प्रतीति की ओर प्रवृत्ति तो होती है, पर उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रतीति की अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है।

अब यदि कोई यह कहे कि जिसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, उसकी प्रतीति कैसे होती है ? तो, कहना होगा कि अल्प ज्ञान

को वास्तविक ज्ञान मान लेने से उस अनन्त-नित्य सत्ता में ही राग के अनुरूप प्रतीति होती है। जिस काल में वैराग्य राग को खाकर स्वयं विलीन हो जाता है, उसी काल में अनन्त, नित्य, चिन्मय तत्त्व से अभिन्नता हो जाती है, अर्थात् उसका बोध हो जाता है और फिर प्रतीति में सर्वत्र उस अनन्त का ही दर्शन होने लगता है, जो नित्य प्राप्त में प्रीति उत्पन्न करने में समर्थ है। ज्यों-ज्यों प्रीति सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों ज्ञान विज्ञान में और प्रीति प्रियतम में विलीन होती जाती है। अथवा यों कहो कि जिस प्रकार नदी समुद्र से अभिन्न होने पर भी गतिशील रहती है, उसी प्रकार प्रीति प्रियतम से अभिन्न रहने पर भी नितनव रहती है। इसी कारण प्रीति नितनव रस प्रदान करती है। नित-नव-रस की न तो पूर्ति होती है और न अभाव। इस विलक्षणता से ही प्रीति प्रियतम को और प्रियतम प्रीति को नित्य प्रिय है।

अल्प ज्ञान में सद्भाव होने से राग की उत्पत्ति होती है और निजविवेक से वैराग्य का उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश स्वयं विलीन हो जाता है, उसी प्रकार वैराग्य में राग विलीन हो जाता है, अथवा यों कहो कि इन्द्रियों का ज्ञान निजज्ञान में विलीन हो जाता है और फिर भोग-वासना की निवृत्ति और योग की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। योग का वास्तविक अर्थ है 'पर' से विमुख 'स्व' में स्थित होना, अथवा यों कहो कि विपर्ययों से विमुख होकर जो अपने अत्यन्त निरुद्ध है उससे तद्रूप होना। यह नियम है कि अत्यन्त निरुद्ध से मिलने के लिए कोई



है और यह ज्ञान की महिमा है कि अनन्त गुणों में निर्गुण का बोध होता है। इस दृष्टि से किसी एक में ही निर्गुण तथा सगुण का समावेश है। अतः प्रेम और ज्ञान में स्वरूप से भेद नहीं है, केवल रस का भेद है, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक है, तत्त्व एक है, दो नहीं। यदि ज्ञान दो को एक करने में समर्थ है, तो प्रेम एक को दो करने में समर्थ है। एक में दो और दो में एक यह उस अनन्त में ही है, किसी अन्य में नहीं। अतः योग, ज्ञान और प्रेम उस अनन्त की ही विभूतियाँ हैं और कुछ नहीं। योग के बिना सामर्थ्य, ज्ञान के बिना जीवन और प्रेम के बिना आनन्द की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः मानव-मात्र को योग, ज्ञान तथा प्रेम प्राप्त करना अनिवार्य है। इन तीनों में से किसी एक की पूर्णता तीनों की पूर्णता हो जाती है। इन तीनों के स्वरूप में भेद नहीं है केवल साधन-भेद है। साधन-भेद होने पर भी प्रीति तथा लक्ष्य की एकता अनिवार्य है। अतः हम सब किसी भी साधना को अपना कर अपने को साधन से अभिन्न कर साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्ति सभी की एक है, क्योंकि हम सब की आवश्यकता एक है।

सारांश यह निकला कि प्रत्येक साधक की योग्यता एवं रुचि के अनुसार साधन में भेद होने पर भी परस्पर में प्रीति तथा लक्ष्य की एकता अनिवार्य है, जो वास्तव में मानवता है। ॐ

मेरे निजस्वरूप उपास्थित महानुभाव ।

चरित्र-निर्माण मानव-जीवन में एक महान् बल है । उसकी आवश्यकता मानव-मात्र को है । उसके बिना मानव मानव नहीं हो सकता । वीतराग होने में ही चरित्र-निर्माण की पराकाष्ठा है और वीतराग होने में ही पूर्ण मानवता का विकास है । चरित्र-निर्माण में ही अपना कल्याण तथा समाज का हित निहित है । इस दृष्टि से चरित्र निर्माण जीवन का आवश्यक अंग है ।

चरित्र-निर्माण वास्तव में अन्तर प्रेरणा है, क्योंकि किसी को भी चरित्र-हीन की आवश्यकता नहीं है । इस दृष्टि से समाज को एक-मात्र चरित्रवान व्यक्ति की ही आवश्यकता है । इतना ही नहीं, अपनी निर्बलताएँ मिटाने में भी सच्चरित्रता ही समर्थ है ।

चरित्र को सुरक्षित रखने के लिये सब कुछ न्योझावर किया जा सकता है, किन्तु चरित्र किसी के बदले में नहीं दिया जा सकता । अतः चरित्र का महत्त्व शरीरादि सभी वस्तुओं से अधिक है । चरित्र-निर्माण करने में जितेन्द्रियता अत्यन्त अनिवार्य है, क्योंकि इन्द्रिय लोलुपता के कारण ही हम चरित्र-हीन हो जाते हैं । मुक्त इच्छाओं के रस की स्मृति और अमुक्त इच्छाओं की आशा ही

इन्द्रिय लोलुपता को पुष्ट करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन में उत्पन्न हुई नीरसता को दवाने तथा मुलाने के लिये प्राणी, इन्द्रिय लोलुपता का आश्रय लेता है, यद्यपि नीरसता मिटाने के लिये नित-नव रस की आवश्यकता है, चरित्र हीनता की नहीं। नित-नव रस की प्राप्ति प्रीति से होती है, किसी सुख-भोग से नहीं। प्रीति की उत्पत्ति अचाह से होती है, किसी राग से नहीं। अचाहपद की प्राप्ति विवेक से होती है, जो मानव-मात्र में विद्यमान है।

उस विद्यमान विवेक के प्रकाश में ही हमें अपनी वर्तमान वस्तु-स्थिति देखना है। ऐसा करने से हमें अपनी निर्वलताओं का तथा अपने बनाये हुये दोषों का ज्ञान हो जायगा। अपनी निर्वलता का ज्ञान वेदना जागृत करने में समर्थ है। यदि उस वेदना को पर दोष दर्शन से दबाया न जाय, तो वेदना स्वतः सब ही दोषों को भस्मी भूत कर निर्दोषता की स्थापना में {समर्थ हो जाती है और फिर निर्दोषता दोषों को उत्पन्न नहीं होने देती। इस दृष्टि से वेदना और दोषों का न दोहराना ही निर्दोष बनाने का मुख्य हेतु है।

वेदना और दुख में अन्तर है। वेदना अभाव मिटाने की पीड़ा है, अथवा यों कहो कि वेदना मानव की वास्तविक भूख है। दुख के दो रूप हैं; एक तो सुख-भोग की आशा और दूसरा सब प्रकार के अभाव का अभाव करने की अभिलाषा। दुख का वाह्य रूप पूर्ण दुख नहीं है। दुख का आन्तरिक रूप जो वेदना के रूप में जागृत होता है, मानव के विकास की भूमि है। यह भूमि सुरक्षित तब ही रह सकती है, जब हम अपने लक्ष्य से निराश न हों।

वेदना जागृत होने पर एक आन्तरिक गहरी माँग उत्पन्न होती है, जो वास्तव में प्रार्थना है। प्रार्थी उस अनन्त को भले ही न माने अथवा न जाने तो भी वह अनन्त अपनी अहेतु की कृपा से प्रार्थी की प्रार्थना की पूर्ति कर देता है, किन्तु अपने को प्रकट नहीं करता। यह उस अनन्त की सहिमा है और कुछ नहीं। यदि प्राणी व्यथित हृदय से उन्हें पुकारे, तो उसे सब कुछ मिल सकता है। इस दृष्टि से अपने को निर्दोष बनाने में प्रार्थना का मुख्य स्थान है। वह प्रार्थना सजीव तब ही होती है, जब की हुई भूल को न दोहरा कर प्रायश्चित्तपूर्वक प्रार्थना की जाय। यदि किसी का प्रार्थना पर विश्वास न भी हो, तो कहना होगा कि जिस प्रकार प्यास का लगना ही पानी का माँगना है, उसी प्रकार अभाव की वेदना ही प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ दीनता तथा पराधीनता नहीं है, प्रत्युत अपने वास्तविक आवश्यकता की जागृति है, अथवा यों कहो कि जिससे हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकता है उसकी प्रीति है।

चरित्रनिर्माण के लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि हम विवेक तथा न्याय का प्रयोग अपने पर तथा विश्वास, क्षमा और प्रेम का उपयोग दूसरों पर करें। विवेक से दोष का ज्ञान होगा और न्याय से निर्दोषता की स्थापना होगी। न्याय वही सार्थक होता है जो अपने पर किया जाय। न्याय का अर्थ दण्ड देना नहीं, अपितु सुधार करना है। अतः अपना सुधार करना ही अपने प्रति न्याय करना है। उद्योग-ज्यों अपना सुधार होता जाता है, त्यों-त्यों न्याय प्रेम में, क्रोध क्षमा में, अविश्वास विश्वास में, वैर-भाव निरंतरता में और भिन्नता एकता

में बदलते जाते हैं । जो अपने प्रति न्याय नहीं करता, वही दूसरों के प्रति प्रेम नहीं कर सकता । प्रेम को विकसित करने के लिये अपने प्रति न्याय करना अनिवार्य है । वास्तविक न्याय करने के लिये यह आवश्यक है कि दोष का यथार्थ ज्ञान हो । जितना ज्ञान हमें अपने दोष का होता है, उतना अन्य के दोष का नहीं । इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तविक न्याय अपने पर ही किया जा सकता है दूसरों पर नहीं । दूसरों से तो प्रेम किया जा सकता है—अथवा दूसरों को क्षमा किया जा सकता है । क्षमा और प्रेम, निर्वैरता और अभिन्नता प्रदान करने में समर्थ है । निर्वैरता हमें निर्भय बना देती है और अभिन्नता नीरसता का अन्त कर सरस बना देती है, जो सभी को अभीष्ट है ।

चरित्र-निर्माण के लिये हमें इन्द्रिय लोलुपता को जितेन्द्रियता में और स्वार्थ-भाव को सेवा में तथा विषय चिंतन को भगवद्चिंतन में परिवर्तित करना तथा असत् को असत् जानकर सत् की खोज करना अनिवार्य होजाता है । यह नियम है कि सत् की खोज असत् को खाकर सत् से अभिन्न कर देती है । सत् स्वयम् तो असत् का प्रकाशक है, विनाशक नहीं, किन्तु सत् की खोज असत् की विनाशक है । इस दृष्टि से सत् की खोज सत् से भी अधिक महत्त्व की वस्तु है; क्योंकि सत् की खोज ही सत् के अभिलाषी को सत् से अभिन्न कर देती है । परन्तु, व्यर्थ चिन्तन की आसक्ति सत् की खोज जागृत नहीं होने देती । सत् की खोज जागृत करने के लिये व्यर्थ चिन्तन को सार्थक चिन्तन में अर्थात् वस्तु आदि के चिन्तन को

भगवद्चिन्तन में बदलना अनिवार्य होगा। व्यर्थचिन्तन को सार्थक चिन्तन में परिवर्तित करने के लिये स्वार्थ-भाव तथा इन्द्रिय लोलुपता को सेवा-भाव तथा जितेन्द्रियता में बदलना होगा, तभी हम अपना निर्माण कर सकेंगे।

अपने निर्माण को सुरक्षित रखने के लिये अक्रोध तथा हृदय-शीलता एवं निर्भिमानता अत्यन्त आवश्यक है। क्रोध-रहित होने के लिये यह अनिवार्य होगा कि हम दूसरों के कर्त्तव्य को अपना अधिकार न मानें। अपितु दूसरों के अधिकार को अपना कर्त्तव्य मानें, क्योंकि यदि किसी के कर्त्तव्य को अपना अधिकार मान लगे तो उसकी पूर्ति में राग तथा अपूर्ति में क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध सभी दिव्य गुणों को भस्मीभूत कर देता है। अतः क्रोधरहित होने के लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि हम किसी के कर्त्तव्य को अपना अधिकार न मानें। हृदय-शील रहने के लिये यह आवश्यक होजाता है कि अपने प्रति होने वाली उदारता को अपना गुण न माने, अपितु जिसने उदारता की है, उसकी महानता जाने। ऐसा करने से हृदयशीलता सुरक्षित रहेगी। हृदयशीलता सुरक्षित रहने से परस्पर में स्नेह की वृद्धि होगी, जो विकास का मूल है। यह विकास तब ही सुरक्षित रह सकेगा, जब किसी की निर्बलता को अपना बल न मान लिया जाय। जब हम प्रमाद्वश किसी की निर्बलता को अपना बल मान लेते हैं, तब अभिमान में आवृद्ध हो जाते हैं, जो हास का मूल है।

अपने निर्माण के लिये कर्म शुद्धि का जीवन में मुख्य स्थान है। पर, वह तब ही संभव होगा, जब हमारी सभी प्रवृत्तियाँ तथा

सम्बन्ध शुद्धभाव से भावित हों, अर्थात् हम सभी को अपना कुटुम्ब जानें। इतना ही नहीं कर्म का भेद होने पर भी प्रीति का भेद न हो। कर्म की भिन्नता तो अनिवार्य है; क्योंकि योग्यता तथा मान्यता का भेद है। परन्तु, स्नेह की भिन्नता महान् दोष है। उसका अन्त किये बिना सच्चरित्रता संभव नहीं है। स्नेह की भिन्नता मिटाने के लिए हमें सभी के प्रति परिवार के समान ही सद्भाव रखना तथा संबोधन करना होगा। यह सभी को मान्य होगा कि भाव के अनुरूप संबोधन करने से भाव में दृढ़ता आती है और भाव के अनुरूप ही प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के अनुरूप ही कर्त्ता का स्वरूप हो जाता है, अर्थात् जीवन पवित्रता से परिपूर्ण हो जाता है। अतः वाह्य भेद होने पर भी आन्तरिक एकता सुरक्षित रखना चरित्रवान होने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

यह सभी को मान्य होगा कि सच्चरित्रता सुरक्षित रखने के लिए हृदय सर्वदा असीम स्नेह से भरा रहे। यह तभी संभव होगा जब हम अपने निकटवर्तियों की क्रियात्मक रूप से यथा-शक्ति सेवा करने के लिए सर्वदा उद्यत रहें, कारण कि सेवा स्वार्थ को खाकर स्नेह की वृद्धि करने में समर्थ है। अतः स्नेह को सुदृढ़ तथा विभु करने के लिये प्राप्त सुख का सद्ब्यय निर्मोहितापूर्वक कतव्यबुद्धि से करते रहना चाहिए जो वास्तव में सेवा है।

सेवा करने की योग्यता तभी आती है, जब हम स्वावलम्बी हों और स्वावलम्बी वे ही हो सकते हैं, जिनका आहार-विहार सुख-लोलुपता को त्याग शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक हित की

भावना से हो । सुख और हित में बड़ा भेद है । सुख की आसक्ति हमें पराधीन तथा निर्वल बनाती है और हित हमें स्वाधीन तथा सबल बनाता है । इस दृष्टि से प्रत्येक प्रवृत्ति में सुख बुद्धि का त्याग और हित-बुद्धि की स्थापना करना अनिवार्य है । सुखकर प्रवृत्ति से चरित्रहीनता तथा हितकर प्रवृत्ति से सच्चरित्रता स्वतः आ जाती है, कारण की सुख हमें आलस्य तथा विलास की ओर और हित हमें श्रम तथा संयम की ओर गतिशील करता है । सुख से दुख दब जाता है और हित से दुख मिट जाता है । दुख मिटाना सभी को अभीष्ट है । अतः सुखलोलुपता को त्याग सर्वहितकारी भावना से प्रत्येक प्रवृत्ति करना चाहिए जो चरित्र-निर्माण के लिये महामंत्र है ।

अपने को सुन्दर बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शरीर श्रमी हो, कारण कि शरीर के श्रमी होने से आवश्यक कार्य पूरे हो जाते हैं और अनावश्यक कार्य मिट जाते हैं । अनावश्यक कार्य मिटते ही मन संयमी हो जाता है; मन के संयमी होने पर घुरे संकल्प मिट जाते हैं और भले संकल्प पूरे हो जाते हैं । ज्यों-ज्यों संयम सबल तथा स्थायी होता जाता है, त्यों-त्यों शुद्ध संकल्पों की पूर्ति का सुख मिटता जाता है । संकल्प-पूर्ति का सुख मिटते ही निर्विकल्पता आ जाती है । मन के निर्विकल्प होने पर स्वतः विचार का उदय होता है और फिर बुद्धि विवेकवती हो जाती है । विवेकवती बुद्धि वासनाओं के मिटाने में समर्थ है । वासनाओं के मिटने ही हृदय अनुरागी हो जाता है । यह नियम है कि अनुराग अहं भाव को अभिमान-शून्य कर देता है, क्योंकि अनुराग का प्रादुर्भाव होते ही



किसी प्रकार की चाह शेष नहीं रहती। अचाह हो जाने पर अहम्-भाव स्वतः गलत जाता है। अहम्भाव के गलते ही जीवन अनन्त नित्य सौन्दर्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस दृष्टि से शरीर श्रमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती और हृदय अनुरागी एवम् अहम् अभिमान शून्य करना अत्यन्त अनिवार्य हो जाता है।

अपनी सुन्दरता सुरक्षित रखने के लिये यह सभी को मान्य होगा कि सत्य को जीवन में सभी से उत्कृष्ट स्थान देना चाहिये। यह तभी संभव होगा कि जब हम अपने को सिक्के की दासता से मुक्त कर सकें। सिक्के की दासता ने ही आलस्य, विलास तथा अभिमान को जन्म दिया है, जिससे चरित्र-हीनता के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला, जो सुन्दरता को सुरक्षित नहीं रहने देती। यद्यपि सिक्के का जीवनमें कोई विशेष मूल्य नहीं है, केवल आदान-प्रदान का साधन, अर्थात् माध्यम-मात्र है। इस दृष्टि से सिक्का वस्तु-उत्पादन का साधन मात्र है और कुछ नहीं। वस्तु का उत्पादन सिक्के को संग्रह करने के लिये नहीं है, प्रत्युत व्यक्तियों की रक्षा के लिये है और व्यक्ति का जीवन विवेकपूर्वक सत्य को प्राप्त करने के लिये है, कारण कि असत्य का त्याग और सत्य की प्राप्ति ही मानव का उद्देश्य है। इस दृष्टि से सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक एवम् विवेक से सत्य को अधिक महत्त्व देना अनिवार्य है जो चरित्र-निर्माण में हेतु है। इतना ही नहीं सच्चरित्र होने के लिये व्यर्थ चिन्तन का त्याग तथा वर्तमान का सदुपयोग करना अत्यन्त अनिवार्य है। वर्तमान के सदुपयोग का अर्थ है सुख-दुःख का सदुपयोग और व्यर्थ चिन्तन

के त्याग का अर्थ है सार्थक चिन्तन, अर्थान् तत्त्व-चिन्तन एवम् भगवद्चिन्तन का उदय होना । सुख का सदुपयोग उदारता और दुख का सदुपयोग विरक्ति है । उदारता आजाने पर प्राणी सुख-भोग के बन्धन से मुक्त हो जाता है और विरक्ति आजाने पर आत्म-अनुरक्ति अथवा परम प्रेम की जागृति स्वतः होती है, जिसके होने से जीवन अनन्त नित्य सौन्दर्य से सम्पन्न हो जाता है अथवा यों कहो कि सब प्रकार के अभावों का अभाव होकर पूर्ण हो जाता है अथवा कहो कि जीवन जड़ता, पराधीनता, शक्ति-हीनता आदि दोषों से रहित होकर अनन्त-नित्य चिन्मय परम तत्त्व से अभिन्न हो जाता है, जो मानव का उद्देश्य है । अतः चरित्र-निर्माण करने के लिये सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये, क्यों कि चरित्र-निर्माण के लिये ही मानव-जीवन मिला है ।

सुख-दुख का सदुपयोग साधन का मूल है । वह तभी संभव होगा, जब सुख-दुख को जीवन न मानकर उसे साधन-सामग्री जान लिया जाय । मानव-जीवन में सुख-दुख के उपभोग का कोई स्थान ही नहीं है, कारण कि सुख-दुख तो पशु-पक्षी आदि भी भोगते हैं । मानव-जीवन तो सुख-दुख के बन्धन से मुक्त होकर पवित्र प्रेम तथा अमर-जीवन की प्राप्ति के लिये मिला है । वास्तव में ऐसा साधन-युक्त जीवन ही मानव-जीवन है । ॐ



## मानव सेवा संघ के उद्देश्य तथा नियम

वर्तमान मानव-समाज के सामने दो विभिन्न विचार-धाराओं का संघर्ष है। यद्यपि दोनों का लक्ष्य एक है, पर वे परस्पर स्नेह की एकता से दूर होती जा रही हैं, जिसका परिणाम बड़ा ही भयंकर तथा दुःखद सिद्ध हुआ है। एक विचारधारा तो यह है कि हम समाज से विमुख होकर एकान्तिक जीवन द्वारा अपना कल्याण करें, दूसरी यह है कि हम भले ही चाहे जैसे रहे, पर समाज को सुन्दर बनाकर अपने को सुखी बनावें, पर इन दोनों में एकता का संचार करना ही वास्तविक उपयोगी विचारधारा है। यह तभी सम्भव है जब प्राणी आध्यात्मिकता तथा आस्तिकता से अपने जीवन का निर्माण करें और अपने आत्म-विश्वास, सच्चरित्रता एवं विवेक-बल से सेवा-द्वारा समाज को सुन्दर बनाने के लिए प्रयत्नशील बना रहे। 'जिस प्रकार सुन्दर पुष्प से ही वाटिका सुन्दर होती है, उसी प्रकार सुन्दर व्यक्तियों से समाज सुन्दर होता है। इसी आत्यन्तिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मानव सेवा संघ का जन्म हुआ है।

मानव सेवा संघ के सदस्यों को उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों पर विश्वास करना परम अनिवार्य है।

### नियम

१. आत्म-निरीक्षण अर्थात् प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना।

२. की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास-पूर्वक प्रार्थना करना ।
३. विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात् न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर ।
४. जितेन्द्रियता, सेवा, भगवच्चिन्तन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण ।
५. दूसरे के कर्त्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता को अपना गुण और दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना ।
६. पारिवारिक तथा जातीय सम्बन्ध न होते हुए भी पारिवारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक सम्बोधन तथा सद्भाव, अर्थात् कर्म की भन्नता होने पर भी स्नेह की एकता ।
७. निकटवर्ती जन-समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा करना ।
८. शारीरिक हित की दृष्टि से आहार-विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलम्बन ।
९. शरीर श्रमी, मन संयमी, हृदय अनुरागी, बुद्धि विवेकवती तथा अहम् को अभिमानशून्य करके अपने को सुन्दर बनाना ।
१०. सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक तथा विवेक से सत्य को अधिक महत्त्व देना ।
११. व्यर्थ-चिन्तन-त्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्ज्वल बनाना ।

## शुद्धि-पत्र

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	४/१६	निबेलता	निर्मलता
२	६/२०	प्रकाश	प्रकाशक
३	१६/७	अवस्था	आवश्यकता
४	२३/१४	रहति	रहित
५	२८/२०	स्वयम् होने	स्वयम् मानव होने
६	५४/२१, ६०/१८	साधक	साधन
७	५७/१८	पूति	पूरी
८	६२/१६	कारण	परिणाम
९	७१/१६	इन्द्रि	(इन्द्रिय)
१०	७३/२	यद्यपि	यदि
११	६४/१७	संयोग से	संयोग में
१२	१०१/४	माना	मान
१३	१०५/१६	चिन्तन के ही	चिन्तन ने ही हमें
१४	१०७/२१, २२	निर्भय, निर्भयता	निर्मल, निर्मलता
१५	११५, ११९, १२९, परं		परम
१६	१२१/१३	प्राकृति	प्राकृतिक
१७	१३१/४	लाभ	लोभ
१८	१३८/११	लता	गलता
१९	१४०/६	से वे प्राणी नहीं जाने पावे	वे प्राणी नहीं जाने पाते

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
२०	१४१/१४. १४१/१५	निर्लोभता	निर्मोहता
२१	१४६/५	इस	रस
२२	१५७/६	का निज	निज
२३	१६०/२०	साधन साधक	साधक साधन
२४	१७१/६	दोनों पर	दोनों
२५	१७४/१	उ से जानें	उसे कैसे जानें
२६	१६४/५	अविश्वास	विश्वास
२७	२०७/१५	अनुकूलताओं	प्रतिकूलताओं
२८	२१२/१५	साधक के निज	साधक निज
२९	२३६/१३	परिवर्तन हो	परिवर्तन न हो
३०	२३६/१६	सेव	सेवा

## मानव सेवा संघ के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन



संत समागम—( भाग १ ) पृष्ठ २६१, मूल्य १।।)  
चतुर्थ संस्करण ।

संत समागम—( भाग २ ) पृष्ठ ३६१, मूल्य २ )  
द्वितीय संस्करण ।

जिनमें पूज्य स्वामीजी द्वारा दिए हुए प्रश्नों और पत्रों के उत्तर तथा अनेक विषय-सम्बन्धी संतवाणियाँ संकलित हैं, जिनसे साधक को अनेक आध्यात्मिक समस्याओं पर सन्मार्ग-दर्शन प्राप्त होता है ।

मानव सेवा संघ—पूज्य स्वामीजी द्वारा संघ के मूलभूत सिद्धान्तों की तात्त्विक व्याख्या ।  
मूल्य १-)



उसकी प्राप्ति नहीं होती, अपितु प्रतीति होती है। साधारण प्राणी इन्द्रियों के ज्ञान पर ही पूरा विश्वास करके जो वास्तव में अल्प ज्ञान है, प्रतीति को प्राप्ति मान लेते हैं। यद्यपि प्रतीति में प्रवृत्ति तो होती है, पर प्राप्ति कुछ नहीं होती।

अब प्रश्न यह होता है कि “ है ” क्या है ? जो उत्पत्ति विनाश से रहित है अथवा उत्पत्ति विनाश से पूर्व है ? जिससे उत्पत्ति और विनाश प्रकाशित है, उसी को “ है ” के अर्थ में लेना चाहिये।

“ है ” का वगण संकेत भाषा से ही संभव है, कारण जिन साधनों से हम “ है ” का वगण कर सकते हैं, वे सब “ है ” से ही प्रकाशित हैं और “ है ” की सत्ता से ही सत्ता पाते हैं। जो साधन जिससे सत्ता पाते हैं उसका वगण कैसे कर सकते हैं, केवल संकेत ही कर सकते हैं।

अब प्रश्न यह होता है कि इच्छाओं की निवृत्ति कैसे हो ? इच्छाओं की निवृत्ति के अनेक साधन हैं; परन्तु उन अनेक साधनों में से आज एक-दो साधन की ही चर्चा करेंगे, और वह यह है कि यदि हमें अपनी इच्छाओं का अन्त करना है, तो सर्व प्रथम अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करना चाहिये। उत्पन्न हुई इच्छाओं में जो ऐसी इच्छाएँ हैं कि जिनका संबन्ध वर्तमान से हो, जिनको पूरा किये बिना किसी प्रकार नहीं रह सकते अथवा जिनकी पूर्ति के साधन प्राप्त हों अथवा जिनसे किसी का अहित न हो, उन इच्छाओं की पूर्ति कर लेनी चाहिये; परन्तु पूरा करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि उनकी पूर्ति का जो सुख है वह हमें अभीष्ट

नहीं है। कारण, यदि हम इच्छा-पूर्ति का सुख लेते रहेंगे, तो पुनः इच्छाएँ उत्पन्न होती रहेंगी और वह चक्र चलता ही रहेगा। जिन इच्छाओं में उपर्युक्त चार बातें न घटती हों, उन इच्छाओं का विचार-पूर्वक त्याग करना होगा। यह नियम है कि आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति करने पर अनावश्यक इच्छाओं के त्याग का बल स्वतः आजाता है।

जब उपर्युक्त चार बातों से संबन्ध रखने वाली इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, और जिनका इन चार बातों से सम्बन्ध नहीं है, उनका जब त्याग कर देते हैं, तब स्वाभाविक निरीक्षता आजाती है, अर्थात् इच्छाएँ निवृत्त होजाती हैं। यह नियम है कि आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति, और अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति होने पर मन अमन अर्थात् निर्विकल्प हो जाता है और बुद्धि सम हो जाती है, और इन्द्रियाँ अविषय हो जाती हैं।

ऐसा होने से जीवन अलौकिक विवेक के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। यह नियम है कि विवेक का प्रकाश स्वतः साधक का पथ-प्रदर्शन करने लगता है, अर्थात् साधक को स्वतः अपने कर्त्तव्य का बोध हो जाता है। कर्त्तव्य उसे नहीं कहते जिसके करने में कर्त्ता असमर्थ हो तथा जिसके करने पर सफलता न हो; अर्थात् कर्त्तव्य उसे कहते हैं, जो किया जा सके तथा जिससे सफलता अवश्य हो। आज जो हम इच्छाओं में आवद्ध होकर उलझनों में उलझे रहते हैं और इन्द्रियाँ विषयों में आसक्त रहती हैं, उसका एक-मात्र कारण यह ही है कि हम आवश्यक इच्छाओं को

पूरा नहीं करते और साथ ही अनावश्यक इच्छाओंका त्याग नहीं करते । यह किसी का अनुभव नहीं है कि सभी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं और यह भी किसी का अनुभव नहीं है कि कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, अर्थात् कुछ इच्छाएँ अवश्य पूरी होती हैं । सभी भाई-बहिनों का यह अनुभव है कि बहुत-सी इच्छाएँ ऐसी होती हैं, जिनकी पूर्ति होती है, और बहुत-सी इच्छाएँ ऐसी होती हैं, जिनकी पूर्ति नहीं होती । जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, वे हमारे जीवन में केवल इसीलिये मौजूद हैं कि हमने अपनी वस्तु-स्थिति का अपने विवेक के प्रकाश में अध्ययन नहीं किया । यह विवेक का काम है कि वह आपको जरूरी और बिना जरूरी इच्छाओं का बोध करावे । जिस समय हम अपनी जरूरी इच्छाओं को जान लेंगे तो वे अवश्य पूरे हो जाँयगी और जब जरूरी इच्छाएँ पूरे हो जाँयगी तो बिना जरूरी इच्छाएँ स्वतः मिट जाँयेगी । आगे-पीछे का जो व्यर्थ चिन्तन होता रहता है, वह मिट जायगा । कारण, यह नियम है कि अनावश्यक इच्छाओं के मिटने से व्यर्थ चिन्तन मिट जाता है । और जब व्यर्थ चिन्तन मिट जाता है, तब सार्थक चिन्तन स्वतः उत्पन्न हो जाता है ।

अतः आज हम से जो तत्त्व-चिन्तन तथा भगवत्-चिन्तन नहीं होता है, उसका कारण व्यर्थ चिन्तन का न मिटना है और कुछ नहीं । यह कठिनाई प्रायः सभी साधकों के सामने है कि चित्त सार्थक चिन्तन में लगता नहीं और जो करना चाहिये उसे कर पाते नहीं । क्या हम सार्थक चिन्तन में असमर्थ हैं ? कदापि नहीं । निरर्थक

चिन्तन ने ही सार्थक चिन्तन को उत्पन्न नहीं होने दिया। अब प्रश्न यह होता है कि निरर्थक चिन्तन क्या है ? जिसके लिये कर्म अपेक्षित हो, जिससे देश-काल की दूरी हो; जो उत्पत्ति विनाश-युक्त हो, जिसमें जड़ता का दोष हो उसका चिन्तन निरर्थक है। यदि हम उसका चिन्तन करेंगे, जिसका चिन्तन नहीं करना चाहिये उससे कोई लाभ न होगा; कारण, उसकी प्राप्ति चिन्तन से संभव नहीं होगी। हाँ, यह हानि अग्रश्य होगी कि जिन वस्तुओं का हम चिन्तन करते हैं, उनमें आसक्ति अवश्य होजायगी, जिससे सार्थक चिन्तन करना असंभव होजायगा। इस हानि से बचने के लिये साधकों को उसका चिन्तन नहीं करना चाहिये जिसके चिन्तन से प्राप्ति नहीं होती, अर्थात् वस्तुओं का। चिन्तन से उसी की प्राप्ति होती है जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता हो। जिससे केवल मानी हुई एकता है उसकी प्राप्ति चिन्तन से नहीं होती। अब प्रश्न यह होता है कि हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकता किमसे है तथा मानी हुई एकता किमसे है ? हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकता उसी से हो सकती है जिसकी स्वाभाविक आवश्यकता है, और मानी हुई एकता उसी से हो सकती है जिसकी अस्वाभाविक इच्छाएँ हैं, अर्थात् अमरत्व से जातीय तथा स्वरूप की एकता हो सकती है; क्योंकि उसकी स्वाभाविक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त शरीरादि वस्तुओं से तो केवल मानी हुई एकता ही सिद्ध हो सकती है, जातीय नहीं। मानी हुई एकता ने ही अस्वाभाविक इच्छाओं को उत्पन्न किया है। इसी कारण उनकी निवृत्ति करने का प्रश्न साधक के सामने उपस्थित है।

अब आप विचार करें, जिनकी वस्तुएँ हैं वे सब उत्पत्ति विनाश युक्त हैं, जितने व्यक्ति हैं वे सब उत्पत्ति विनाश युक्त हैं, जितनी अवस्थाएँ हैं वे सब उत्पत्ति विनाश युक्त हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिससे देश-काल की दूरी है और जो उत्पत्ति विनाश युक्त है, यदि हम उसके चिन्तन का त्याग कर दें, तो यह मानना होगा कि जीवन में किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के चिन्तन की आवश्यकता नहीं है। अब यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि जब जीवन में वस्तु चिन्तन का कोई स्थान ही नहीं है, तो हमें आवश्यक वस्तुएँ कैसे मिलेंगी ? आप गम्भीरता से विचार करें कि वस्तुएँ चिन्तन करने मात्र से प्राप्त नहीं होतीं। वस्तुओं की प्राप्ति का सम्बन्ध तो वर्तमान परिस्थिति के सदुपयोग, अर्थात् कर्म से है, चिन्तन से नहीं। यह नियम है कि कर्म का सम्बन्ध वर्तमान परिस्थित से होता है और चिन्तन का सम्बन्ध होता है अप्राप्त परिस्थिति से। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राप्त योग्यतानुसार आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के लिये प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करें, किसी अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तन न करें। इससे यह सिद्ध हुआ कि वर्तमान में जो बल तथा विवेक आपको प्राप्त है, उस बल द्वारा यदि आप सही कर्म करें, तो आवश्यक वस्तु अवश्य मिलेगी, चिन्तन से आपको वस्तु नहीं मिलेगी, तो अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वस्तुएँ तो चिन्तन-मात्र से मिलेगी नहीं, तो फिर चिन्तन से क्या मिलेगा ? चिन्तन से वह मिलेगा जो उत्पत्ति-विनाश से अतीत है, जिससे देश-काल की दूरी नहीं है और जो पर-प्रकाश नहीं है, अर्थात् दिव्य तथा चिन्मय है।

उसके मिल जाने पर किसी प्रकार का अभाव शेष नहीं रहेगा । हम अभाव का अनुभव कब करते हैं ? जब हम अपने को वस्तुओं, अवस्थाओं एवम परिस्थितियों में आवद्ध कर लेते हैं, जो उत्पत्ति विनाशयुक्त है । अभाव का अभाव करने में मानव सर्वदा स्वाधीन है । कारण जो सभी परिस्थितियों से अतीत जीवन है उससे अभिन्नता परिस्थितियों से असंग होने पर स्वतः हो जाती है और फिर किसी प्रकार का अभाव शेष नहीं रहता । परिस्थितियों से असंग होने के लिये निर्मोहता-पूर्वक प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना अनिवार्य होगा । सार्थक चिन्तन से निर्मोहता स्वतः प्राप्त होगी । अतः पूर्णता प्राप्त करने में मानव पराधीन नहीं है । किन्तु, हम से भूल यह ही होती है कि जिन वस्तुओं का चिन्तन नहीं करना चाहिये, उनके चिन्तन का त्याग नहीं करते और आदरपूर्वक प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं करते । आज हम सत्य को असत्य के द्वारा खरीदना चाहते हैं । सत्य की प्राप्ति असत्य के द्वारा नहीं होती, अपितु असत्य के त्याग से होती है । असत्य के त्याग का बल सत्य की तीव्र लालसा जागृत होने से अपने आप आ जाना है अथवा यों कहो कि सत्य का प्रेम असत्य को खा लेता है । यह नियम है कि सत्य असत्य को मिटाने में समर्थ नहीं है । कारण, सत्य तो असत्य को सत्ता देकर प्रकाशित करता है, किन्तु सत्य की लालसा असत्य के मिटाने में तथा सत्य से अभिन्न करने में समर्थ है । पर, इस रहस्य को कोई विरले ही जानते हैं । सत्य की लालसा ही वास्तव में सत्य का चिन्तन है जो असत्य को असत्य जान लेने पर स्वतः होता है । इससे यह सिद्ध

दृष्टा कि चिन्तन किया नहीं जाता; स्वतः होता है। जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं और उनका परिणाम भोग होता है। अब प्रश्न उपस्थित यह होता है कि परिस्थिति का सदुपयोग क्या है ? प्राप्त वस्तुओं तथा योग्यता का सदुपयोग ही परिस्थिति का सदुपयोग है। अब हम निज विवेक से देखें कि हमारे मन में शुद्ध संकल्प उत्पन्न होते हैं अथवा अशुद्ध। यदि शुद्ध संकल्प उत्पन्न होते हैं तो मिले हुए मन का सदुपयोग हो गया, यदि अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होते हैं, तो मिले हुये मन का दुरुपयोग हो गया। यदि हमारी बुद्धि हमारे कर्त्तव्य तथा दूसरों के अधिकार को जनाती है, तथा प्रत्येक वस्तु में सतत परिवर्तन का दर्शन कराती है तो समझना चाहिये कि बुद्धि का सदुपयोग हो गया और यदि केवल दूसरे के कर्त्तव्य, निर्णय करने और अपने अधिकार में ही लगी है तो समझना चाहिये कि मिली हुई बुद्धि का दुरुपयोग हो गया। यदि प्राप्त वाणी सत, हितकारी और मधुर तथा प्रिय वचन बोलती है एवम् आवश्यकता से अधिक नहीं बोलती है, तो समझना चाहिये वाणी का सदुपयोग हो गया और यदि इसके विपरीत बोलती है, तो वाणी का दुरुपयोग हो गया। यदि शरीर आवश्यक कार्य करने में आलस्य नहीं करता और अनावश्यक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, तो समझना चाहिये शरीर का सदुपयोग हो गया और यदि इसके विपरीत शरीर आलसी होकर आवश्यक कार्य जमा रखता है, तो शरीर का दुरुपयोग हो गया। यदि प्राप्त वस्तुएँ व्यक्तियों की रक्षा में व्यय होती है, तो समझना चाहिये उनका सदुपयोग हो गया और इसके विपरीत केवल अर्थ, संग्रह और

उपभोग में ही व्यय होती है, तो समझना चाहिये दुरुपयोग हो गया। यह नियम है कि जिन वस्तुओं का हम दुरुपयोग करते हैं, उनकी दासता से मुक्त नहीं हो पाते; अर्थात् उनसे असंग नहीं हो पाते। वस्तुओं से असंगता विना प्राप्त किये कोई भी वस्तुओं से अतीत, दिव्य, चिन्मय और अनन्त जीवन से अभिन्न नहीं हो सकता, यह निर्विवाद सत्य है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम परिस्थिति का सदुपयोग करने में क्यों असमर्थ हैं? इसका एकमात्र कारण है अलौकिक विवेक अर्थात् निजज्ञान का अनादर। अब यदि कोई कहे कि निजज्ञान क्या है? तो, कहना होगा कि यदि ज्ञान प्राप्त न होता, तो हम संयोग-वियोग का अनुभव ही नहीं कर सकते थे। निजज्ञान वही है जिससे आप अपने को तथा पर को जानते हैं अथवा यों कहा कि निजज्ञान वह है जिससे निजज्ञान को और पर ज्ञान को जानते हैं। परज्ञान का अर्थ है बुद्धि का ज्ञान और इन्द्रियों का ज्ञान। जिस प्रकार बुद्धि के ज्ञान से इन्द्रियों के ज्ञान को जानते हैं, उसी प्रकार निजज्ञान से बुद्धि के ज्ञान को जानते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान को ज्ञान से ही जानते हैं। अब, यदि कोई कहे कि अज्ञान क्या है? तो, कहना होगा कि अल्प ज्ञान का दूसरा नाम अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। जब प्राणी अल्प ज्ञान को ही पूरा ज्ञान मान लेता है, तब वह करने लगता है जो नहीं करना चाहिये और वह मानने लगता है जो नहीं मानना चाहिये। वास्तविक ज्ञान वास्तव में अलौकिक है और वह सभी का है अथवा यों कहो



अपना है । उस ज्ञान से यदि हम सभी संयोगों में वियोग का अनुभव कर लें, तो हमें नित्ययोग प्राप्त हो जायगा, जो अमर जीवन है । मृत्यु उसी की होती है जिसका वियोग सम्भव है और वियोग उसी का होता है जिसने संयोग स्वीकार किया है । संयोग उसी से स्वीकार करते हैं, जो वास्तव में जीवन नहीं है अथवा यों कहो, जिससे नित्य योग नहीं है । अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि नित्ययोग किससे नहीं है ? तो, यह कहना होगा कि माने हुये मैं तथा माने हुये मेरे से नित्ययोग नहीं है । यदि माने हुये मैं से नित्ययोग होता, तो आज जो अपने को अमुक पद, अमुक मान्यता से प्रकाशित करता है, वही पद बदल जाने पर अथवा मान्यता बदल जाने पर पूर्व मान्यता से प्रकाशित नहीं करता । हाँ, यह अवश्य है कि मान्यता परिस्थिति के अनुसार जिस कर्त्तव्य के अर्थ को प्रकाशित करती है, वह अर्थ कर्त्तव्य पालन की दृष्टि से भले ही मान्य हो, पर वह मान्यता नित्य है, यह मान्य नहीं हो सकता । यह नियम है कि कर्त्तव्यपरायण होने पर कर्त्ता अपने लक्ष्य में विलीन हो जाता है, उसका कोई अलग अस्तित्व शेष नहीं रहता । इस दृष्टि से भी यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि माना हुआ "मैं" नित्य नहीं है, किन्तु जिससे वह माना हुआ "मैं" प्रकाशित होता है, वह अवश्य नित्य है । हाँ, अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि माना हुआ "मैं" उस नित्य की प्रीति तथा जिज्ञासा से अतिरिक्त कुछ नहीं है । प्रीति जिसकी होती है, उस प्रीति में सत्ता उसी की होती है जिसकी वह प्रीति है, चाहे उसका नामकरण भले ही अलग हो जाय और जिज्ञासा जिसकी होती है निःसन्देहता या जाने

पर उसी से अभिन्न हो जाती है, जिसकी जिज्ञासा थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि माने हुये "मैं" से नित्य योग सिद्ध नहीं हो सकता केवल संयोग की ही स्वीकृति हो सकती है। यह नियम है कि स्वीकृति मिटाने के लिये कोई अन्य अभ्यास अपेक्षित नहीं है, केवल अस्वीकृति से ही मिट जाती है। अतः माने हुये "मैं" के संयोग में वियोग का अनुभव सुगमता-पूर्वक हो सकता है। अथवा जिससे जातीय एकता है, उसकी प्रीति होकर माना हुआ मैं गलत जाता है, अब रही माने हुये मेरे की बात। यह सभी का अनुभव है कि जिस वस्तु को हम अपना मान लेते हैं, वह दूर हो या समीप उस से संयोग सिद्ध हो जाता है। हम जिस मकान में रहते हैं वह यदि किराये का हो तो उससे कभी ममता नहीं होती और न उसका संयोग भासता है, अर्थात्, उसमें रहते हुये भी वह अपना नहीं भासता और उससे अलग होने में भी कोई कठिनाई नहीं होती; परन्तु जो मकान हम अपने नाम से बनवा लेते हैं उस से देश की दूरी होने पर भी संयोग सिद्ध हो जाता है। इतना ही नहीं उसमें कभी रहने को भी न मिले तब भी उसका संयोग बना रहता है। यदि अपनी वर्तमान दशा का अध्ययन करें तो यही भलीभाँति विदित हो जाता है कि जिन वस्तुओं को हमने अपना मान लिया था यद्यपि आज वे नहीं हैं, तब भी उनका संयोग है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध होजाता है कि संयोग किसी वस्तु की समीपता तथा दूरी पर निर्भर नहीं है, और न किसी वस्तु के रहने न रहने पर है। संयोग तो केवल अपना मान लेने पर है। अपना न मानने का अर्थ कोई यह न

समझ बैठे कि जो चीज अपनी नहीं है उसका विनाश कर देना चाहिये, उसका दुरुपयोग करना चाहिये और अपनी न मानने का अर्थ यह भी नहीं है कि जो वस्तुएँ प्राप्त हैं, उनका सदुपयोग नहीं करना चाहिये, उन्हें सुरक्षित नहीं रखना चाहिये ।

अपना न मानने का अर्थ है कि प्राप्त वस्तुओं में मोह पूर्वक आवृद्ध नहीं होना चाहिये तथा उनके न रहने पर दुख नहीं होना चाहिये । न उनका चिन्तन होना चाहिये । यदि निज ज्ञान के प्रकाश में संयोग में वियोग का अनुभव कर लिया जाय, तो साधक बड़ी सुगमतापूर्वक वस्तुओं के वियोग के दुख से, व्यथे चिन्तन से, संयोग के सुख की दासता से तथा मिथ्या अभिमान से मुक्त हो जाता है । यह नियम है कि निराभिमानता आते ही सब ही दोष स्वतः मिट जाते हैं और जिससे हमारी स्वरूप की तथा जातीय एकता है, उससे अभिन्नता हो जाती है । बस, यही नित्य योग का अर्थ है ।

अब जिसे आप “यह” कहते हैं, उसे “मैं” नहीं कह सकते हैं । और जिसे “मैं” कह सकते हैं, उसे ज्ञान नहीं कह सकते हैं । क्योंकि “मैं” सीमित है और ज्ञान अनन्त है और “मैं” परिवर्तनशील है और ज्ञान नित्य है । “मैं” करण का भले ही ज्ञाता हो पर मैं ज्ञान का ज्ञाता नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो स्वयम् अपना ज्ञाता है । अब “मैं” और “ज्ञान” का भेद स्पष्ट होगया । ज्ञान की दृष्टि से “मैं” भी “यह” के अर्थ में आजाता है, अर्थात् अहम्ता और ममता दोनों को ही यह के अर्थ में समझना चाहिये । यह नियम है कि ममता

मिटने पर अहम्ता, और अहम्ता मिटने पर ममता स्वतः मिट जाती है, किन्तु इन दोनों का प्रकाशक जो नित्य-ज्ञान है उसका कभी अभाव नहीं होता । अब यह स्पष्ट होगया कि ज्ञान “यह” और “मैं” से परे है ।

आप विचार करके देखें, शरीर को आप “यह” कहते हैं । यह जिसके द्वारा कहते हैं आप में अपना एक ज्ञान है । उस ज्ञान की आकृति का भले ही आपको बोध न हो, पर उसकी सत्ता का बोध है, उसकी महिमा का बोध भले ही न हो, पर इस बात का बोध तो है ही कि आप किसी ज्ञान से ही कहते हैं कि शरीर ‘यह’ है, इन्द्रियाँ अर्थात् शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी यह के अन्तर्गत आते हैं । ‘मैं’ नहीं हो सकते, “यह” है । मन यह है, बुद्धि यह है । इन सब के व्यापार को भी “मैं” का व्यापार नहीं कह सकते । उस दृष्टि से यःवत् दृश्य “यह” के अन्तर्गत ही समा जाता है और यह का दृष्टा दृश्य से सम्बन्धित होकर “मैं” कहा जाता है । दृष्टा और दृश्य के सम्बन्ध जोड़ने में केवल राग ही अपेक्षित है । राग का जन्म अविवेक सिद्ध है । विवेक जब अविवेक को खा लेता है, तब राग सदा के लिये मिट जाता है । राग के मिटते ही दृष्टा-पद शेष नहीं रहता और फिर जो नित्य ज्ञान है, वह ज्यों का त्यों अपनी महिमा में अपने आपको पाता है अर्थात् उस अनन्त ज्ञान से भिन्न कुछ नहीं रहता । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि “यह” और “मैं” दोनों ही उस अनन्त ज्ञान से प्रकाशित थे । इन दोनों की अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं थी । इस दृष्टि से यह अनन्त संसार उस अनन्त

समझ बैठे कि जो चीज अपनी नहीं है उसका विनाश कर देना चाहिये, उसका दुरुपयोग करना चाहिये और अपनी न मानने का अर्थ यह भी नहीं है कि जो वस्तुएँ प्राप्त हैं, उनका सदुपयोग नहीं करना चाहिये, उन्हें सुरक्षित नहीं रखना चाहिये ।

अपना न मानने का अर्थ है कि प्राप्त वस्तुओं में मोह पूर्वक आवृद्ध नहीं होना चाहिये तथा उनके न रहने पर दुख नहीं होना चाहिये । न उनका चिन्तन होना चाहिये । यदि निज ज्ञान के प्रकाश में संयोग में वियोग का अनुभव कर लिया जाय, तो साधक बड़ी सुगमतापूर्वक वस्तुओं के वियोग के दुख से, व्यर्थ चिन्तन से, संयोग के सुख की दासता से तथा मिथ्या अभिमान से मुक्त हो जाता है । यह नियम है कि निराभिमानता आते ही सब ही दोष स्वतः मिट जाते हैं और जिससे हमारी स्वरूप की तथा जातीय एकता है, उससे अभिन्नता हो जाती है । बस, यही नित्य योग का अर्थ है ।

अब जिसे आप “यह” कहते हैं, उसे “मैं” नहीं कह सकते हैं । और जिसे “मैं” कह सकते हैं, उसे ज्ञान नहीं कह सकते हैं । क्योंकि “मैं” सीमित है और ज्ञान अनन्त है और “मैं” परिवर्तनशील है और ज्ञान नित्य है । “मैं” करण का भले ही ज्ञाता हो पर मैं ज्ञान का ज्ञाता नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो स्वयम् अपना ज्ञाता है । अब “मैं” और “ज्ञान” का भेद स्पष्ट होगया । ज्ञान की दृष्टि से “मैं” भी “यह” के अर्थ में आजाता है, अर्थात् अहम्ता और ममता दोनों को ही यह के अर्थ में समझना चाहिये । यह नियम है कि ममता

मिटने पर अहम्ता, और अहम्ता मिटने पर ममता स्वतः मिट जाती है, किन्तु इन दोनों का प्रकाशक जो नित्य-ज्ञान है उसका कभी अभाव नहीं होता । अब यह स्पष्ट होगया कि ज्ञान “यह” और “मैं” से परे है ।

आप विचार करके देखें, शरीर को आप “यह” कहते हैं । यह जिसके द्वारा कहते हैं आप में अपना एक ज्ञान है । उस ज्ञान की आकृति का भले ही आपको बोध न हो, पर उसकी सत्ता का बोध है. उसकी महिमा का बोध भले ही न हो, पर इस बात का बोध तो है ही कि आप किसी ज्ञान से ही कहते हैं कि शरीर ‘यह’ है, इन्द्रियाँ अर्थात् शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी यह के अन्तर्गत आते हैं । “मैं” नहीं हो सकते, “यह” है । मन यह है. बुद्धि यह है । इन सब के व्यापार को भी “मैं” का व्यापार नहीं कह सकते । उस दृष्टि से यवत् दृश्य “यह” के अन्तर्गत ही समा जाता है और यह का दृष्टा दृश्य से सम्बन्धित होकर “मैं” कहा जाता है । दृष्टा और दृश्य के सम्बन्ध जोड़ने में केवल राग ही अपेक्षित है । राग का जन्म अविवेक सिद्ध है । विवेक जब अविवेक को खा लेता है, तब राग मदा के लिये मिट जाता है । राग के मिटते ही दृष्टा-पद शेष नहीं रहता और फिर जो नित्य ज्ञान है, वह ज्यों का त्यों अपनी महिमा में अपने आपको पाता है अर्थात् उस अनन्त ज्ञान से भिन्न कुछ नहीं रहता । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि “यह” और “मैं” दोनों ही उस अनन्त ज्ञान से प्रकाशित थे । इन दोनों की अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं थी । इस दृष्टि से यह अनन्त संसार उन अनन्त

की ही एक अवस्था-मात्र था । यह नियम है कि जिस की जो अवस्था होती है, वह उसमें विलीन हो जाती है ।

दृश्य को देखकर कहते हैं कि यह संसार है । यह बात हम किसी कारण से जानते हैं अथवा ज्ञान से ? कारण से दृश्य को और कारण को ज्ञान से जानते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि कारण में जो ज्ञान है, वह भी उस अनन्त ज्ञान की भलक है । उस अल्प ज्ञान से हमने अपने को इतना घुला-मिला लिया है कि उस अनन्त ज्ञान की सत्ता को भूल जाते हैं, और अपने को ही मान लेते हैं । यदि 'हम' ज्ञान होता तो जिज्ञासा किसे होती अथवा यों कहे कि जिज्ञासा कौन होता ? यद्यपि जिज्ञासा का अस्तित्व जिज्ञासा से भिन्न नहीं है और जिज्ञासा उस ज्ञान की लालसा से भिन्न नहीं है । इससे अब यह सिद्ध हुआ कि 'हम' ज्ञान की लालसा है और कुछ नहीं । लालसा पूरी होने पर उससे अभेद हो जाती है, जिसकी वह लालसा थी । इस दृष्टि से उम अनन्त ज्ञान से स्वरूप की एकता है । जिसे "मैं पन" से इतना मोह हो गया हो कि उस अनन्त ज्ञान को "मैं" में ही विलीन करके कथन करना हो, तो भी कोई आपत्ति नहीं । पर विशेष सुन्दरता तो इसी में प्रतीत होती है कि "मैं" को उस अनन्त ज्ञान में विलीन कर दिया जाय । इसी कारण किसी-किसी विचारशील ने "मैं" और "तू" को मिटाकर "है" के नाम से कथन किया है और किसी ने "मैं" को मिटाकर 'तू' के नाम से कथन किया है और किसी ने 'मैं' को 'तू' की प्रीति बनाकर कथन किया है और किसी ने मान होकर सकत किया है । सच तो यह है कि उस जैसी कोई

उपमा हो ही नहीं सकती और जिसकी उपमा नहीं हो सकती उसका वर्णन नहीं हो सकता, किन्तु उससे एकता हो सकती है, अथवा यों कहो उसकी प्राप्ति हो सकती है। उसकी प्राप्ति ही वास्तव में उसका वर्णन है, जो मानवता से हो सकती है।

स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों के व्यापार का राग मिट जाने पर देहाभिमान का कोई अस्तित्व ही शेष नहीं रहता। देह की आसक्ति से ही देह के अभिमानी का भास होता है। देह की आसक्ति मिटते ही देह का अभिमानी उम अनन्त चिन्मय की प्रीति हो जाता है। उस प्रीति से हम अपने को भिन्न नहीं कर सकते और वह नित नव प्रीति ही मानव की मानवता है। प्रीति उसे नहीं कहते जो किसी वस्तु, अवस्थादि में आवद्ध हो जाय। और प्रीति उसे भी नहीं कहते जिसके बदले में कुछ लिया जाय; अर्थात् प्रीति अचाह बना देती है; अथवा यों कहो कि सब प्रकार के बन्धनों को खा लेती है।

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या इन्द्रिय तथा बुद्धि का ज्ञान ज्ञान नहीं है? अथवा "मैं" ज्ञान स्वरूप नहीं हूँ? तो, कहना होगा कि उस अनन्त ज्ञान में तो 'मैं' "तू" लगता ही नहीं, वह तो अनन्त नित्य चिन्मय तत्त्व ही है। उस तत्त्व का प्रकाश बुद्धि में आ जाता है, तो वह बुद्धिजन्य ज्ञान बन जाता है, उसका प्रकाश वाद में इन्द्रियों में आ जाता है, तो इन्द्रिय जन्य ज्ञान बन जाता है, इन्द्रियों के ज्ञान में आपको मन्देह हो सकता है, बुद्धि के ज्ञान में आपको मन्देह हो सकता है, क्योंकि वह अल्प है और मोहित है और परिवर्तनशील है; लेकिन जिस ज्ञान में बुद्धि का ज्ञान और इन्द्रियों का



की ही एक अवस्था-मात्र था । यह नियम है कि जिस की जो अवस्था होती है, वह उसमें विलीन हो जाती है ।

दृश्य को देखकर कहते हैं कि यह संसार है । यह बात हम किसी करण से जानते हैं अथवा ज्ञान से ? करण से दृश्य को और करण को ज्ञान से जानते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि करण में जो ज्ञान है, वह भी उस अनन्त ज्ञान की भलक है । उस अल्प ज्ञान से हमने अपने को इतना घुला-मिला लिया है कि उस अनन्त ज्ञान की सत्ता को भूल जाते हैं, और अपने को ही मान लेते हैं । यदि 'हम' ज्ञान होता तो जिज्ञासा किसे होती अथवा यों कहो कि जिज्ञासु कौन होता ? यद्यपि जिज्ञासु का अस्तित्व जिज्ञासा से भिन्न नहीं है और जिज्ञासा उस ज्ञान की लालसा से भिन्न नहीं है । इससे अब यह सिद्ध हुआ कि 'हम' ज्ञान की लालसा है और कुछ नहीं । लालसा पूरी होने पर उससे अभेद हो जाती है, जिसकी वह लालसा थी । इस दृष्टि से उम्र अनन्त ज्ञान से स्वरूप की एकता है । जिसे "मैं पन" से इतना मोह हो गया हो कि उस अनन्त ज्ञान को "मैं" में ही विलीन करके कथन करना हो, तो भी कोई आपत्ति नहीं । पर विशेष सुन्दरता तो इसी में प्रतीत होती है कि "मैं" को उस अनन्त ज्ञान में विलीन कर दिया जाय । इसी कारण किसी-किसी विचारशील ने "मैं" और "तू" को मिटाकर "है" के नाम से कथन किया है और किसी ने "मैं" को मिटाकर "तू" के नाम से कथन किया है और किसी ने "मैं" को "तू" की प्रीति बनाकर कथन किया है और किसी ने मौन होकर सकेत किया है । सच तो यह है कि उस जैसी कोई

उपमा ही हो नहीं सकता और जिसकी उपमा नहीं हो सकती उसका वर्णन नहीं हो सकता, किन्तु उससे एकता हो सकती है, अथवा यों कहो उसकी प्राप्ति हो सकती है। उसकी प्राप्ति ही वास्तव में उसका वर्णन है, जो मानवता से हो सकती है।

स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों के व्यापार का राग मिट जाने पर देहाभिमान का कोई अस्तित्व ही शेष नहीं रहता। देह की आसक्ति से ही देह के अभिमानी का भास होता है। देह की आसक्ति मिटते ही देह का अभिमानी उस अनन्त चिन्मय की प्रीति हो जाता है। उस प्रीति से हम अपने को भिन्न नहीं कर सकते और वह नित नव प्रीति ही मानव की मानवता है। प्रीति उसे नहीं कहते जो किसी वस्तु, अवस्थादि में आवद्ध हो जाय। और प्रीति उसे भी नहीं कहते जिसके बदले में कुछ लिया जाय; अर्थात् प्रीति अचाह बना देती है; अथवा यों कहो कि सब प्रकार के बन्धनों को खा लेती है।

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या इन्द्रिय तथा बुद्धि का ज्ञान ज्ञान नहीं है ? अथवा “मैं” ज्ञान स्वरूप नहीं हूँ ? तो, कहना होगा कि उस अनन्त ज्ञान में तो “मैं” “तू” लगता ही नहीं, वह तो अनन्त नित्य चिन्मय तत्त्व ही है। उस तत्त्व का प्रकाश बुद्धि में आ जाता है, तो वह बुद्धिजन्य ज्ञान बन जाता है, उसका प्रकाश वाद में इन्द्रियों में आ जाता है, तो इन्द्रिय जन्य ज्ञान बन जाता है, इन्द्रियों के ज्ञान में आपको सन्देह हो सकता है, बुद्धि के ज्ञान में आपको सन्देह हो सकता है, क्योंकि वह अल्प है और मोमित है और परिवर्तनशील है; लेकिन जिस ज्ञान से बुद्धि का ज्ञान और इन्द्रियों का



जागृति संदेह की वेदना से होती है और संदेह की उत्पत्ति अधूरे ज्ञान से होता है । जो कुछ नहीं जानता उसे भी संदेह नहीं होता और जो सब कुछ जानता है उसे भी संदेह नहीं होता । प्रत्येक भाई-बहिन कुछ न कुछ जानते हैं जो कुछ न कुछ जानते हैं उन्हें सन्देह की वेदना होना स्वाभाविक है । इससे यह स्पष्ट होजाता है कि मानव-जीवन तो तत्त्व जिज्ञासा की जागृति का प्रतीक ही है, किन्तु प्रमाद-वश प्राणी सुख लोलुपता के कारण तत्त्व-जिज्ञासा को दबाता रहता है । अभागो सुख ने ही हमें अपने अभीष्ट तत्त्व ज्ञान, भगवत्-प्रेम, सद्गति से विमुक्त किया है । इसी कारण मानव-जीवन में सुख के सदुपयोग का स्थान है । उसके भोग का नहीं । सुख का सदुपयोग, सुख की आसक्ति को खा लेता है और तत्त्व-जिज्ञासा को जागृत कर देता है इससे यह स्पष्ट होजाता है कि हमारा यह कहना कि हम साधारण प्राणियों को तत्त्व ज्ञान कैसे होगा, प्रभु प्राप्ति कैसे होगी, चिन्मय आनन्द कैसे मिलेगा, सर्वथा निर्मूल है । कारण, जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है उस से कभी निराश नहीं होना चाहिये । निराश तो उससे होना चाहिये जिसकी मानी हुई एकता है । सच तो यह है कि विपयों से मानी हुई एकता और आनन्द से मानी हुई दूरी है । यह नियम है कि मानी हुई एकता मिटने से मानी हुई दूरी स्वतः मिट जाती है । अतः मानी हुई एकता मिटाने में ही मानव का पुरुषार्थ निहित है जो अस्वीकृति-मात्र से मिट जाती है ।

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मानी हुई स्वीकृति हम



७

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

कल सेवा में निवेदन किया था कि संयोग में यदि वियोग का दर्शन कर लिया जाय, तो नित्य-योग प्राप्त होता है, जो मानव-मात्र की स्वाभाविक आवश्यकता है। आज सेवा में यह निवेदन करना है कि संयोग क्या है ? संयोग है—सुने हुए, माने हुए सम्बन्धों का सद्भाव। जो हमने सुनकर मान लिया और उस पर सद्भाव कर लिया उसी का नाम संयोग है।

अब निवेदन यह करना है कि माना हुआ सम्बन्ध दो प्रकार का होता है, एक भेदभाव का, दूसरा अभेद-भाव का। अभेद-भाव का सम्बन्ध उसे कहते हैं जिससे अहं की पुष्टि हो, और भेद-भाव का सम्बन्ध उसे कहते हैं जिससे मम की पुष्टि हो। अहं की पुष्टि सम्बन्ध में सत्यता प्रदान करती है और मम की पुष्टि सम्बन्धित वस्तुओं और व्यक्तियों में प्रियता प्रदान करती है, अर्थात् जिससे हम अपने को मान लेते हैं, वह हमें सत्य भासता है और जिसे हम अपना मान लेते हैं, वह प्रिय मालूम होता है। तो, सीमित अहं भाव की सत्यता और सीमित प्रियता का जन्म हमारे माने हुए अभेद-भाव और भेद भाव के सम्बन्ध से हुआ। अब आप विचार करके देखें, जितने भेद

उत्पन्न होते हैं, वे सब सीमित अहं भाव से और जितने संघर्ष उत्पन्न होते हैं वे सब सीमित प्यार से। यदि हमारे जीवन में से सीमित अहं भाव निकल जाय, तो सभी वासनाएँ मिट जाती हैं, और यदि प्यार असीम हो जाय, तो सभी संघर्ष मिट जाते हैं। निर्वासना, निर्वैरता, निर्भयता, समता, मुदिता आदि सभी गुणों को आच्छादित किया है, हमारे माने हुए अहं भाव की आसक्ति ने। यह अहं रूपी अणु यदि किसी प्रकार टूट जाय, तो हमें अनन्त शक्ति प्राप्त हो जाय, जिसकी समानता संसार की कोई शक्ति नहीं कर सकती। अहं रूपी अणु को तोड़ने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि भेद और अभेद के जो दो सम्बन्ध हैं, उनका विच्छेद कर दिया जाय। इनका विच्छेद करने का उपाय क्या है ? निज ज्ञान के प्रकाश में सुने हुए तथा माने हुए की खोज करना। अपने को जो मान लिया है, उसकी खोज करें कि जो 'मैं' अपने को मानता हूँ, वह वास्तव में क्या है ? इस प्रकार की खोज करने से आपको यह पता चलेगा कि जिसको आप देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, उसको "मैं" नहीं कह सकते। तो, फिर मैं किसको कहेंगे ? आपको पता चलेगा कि "मैं" किसी स्वीकृति को कहेंगे। आपका स्वीकृति क्या होगी ? वह किसी कर्त्तव्य को जन्म देने वाली मान्यता अथवा पद्धति होगी। जैसे कोई अपने को मनुष्य कहता है, तो उसे विचार करना होगा कि मनुष्य मानने से किसी कर्त्तव्य की प्रेरणा मिलती है, उस कर्त्तव्य के समूह का नाम ही मनुष्य हुआ, किसी आकृति का नहीं। किन्तु, हम उस कर्त्तव्य की ओर तो ध्यान नहीं देते और आकृति का अभिमान

लेकर परस्पर में संघर्ष करने लगते हैं । इतना ही नहीं, एक ही लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपनी-अपनी रुचि तथा योग्यतानुसार विभिन्न साधन-पद्धतियों का निर्माण जो कर्त्तव्यपरायणता के लिए हुआ था उस कर्त्तव्य रूप सत्यता को त्याग कर पद्धतियों के बाह्य स्वरूप में आवद्ध होकर जो नहीं करना चाहिये वह करने लगते हैं । यह नियम है कि जो नहीं करना चाहिये उसे करने से उससे वंचित हो जाते हैं, कि जो करना चाहिये । उसका परिणाम यह होता है कि हमें वह नहीं मिलता जो मिलना चाहिये । उसके न मिलने से हम अनेक प्रकार के अभावों में आवद्ध हो जाते हैं । जो हमें अभीष्ट नहीं । उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्त्तव्यपरायणता ही माने हुए अहं में सत्य है, और उसके अतिरिक्त माने हुए अहं का मद्भाव मिथ्या है ।

यह बड़े रहस्य की बात है कि कर्त्तव्य-पालन पूरा करने पर कर्त्ता का कोई अस्तित्व ही शेष नहीं रहता । आप लोग यहाँ आश्चर्य करोगे कि कर्त्तव्य-पालन सं तो कर्त्ता का अस्तित्व सुदृढ़ रहना चाहिये, परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है । कर्त्तव्य पूरा होने पर कर्त्ता की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो जाती है और उसकी पूर्ति हो जाने पर कर्त्ता का अस्तित्व अपने लक्ष्य से ही अभिन्न हो जाता है, और फिर किसी प्रकार का भय तथा अभाव शेष नहीं रहता । जब तक हमें कुछ भी पाने का लालच है तथा मरने का भय है एवं करने की आसक्ति है, तब तक समझना चाहिये कि अभी हमने वह नहीं किया जो करना चाहिये, अर्थात् कर्त्तव्य-परायण नहीं हुए । जो करना चाहिए उसे पूरा करने पर कर्त्ता की सत्ता नहीं रहती । यह एक बड़ा



भारी सत्य है। इस सत्य का अनुभव हमें कब होगा ? जब हम अपने को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए निज-विवेक के प्रकाश में जो मान लेते हैं, उस मान्यता के अनुसार जो विधान है, उस विधान के अनुसार जब हमारा जीवन हो जायेगा, तभी हमें उपयुक्त सत्य का ज्ञान हो सकता है। जो माना हुआ "मैं" था वह तो विधान बनकर अपने उस लक्ष्य में विलीन हो गया, जिसकी उसे आवश्यकता थी। इस बात को ही दूसरे शब्दों में यों कहें कि 'साधक साधना बनकर साध्य से अभिन्न हो गया।' यह नियम है कि कर्त्ता कर्त्तव्य बनकर अपने लक्ष्य से अभिन्न हो जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आपने यदि अपने को किसी कर्त्तव्य-पालन के लिए किसी स्वीकृति में आवद्ध किया है, तो उसके अनुसार कर्त्तव्यपरायण होकर आप अपने को उस स्वीकृति से मुक्त कर सकते हैं। अब आप यह कहें कि जो हमारी स्वीकृति है, उसके अनुसार जो हमें करना चाहिये उसको पूरा करने के लिए हमें साधन ही प्राप्त नहीं हैं, तो इसके लिए हमें चिन्तित नहीं होना चाहिये—जब स्वीकृति के अनुसार साधक में उसको पूरा करने की सामर्थ्य न हो, तब उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्राप्त योग्यतानुसार स्वीकृति को परिवर्तित कर देना चाहिये, जिसके अनुसार वह साधना कर सके। पर, आज तो हम जीवन भर एक ही स्वीकृति में आवद्ध रहते हैं, और उसको सत्य मान लेते हैं। न उसको जानना ही चाहते हैं और न उसके अनुसार कर्त्तव्यपरायण ही होने हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। यदि किसी को तत्त्व-ज्ञान प्राप्त

करना है, तो जब तक वह अपने को जिज्ञासु न मान लेगा, तब तक न तो तत्त्वज्ञान की साधना में ही उसकी प्रगति होगी और न तत्त्वज्ञान ही प्राप्त होगा। अथवा यदि कोई सरल विश्वासपूर्वक अपने को भगवान् का नहीं माना लेगा, तो उसके हृदय में भगवत-प्रेम की उत्पत्ति ही न होगी और न भगवत-प्राप्ति होगी अथवा जो अपने को सद्भाव-पूर्वक सेवक न मान लेगा उससे न तो वास्तविक सेवा ही होगी और न उसके स्वार्थ-भाव का अन्त ही होगा। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम जिस लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं उसके अनुसार न तो हमारी स्वीकृति होती है और न साधना। यह नियम है कि लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति होने पर साधक में स्वतः साधन की उत्पत्ति होने लगती है। जैसे जिसने अपने को जिज्ञासु मान लिया है उसमें सन्देह की वेदना तथा तत्त्व-जिज्ञासा स्वतः जागृत होगी। जिस काल में तत्त्व-जिज्ञासा भोग-इच्छाओं को खा लेगी, उसी काल में जिज्ञासा की पूर्ति स्वतः हो जायगी। यह भी सभी का अनुभव है कि जिसे हम अपना मान लेते हैं उससे प्रीति स्वतः हो जाती है और जिससे हम सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं, उसका राग अपने आप मिट जाता है। राग के मिटते ही अनुराग की उत्पत्ति होती है, जो सभी दोषों को मिटाकर भक्त को भगवान् से अभिन्न कर देता है। इसी प्रकार जो किसी का घुरा नहीं चाहता है उसके जीवन में दुःखियों को देखकर करुणा स्वतः उत्पन्न होती है और वह स्वार्थ-भाव को खाकर उसे सच्चा सेवक बना देती है, अर्थात् उसका जीवन विश्व-प्रेम से भर जाता है।

परन्तु, जब हम प्रमादवश अपने को जिज्ञासु, भक्त तथा सेवक नहीं मानते हैं, तब देह में अपने को आवद्ध कर लेते हैं, अर्थात् अपने को शरीर मान लेते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी स्वाभाविक प्रीति तथा जिज्ञासा एवं सेवा की भावना तो दब जाती है और अनेक भोग-इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं और हम शरीर के स्वभावानुसार इन्द्रियजन्य विषयों में आसक्त हो जाते हैं, जिससे हम कर्त्तव्यपरायणता से विमुख हो जाते हैं और भोग-वासनाओं की पूर्ति के लिए जो नहीं करना चाहिए वह करने लगते हैं, जिसका भयंकर परिणाम यह होता है कि जीवन राग-द्वेष से भर जाता है, जो वास्तव में अमानवता है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि राग-द्वेष की निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है, उसके लिए हमें सबसे प्रथम अलौकिक विवेक के प्रकाश में अपने को तीनों शरीरों से असंग करना होगा, जिसके करने में मानव सर्वदा स्वाधीन है। स्थूल शरीर से असंग होने पर अशुभ कर्म की उत्पत्ति नहीं होती और शुभ कर्म में आसक्ति नहीं रहती, और सूक्ष्म शरीर से असंग होने पर निरर्थक चिन्तन की उत्पत्ति नहीं होती और सार्थक चिन्तन में आसक्ति नहीं होती, और कारण शरीर से असंग होने पर निर्विकल्प स्थिति में आसक्ति नहीं रहती और शरीर का अभिमान नहीं रहता। निर्भिमानता आते ही माना हुआ अहं भाव मिट जाता है और उसके मिटते ही जड़ता से विमुखता हो जाती है, अथवा यों कहो कि चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है, जो वास्तव में मानवता है।

अब यदि कोई कहे कि अलौकिक विवेक क्या है ? तो, कहना होगा कि जिम् ज्ञान से हम बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि समस्त जीवन के दोषों को जानते हैं, उस ज्ञान का नाम ही अलौकिक विवेक है। अथवा यों कहो कि जिम् ज्ञान से बुद्धि, इन्द्रिय आदि ज्ञान पाते हैं, उस ज्ञान का नाम अलौकिक विवेक है। अथवा यों कहो जिससे अल्प ज्ञान प्रकाशित होता है वह अलौकिक विवेक है। अलौकिक विवेक किसी कर्म का परिणाम नहीं है; क्योंकि कर्म का जन्म तो बुद्धि जन्य तथा इन्द्रिय-जन्य ज्ञान से होता है। तो, जो कर्म बुद्धिजन्य ज्ञान का कार्य है, भला ! वह कहीं अलौकिक विवेक का कारण हो सकता है ? कभी नहीं। अलौकिक विवेक तो किसी महान् ने अपनी अहेतु की कृपा से मानव को प्रदान किया है, साधन-निर्माण करने के लिए कारण विवेक युक्त जीवन को ही मानव-जीवन कहते हैं।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि तीनों शरीरों से असंग होने का उपाय क्या है ? उसके लिए सबसे प्रथम बुद्धि जन्य ज्ञान से इन्द्रिय जन्य ज्ञान पर विजय प्राप्त करनी होगी। इन्द्रिय जन्य ज्ञान शरीरादि वस्तुओं में सत्यता तथा सुन्दरता का दर्शन कराता है। उस पर विश्वास करने से प्राणी विषयों में आसक्त हो जाता है, जिससे विचारा प्राणी पराधीन होकर दीन, हीन हो जाता है। पर, बुद्धि जन्य ज्ञान शरीरादि वस्तुओं में असुन्दरता, सतत परिवर्तन तथा क्षण भंगुरता आदि दोषों का दर्शन कराता है, जिससे साधक सुगमता-पूर्वक विषयों के राग से मुक्त होकर भोग से योग की ओर अग्रसर होता है। जैसे अपने ही शरीर को यदि कोई इन्द्रियों के द्वारा जब

देखता है, तब उसे शरीर सत्य भी मालूम होता है और सुन्दर भी, किन्तु उसी शरीर को यदि बुद्धि के ज्ञान से देखने लगे, तो उसे उसके भीतर मल, मूत्र, मज्जा, माँस आदि दुर्गन्धित वस्तुओं का दर्शन होता है, जिससे ऊपर की सुन्दरता मिट जाती है, अथवा यों कहो कि शरीर से अरुचि हो जाती है। यदि बुद्धि के ज्ञान से दृढ़तापूर्वक शरीर का दर्शन किया जाय, तो कोई भी उसे अपने समीप रखना स्वीकार न करेगा न उसमें रहना पसन्द करेगा। जैसे, यदि किसी से कहा जाय कि सुवर्ण के कलश में मल-मूत्रादि भर कर क्या रेशम से ढककर उसे अपने पास रखना पसन्द करोगे ? तो, सभी भाई-बहिन कहेंगे, नहीं। तो, फिर हम शरीर को सुन्दर-सुन्दर अलंकार एवं चमकों से सुशोभित क्यों रखते हैं ? तो, कड़ना होगा बुद्धि-जन्य ज्ञान के निरादर में। इसके अर्थ में कोई भाई-बहिन यह न समझ ले कि बुद्धि-जन्य ज्ञान शरीर को कहीं फेंकने तथा मिटाने के लिए कहता है। ज्ञान किसी को मिटाना नहीं। ज्ञान तो उसकी वास्तविकता का दर्शन कराता है। शरीर की वास्तविकता का दर्शन होने पर शरीर की मनना का त्याग करने के लिए बुद्धि-जन्य ज्ञान प्रेरणा देता है। शरीर की मनना मिटते ही विषय भोग से अरुचि हो जाती है, जो योग की रति अवलम्बन करने में समर्थ है। यह नियम है कि भोग की रुचि को पूर्ण करने में प्राणी भले ही परार्थीन तथा अस्वमर्थ हो, क्योंकि अचिद्रत भोग सभी को सर्वथा नहीं मिलते हैं, पर योग की रति की पूर्ण प्राप्ति में कोई भी साधक कभी परार्थीन नहीं है। कारण कि योग की गति के लिए हमें भोग-त्यागार्थी में रहित होकर—“पर”

से "स्व" की ओर गतिशील होना पड़ता है, क्योंकि योग उससे करना है, जिससे वियोग नहीं होता। वियोग उसी से नहीं होता, जो अपने में हो। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि योग प्राप्त करने में पराधीनता नहीं है।

जिस काल में भोग की प्रवृत्ति का पूर्ण रूप से त्याग हा जाता है, उसी काल में योग प्राप्त हो जाता है। वैसे तो, भोग के आरम्भ से पूर्व और भोग के अन्त में सभी को योग प्राप्त है, परन्तु भोग-काल के सुख की स्मृति अंकित हो जाने से जा योग प्राप्त होता है, उसका अनुभव नहीं होता, अर्थात् भोग के अन्त में भी भोग का चिन्तन रहता है। भोग का चिन्तन स्वाभाविक योग में स्थिति नहीं होने देता। इस दृष्टि से भाग-प्रवृत्ति से भोग का चिन्तन अधिक भयंकर है। यद्यपि किसी को भी भोग के चिन्तन से भोग नहीं मिल जाता, भोग की प्राप्ति के लिए तो कर्म अपेक्षित होता है। कर्म का सम्बन्ध वर्तमान परिस्थिति से होता है और चिन्तन आगे-पीछे का होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आगे-पीछे के चिन्तन के ही स्वाभाविक योग से विमुख किया है। और, योग की विमुखता ने ही हमें शक्ति-हीन बना दिया है, और जड़ता में आवद्ध कर दिया है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि भोगे हुए सुखों की स्मृति ने हमें जो आगे-पीछे के चिन्तन में आवद्ध कर दिया है, उससे कैसे छुटकारा हो ? उसके लिए साधक को योग्यता, ईमानदारी तथा परिश्रमपूर्वक वर्तमान कार्य को पवित्र भाव के द्वारा करना होगा

और कार्य के अन्त में अपने में छिपी हुई जिज्ञासा तथा प्रिय-लालसा को जगृत करना होगा। कारण की चिन्तन-शक्ति हमें तत्त्व-जिज्ञासा एवं प्रिय-लालसा की और अग्रसर होने के लिये मिली है। उसका उपयोग विषयों के चिन्तन में नहीं करना चाहिये।

अब विचार यह करना है कि भोगे हुए सुख की स्मृति क्यों अंकित होती है ? उसके लिए कहना होगा कि हम अपने को भोगी मानकर भोग करते हैं, इस कारण किये हुये का संस्कार अंकित हो जाता है। यह नियम है कि कर्त्ता जैसा अपने को मानता है, वैसा ही बन जाता है, और जो कर्त्ता है उसका संस्कार अंकित हो जाता है। वे अंकित संस्कार ही भोगे हुए सुखों की स्मृति कराने में समर्थ होते हैं। अतः उन के मिटाने के लिये हमें अपने को भोगी मानकर भोग नहीं करना चाहिये। जब हम अपने को भोगी न मानकर साधक मान लेंगे, तब हमें प्रत्येक प्रवृत्ति की वास्तविकता का अनुभव हो जायेगा। प्रवृत्ति की वास्तविकता का अनुभव निवृत्ति कराने में समर्थ है। यदि हम सुख-भोग की वास्तविकता पर विचार करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इच्छित भोग मिलने से पूरे हम दुखी थे, और इच्छित भोग भोगने के अन्त में भी हम दुखी होते हैं। तो, जिस सुख के आरम्भ में दुख और अन्त में दुख उस सुख की लालसा करना कहाँ तक उचित है ? तो, कहना होगा कि सुख की लालसा करना भूल है और कुञ्ज नहीं। अब यदि कोई कहे कि सुख तो इतनी प्रिय वस्तु है कि उस से अरुचि स्वाभाविक नहीं होती, तो कहना होगा कि सुख से अरुचि उन्हीं को नहीं होती, जो सुख

की वास्तविकता को नहीं जानते, अथवा पराये दुख से दुखी नहीं होते । जो हृदय-शील पराये दुख से दुखी होते हैं, उन्हें सुख भोगने की रुचि नहीं होती । उन्हें तो दूसरों को सुख देने की ही रुचि होती है और जो विचार-शील सुख की वास्तविकता को जान लेते हैं, वे भी अपने को सुख की दासता में आवद्ध नहीं करते । अतः यह स्पष्ट होजाता है कि कोई भी हृदय-शील एवं विचार-शील सुख के पीछे नहीं दौड़ता । सुख-भोग की आमक्ति मिटने ही स्थूल शरीर से असंगता आजाती है, कारण कि इन्द्रियजन्य विषयों से अरुचि हो जाती है, और विषय-चिंतन मिट जाता है । विषयचिंतन मिटते ही सार्थक चिंतन उत्पन्न होता है, और सूक्ष्म शरीर से असंग होने की योग्यता आजाती है । जिस काल में सार्थक चिंतन अचिंतता में बदल जाता है, उसी काल में साधक सूक्ष्म शरीर से असंग हो जाता है । दीर्घ काल तक अचित रहने से कारण शरीर से असंग करने के लिये स्वयं अलौकिक विचार का उदय होता है, जो अविचार को खाकर, कारण शरीर से असंग कर देता है । तीनों शरीरों से असंग होते ही अमर जीवन स्वतः प्राप्त होता है, जो मानव-जीवन है ।

देहाभिमान गल जाने पर माना हुआ अहं-भाव, जो विभिन्न मान्यताओं से प्रतीत होता था, शेष नहीं रहता और जीवन, योग, बोध तथा प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है । हमारी जो मान्यताएँ साधन-रूप हैं, वे छिपे हुए राग-द्वेष को मिटा कर हमें निर्भय बना देती हैं । निर्भयता आते ही जो नहीं करना चाहिये वह मिट जाता



है और जो करना चाहिए वह स्वतः होने लगता है। वही मानव की मानवता है। उस मानवता को विकसित करने के लिए हमें माने हुए 'अहं' के अनुसार जो कर्त्तव्य है उसे निर्मोहतापूर्वक अभिनय के स्वरूप में विधिवत् कर देना चाहिये। यह नियम है कि जो प्रवृत्ति अभिनय के रूप में की जाती है, उसमें जीवन बुद्धि, अर्थात् सद्भाव नहीं होता, और न कर्त्तव्य ही अंकित होता है और न उस मान्यता में सद्भाव ही होता है। अपितु वह प्रवृत्ति किसी वास्तविकता का अनुभव कराने-सात्र के लिए होती है। जिस प्रवृत्ति में सद्भाव नहीं होता, उस प्रवृत्ति का राग अंकित नहीं होता और राग-रहित होने पर माने हुए अहं-भाव की सत्यता सदा के लिए मिट जाती है, उसके मिटते ही जीवन प्रीति से परिपूर्ण हो जाता है, जो सब को अभीष्ट है।

अब हमें और आपको अपनी दृष्टि से अपने-अपने वर्तमान जीवन को देखना है कि हमने जो मान्यता स्वीकार करके समाज के सामने प्रकाशित की है क्या हमारा चरित्र उस मान्यता के विधान के अनुरूप है ? आज तक किसी ने अपने को समाज के सामने यह प्रकाशित नहीं किया है कि मैं दुराचारी हूँ, चोर हूँ, भूठा हूँ, बेईमान हूँ। तो, फिर इन दोषों का दर्शन हमारे जीवन से समाज को कैसे हुआ ? तो, मानना होगा कि हमने अपने को जिस मान्यता से समाज के सामने प्रकाशित किया उस विधान का अनादर किया, और जो केवल देहजनित स्वभाव की आसक्ति जो वास्तव में पशुता थी उसका परिचय दिया, जो अमानवता है। उस अमानवता को मानवता

में परिणत करने के लिए प्रत्येक भाई-बहिन को अपने-अपने स्थान पर ठीक रहना होगा। अर्थात्, डाक्टर को रोगी के अधिकार की रक्षा, राष्ट्र को प्रजा के अधिकार की रक्षा, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के अधिकार की रक्षा, एक दल को दूसरे दल के अधिकार की रक्षा, महाजन को मजदूर के अधिकार की रक्षा, शिक्षितों को अशिक्षितों के अधिकार की रक्षा, पति को पत्नी के अधिकार की रक्षा, पिता को पुत्र के अधिकार की रक्षा, मित्र को मित्र के अधिकार की रक्षा, अर्थात् परस्पर में एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। इससे सभी भाई-बहिन अपने-अपने स्वीकार किए हुए बन्धन से सुगमतापूर्वक मुक्त हो जायेंगे और राग-द्वेष भी मिट जायेगा। हाँ, एक बात विचारणीय है। भौतिकवादी अपने कर्त्तव्य का पालन विश्व-प्रेम की भावना से और अध्यात्मवादी सर्वात्मभाव से और आस्तिकवादी भगवत-भाव से प्रेरित होकर करेगा। यह नियम है कि जिस भाव से प्रेरित होकर जो प्रवृत्ति की जाती है, कर्त्ता उसी भाव में घिलीन होकर अपने लक्ष्य से अभिन्न हो जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि भौतिकवादी सारे विश्व के साथ एकता स्वीकार कर स्वार्थभाव से सुगमतापूर्वक मुक्त हो जावेगा और उसका जीवन सर्व हितकारी सद्भावना से भर जावेगा। अध्यात्मवादी सभी को अपना स्वरूप जानकर सभी के अधिकार की रक्षा करेगा। उसका परिणाम यह होगा कि वह सभी को अपने में और अपने को सभी में अनुभव कर कृत्य-कृत्य हो जावेगा। और, आस्तिकवादी का अहं भाव प्रेमास्पद की प्रीति बनकर प्रेमास्पद से अभिन्न हो जावेगा। यदि निष्पक्ष

भाव से विचार किया जाय तो सभी की मान्यता में भेद होने पर भी वास्तविकता में कोई भेद नहीं रहेगा । कारण कि विश्व-प्रेम भी प्रेम है और आत्मरति भी प्रेम है और प्रभु-प्रेम भी प्रेम है । अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि प्रेम से परिपूर्ण जीवन ही मानवता है, जो सभी को अभीष्ट है । अतः साधन रूप मान्यताओं को कर्त्तव्य बुद्धि से अभिनय के स्वरूप में अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार पूराकर सीमित अहं भाव से मुक्त होने के लिए हम सभी भाई-बहनों को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये, और साधन-रहित मान्यताओं को अलौकिक विवेक के प्रकाश से मिटा देना चाहिये । परस्पर मान्यताओं में भेद होने पर भी प्रीति-भेद तथा लक्ष्य-भेद नहीं होना चाहिये । योग्यता-भेद होने के कारण कर्मभेद, विचारों का भेद, सम्प्रदायों का भेद भले ही बना रहे, पर प्रीति स्वरूप जो मानवता है, उसका भेद नहीं होना चाहिये, क्योंकि मानव-मात्र में मानवता एक है । उसी मानवता को विकसित करने के लिए मानव-जीवन मिला है । ॐ आनन्दम् ।

८

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव,

कल सेवा में निवेदन किया था कि यदि हम निज-ज्ञान के प्रकाश में अपने माने हुए सम्बन्धों पर विचार करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सभी सम्बन्ध हमें कर्त्तव्यपरायणता का पाठ पढ़ाते हैं; अर्थात् वे हमारे निजस्वरूप नहीं हैं।

अब विचार यह करना है, ऐसा कौनसा सम्बन्ध है जो हमें कर्त्तव्य का पाठ पढ़ाता है और ऐसी कौनसी मान्यता है जो न तो कर्त्तव्य का ही पाठ पढ़ाती है और न अपनी स्वतन्त्र सत्ता ही व्यक्त करती है। जैसे, कोई कहे कि "मैं" तो 'मैं' जैसी जीवन में कोई वस्तु प्रत्यक्ष है ही नहीं।

हाँ, यह अवश्य कह सकते हैं कि 'मैं' का अर्थ है 'यह' को विषय करने वाला। जो 'मैं' 'यह' को विषय करता है, क्या कभी किसी ने उस 'मैं' को 'यह' से भिन्न करके देखा, तो कहना होगा कि 'यह' का ज्ञान तो तब होता है, जब हम अपने को बुद्धि आदि कारणों से मिला लेते हैं। बुद्धि आदि कारणों से हम 'मैं' को तब मिलाते हैं, जब किसी वासना की उत्पत्ति होती है। ता क्या 'मैं' का अर्थ वासनाओं का समूह है? वासनाओं की उत्पत्ति तो केवल

अपने को देह मानने पर होती है। तो क्या 'मैं' का अर्थ देह है ? यदि 'मैं' का अर्थ देह है, तो 'यह' किसे कहेंगे ? अतः देह के साथ 'मैं' को मिलाया नहीं जा सकता। इससे यह सिद्ध हुआ कि वासना की उत्पत्ति का कारण अपने को देह मानना है। अपने को देह मानना अविवेक सिद्ध है; विवेक-सिद्ध नहीं। तो, क्या 'मैं' का अर्थ अविवेक है ? यदि कोई अविवेक को ही 'मैं' मान ले, तो कहना होगा कि अविवेक की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। विवेक के अनादर का नाम ही अविवेक है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'मैं' या तो कर्त्तव्य के विधान का प्रतीक है अथवा कुछ नहीं है। यदि कोई कहे कि 'मैं' के अर्थ में तो हम बुद्धि आदि यावत् दृश्य के प्रकाशक को लेते हैं। तो कहना होगा कि बुद्धि आदि यावत् दृश्य का प्रकाशक तो अनन्त नित्य ज्ञान है। यदि अनन्त नित्य ज्ञान को 'मैं' कहेंगे, तो 'है' किसको कहा जायगा। हाँ, यह अवश्य है कि जिन्हें 'मैं' शब्द से मोह हो गया हो और उसके बिना माने किसी प्रकार से सन्तोष न हो तो 'मैं' का अर्थ होगा अनन्त नित्य-ज्ञान। इस दृष्टिकोण से भी 'मैं' जैसी कोई सीमित वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती, कारण कि 'मैं' का अर्थ हुआ कुछ नहीं, अर्थात् 'सब कुछ'। 'कुछ नहीं' का अस्तित्व होता नहीं और 'सब कुछ' को किसी मान्यता में आवद्ध कर सकते नहीं। अतः मान्यता वही सार्थक है जो साधन-रूप हो। उसके अतिरिक्त जो भी मान्यता होगी वह निरर्थक सिद्ध होगी। हाँ, एक बात अवश्य है 'मैं' को 'है' की जिज्ञासा अथवा 'है' की प्रीति के नाम से भी सम्बोधन कर सकते हैं। पर, जिज्ञासा तथा प्रीति में सत्ता

उसी की होती है, जिसकी वह जिज्ञासा तथा प्रीति होती है ।

अब विचार यह करना है कि इन तीनों भावों में से वास्तविक क्या है ? तो, आपको यह स्पष्ट हो जायगा कि कर्त्तव्य-परायणता में से यदि प्रीति निकाल दी जाय, तो कर्त्तव्य जैसी कोई चीज नहीं रह जाती । इससे यह सिद्ध होता है कि 'मैं' की वास्तविक सत्ता किसी न किसी प्रीति में है । हम जब अपने को कुछ मानते हैं, तो हमारी उस मान्यता में किसी की प्राति निहित हो जाती है । जैसे, किसी डाक्टर से पूछा जाय कि तुम वास्तव में कौन हो ? रोगी की प्रीति । इसी प्रकार वकील से पूछा जाय कि तुम कौन हो ? कानून की प्रीति । यदि आप कहेंगे कि डाक्टर रोगी की प्रीति नहीं है, तो उस समय वह डाक्टर नहीं है । प्रीति के बदले में क्या मिलेगा ? यह तो प्रीति का स्वभाव नहीं है । यह तो किसी और का स्वभाव है, अर्थात् देह का स्वभाव है । धरने को देह से मिलाते ही की हुई प्रीति के बदले में कुछ न कुछ चाह उत्पन्न हो जाती है, जो अबिवेक सिद्ध है, कारण प्राति में जो रस है, वह किसी भोग में नहीं । जिस देह से प्रमाद्वश हम अपने को मिला लेते हैं, उस देह की तो वास्तव में स्थिति सिद्ध ही नहीं होती, प्राति अवश्य होती है । यदि कोई कहे, उसे हम लूते हैं, पकड़ते हैं, प्यार करते हैं, तो कहना होगा कि क्या आप देह से धरने का अलग करके किसी भी देह को लूते, पकड़ते, प्यार करते हैं ? कदापि नहीं । बड़े से बड़ा भौतिक विज्ञानी भी देह आदि वस्तुओं की वास्तविक प्राति सिद्ध नहीं कर सकता; क्योंकि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, जिसमें सत्त्व परिवर्तन

न हो रहा हो। अब यदि कोई यह कहे कि वस्तुओं की उत्पत्ति तो होती है, तो मानना होगा कि जिसे आप उत्पत्ति कहते हैं, वही तो किसी का विनाश भी है, क्योंकि किसी का विनाश ही किसी की उत्पत्ति के स्वरूप में प्रतीत होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विनाश के क्रम को ही उत्पत्ति तथा स्थिति मान लेते हैं। इसी कारण दृश्य में प्रवृत्ति तो होती है, प्राप्ति कुछ नहीं होती। इस दृष्टि से भी यही सिद्ध होता है कि जिसकी प्रतीति होती है, उसकी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो वह प्रतीति किसी और की सत्ता से ही सत्ता वाली होती है। अब यदि कोई यह प्रश्न करे कि जिस संसार में हमारी प्रवृत्ति होती है, उससे तो हमें बहुतसी वस्तुएँ मिलती हैं और आप कहते हैं कि प्राप्ति कुछ नहीं होती? जो ऐसा मानते हैं, उनसे यदि यह पूछा जाय कि भाई, संसार की प्रवृत्ति से ऐसी कौनसी वस्तु मिली, जिसका सम्बन्ध आप से है। यदि वे कहें कि मोटर, मकान इत्यादि अनेक भोग्य वस्तुएँ हमें मिलती हैं, तो उनसे यदि यह पूछा जाय कि जो वस्तुएँ तुम्हें मिलती हैं, वे शरीर तक ही पहुँचती हैं, अथवा तुम्हें मिलती हैं। अब आप कोई ऐसी वस्तु बताएँ जो देह से अपने को अलग मानने पर मिलती है। यदि वे कहें कि हम अपने को देह से अलग क्यों मानें, तो कहना होगा कि देह तो सतत परिवर्तनशील है। तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। अतः यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि कोई भी अपने को देह से अलग सिद्ध नहीं कर सकता और किसी को भी देह से अलग मानकर अपने लिए संसार से कुछ प्राप्त नहीं हुआ।

सो. फिर मानना ही होगा कि प्रतीति में प्रवृत्ति तो होती है, पर प्राप्ति कुछ नहीं होती। इतना ही नहीं, प्रतीति में प्रवृत्ति भी प्रतीति की ही होती है किसी और की नहीं। कारण, देह आदि भी प्रतीति है और समस्त दृश्य भी प्रतीति है। यह प्रतीति जिस अनन्त के प्रकाश से प्रकाशित है तथा जिसकी सत्ता से सत्ता वाली है, हमें और आपको उस ही अनन्त से अभिन्न होना है, अथवा उसकी प्रीति पन कर रहना है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी-अपनी योग्यता तथा परिस्थिति के अनुसार साधन-निर्माण करना है। परन्तु, जब हम प्रमादवश अपने को देह मान लेते हैं, तब अनेक प्रकार की चाह में आवध हो जाते हैं। जिन वस्तुओं एवं व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न चाह की पूर्ति की आशा होती है, उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं, उन्हीं के दास बन जाते हैं। इतना ही नहीं उन्हें प्राप्त करने के लिए बह भी कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। और, अन्त में पराधीनता, जड़ता तथा शक्तिहीनता आदि दोषों को ही पाते हैं, जो किसी को भी प्यभीष्ट नहीं है। इन दोषों की निवृत्ति के लिए ही हमें साधन-निर्माण करना है।

यदि हम अलौकिक विदेह के प्रकाश में अपने को देह न मानें, तो यही ही सगमतापूर्वक अचाह-पद प्राप्त कर सकते हैं। अचाह-पद प्राप्त करते ही हम समस्त दृश्य से विमुक्त होकर अनन्त-नित्य-चिन्मय पर तत्त्व के सम्मुख हो जाते हैं। उनके सम्मुख होते ही सभी दोष, सभी निर्बलताएँ स्वतः मिट जाती हैं।

साँव छोड़ें साधक अपने को देह से अलग मानने में अपने



को असमर्थ पाता हो, तो उसे किसी साधनरूप मान्यता को अपना कर उसके अनुसार जो कर्त्तव्य हो उसका पालन करना चाहिए। उसके करने से विषयों का राग निवृत्त हो जायगा और फिर अपने को देह से अलग मानने की योग्यता आ जायगी। कारण कि विषयासक्ति के कारण प्राणी अपने को देह में आवद्ध कर लेता है। आज हमें अपना साधन-निर्माण करने में कठिनाई क्यों होती है ? इसका एकमात्र कारण यह है कि हम अपने निजविवेक से सारे संसार को तो जानना चाहते हैं, पर अपनी वस्तुस्थिति को जानने का प्रयत्न नहीं करते। यह नियम है कि अपनी वस्तुस्थिति को जाने बिना कोई अपना साधन-निर्माण कर ही नहीं सकता।

अब यदि हम अपनी वस्तुस्थिति पर विचार करें, तो या तो अपने में सतत परिवर्तन पाते हैं, अथवा मान्यताओं का समूह। हमारी जो मान्यता दूसरों से सम्बन्धित है, उसके अनुसार तो हमें दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर देनी चाहिए। पर, दूसरों पर जो हमारा अधिकार है, उसकी पूर्ति के लिए हमें आशा नहीं करनी चाहिए। यदि बिना आशा के पूरी होने लगे, तो उनका सुख नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारी सभी मान्यताएँ साधन बनकर हमें उम राग से निवृत्त कर देगी, जिनमें हमें मान्यताओं में आवद्ध कर दिया था। अब रही सतत परिवर्तन की बात। सतत परिवर्तन की चेदना तो हमें परिवर्तन-रहित अनन्त-नित्य जीवन की ओर अग्रसर करने में समर्थ होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी वस्तुस्थिति या तो तत्त्व-जिज्ञासा है या समाज के अधिकार का समूह।

इस वस्तु-स्थिति के ज्ञान का आदर करना ही मानवता है और इसके अतिरिक्त हम जो कुछ मान लेते हैं, वह अमानवता है। उस अमानवता ने ही हमें कर्त्तव्य-परायणता तथा तत्त्व-जिज्ञासा एवं प्रिय-लालसा से विमुख किया है।

हमारे जीवन में जितने अभाव हैं, वे किसी न किसी की प्रीति हैं; जैसे धन का अभाव धन की प्रीति है। प्रीति में सत्ता उसी की होती है, जिसकी वह प्रीति होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम जिसे चाहते हैं, उसी की प्रीति बन जाते हैं। परन्तु, जब हमारी वह प्रीति किसी वस्तु अवस्था या परिस्थिति तक ही सीमित हो जाती है, तब उमका नाम प्रीति न रह कर आसक्ति हो जाता है; फिर हम आसक्ति की अपूर्ति तथा पूर्ति में अपने को दुखी तथा सुखी मानकर दीनता तथा अभिमान में अपने को आवष्ट कर लेते हैं, यह हमारा प्रमाद है। उसे मिटाने के लिए हमें अपनी प्रीति को निर्मल करना होगा, अर्थात् उसे अनन्त में विलीन करना होगा। पर, यह तभी हो सकेगा, जब हम किसी के श्रेणी न रहें और ईमानदार बन जायें। श्रेणी न रहने का अर्थ है कि हमारी प्रवृत्तियों से किसी के अधिकारों का अपहरण न हो और ईमानदार होने का अर्थ है कि शरीर आदि किसी भी वस्तु को अपना न मानें। अपना न मानने से कोई सक्ति नहीं होती। अथवा यों मान लें कि सेवा करने के लिए तो सभी खरने हैं और अपने लिए तो केवल वे ही अपने हैं, जिनके लिए हम सभी वस्तुओं, अवस्थाओं एवं परिस्थितियों से अलग होना चाहते हैं। यदि हम विचार करें, तो यह विदित हो जायगा कि कोई

भी वस्तु तथा व्यक्ति एवं अवस्था हमें कितनी ही प्रिय क्यों न हो. हम उससे अलग अवश्य होना चाहते हैं। जैसे प्रिय से प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति को भी गहरी नींद के लिए त्याग देते हैं, और जागृत की सुषुप्ति के लिए गहरी नींद को भी हम छोड़ देते हैं। यदि कोई कहे क्या जागृत में भी सुषुप्ति होती है ? तो, कहना होगा कि जागृत में भी स्वप्न और सुषुप्ति होती है। किसी कार्य के करते हुए किसी ऐसी बात की स्मृति आना जिसका सम्बन्ध उस कार्य से नहीं है, यही जागृत का स्वप्न है और वर्तमान कार्य से सम्बन्ध न रहे और अन्य कार्य की भी स्मृति न आए, अर्थात् भीतर-बाहर का मोन ही जागृत की सुषुप्ति है। गहरी नींद में जड़ता का दोष रहता है, और जागृत सुषुप्ति में जड़ता का दोष नहीं रहता, यद्यपि दोनों ही अवस्थाओं में दुख का भास नहीं होता। इसी कारण उस स्थिति में कोई प्रयत्न शेष नहीं रहता। किन्तु, अध्यात्म दृष्टि से अप्रयत्न भी एक बड़ा भारी प्रयत्न है। उस ही अप्रयत्न से जागृत की सुषुप्ति से भी असंगतता हो जाती है और फिर साधक अमर जीवन से अभिन्न हो जाता है।

यह सभी भाई-बहिनों का अनुभव है कि गहरी नींद में जितना सुख मिलता है, उतना किसी वस्तु या व्यक्ति के संग से नहीं मिलता। तभी तो हम गहरी नींद के लिए सभी वस्तुओं का संग छोड़ते हैं। पर, छोड़ते हुए भी उनसे सम्बन्ध बनाए रखते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि हम एक ओर तो सभी से अलग होते हैं और दूसरी ओर सभी की आमक्ति भी रखते हैं। सभी से अलग होने की जो हमारी

अनुभूति है, वह हमें वस्तुओं से अतीत के जीवन का संकेत करती है, और वस्तु और व्यक्तियों में जो आसक्ति है, वह हमारे माने हुए सम्बन्ध को सिद्ध करती है। सम्बन्ध सुने हुए विश्वास पर जीवित है और अनुभूति निज-ज्ञान पर निर्भर है। सम्बन्ध के अनुसार तो हमें केवल व्यक्तियों की सेवा और वस्तुओं के सदुपयोग की प्रेरणा मिलती है और निज-ज्ञान के प्रकाश से हमें सभी वस्तुओं से अतीत के जीवन की ओर अग्रसर होने का आदेश मिलता है। उस आदेश की पूर्ति और वस्तुओं का सद्व्यय तथा व्यक्तियों की सेवा करना प्राणी का परं पुरुषार्थ है। वस्तुओं के सद्व्यय तथा व्यक्तियों की सेवा को ही कर्त्तव्य के नाम से कहा जाता है। उसी बात को भिन्न-भिन्न मत, दल, तथा सम्प्रदाय अपनी-अपनी विचार-धारा के नाम से वर्णन करते हैं। प्रत्येक भाई-बहन को अपनी-अपनी विचारधारा के अनुसार ज्ञान के प्रकाश में मिले हुए आदेश के अनुसार उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन करके उस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिये। यदि उस विचारधारा से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, तो उस विचारधारा में कोई त्रुटि अवश्य है। यह निश्चय है कि उद्देश्य की पूर्ति होने पर सीमित 'अहंभाव' लक्ष्य में विलीन हो जाता है, शेष नहीं रहता। अहंभाव के मिटने ही अभिप्रेता आ जाती है, अर्थात् भेद नहीं रहता, भेद मिटने से प्रीति का ह्माग स्वभाव है, विनु होजाता है। प्रीति के विनु होने से सभी संघर्ष स्वतः मिट जाते हैं और जीवन चिर-शान्ति, तथा गायत्री प्रसन्नता से भर जाता है, जो मानव को प्रिय है। उस उद्देश्य की पूर्ति जिस

जीवन से होती है, उसका वर्णन विभिन्न साधक विभिन्न विचार-धाराओं को अपना कर अपनी-अपनी योग्यता, रुचि एवं मान्यता के अनुसार करते हैं । यद्यपि वर्णन-कर्त्ता जो कुछ भी उसके सम्बन्ध में कहता है, वह भी सत्य है और उससे परे भी है; क्योंकि वर्णन करने की सामर्थ्य सीमित है और वह अनन्त है । अनन्त के सम्बन्ध में साधन-बुद्धि से जो कुछ भी कहा जाता है, अपने-अपने स्थान पर ठीक है, पर सिद्धान्त रूप से तो उसकी प्राप्ति होती है, जो वर्णन नहीं हो सकता । किए हुये वर्णन को पूर्ण मान कर परस्पर में विरोध तथा संघषे करना अमानवता है, असाधन है, उससे किसी को कोई लाभ नहीं होता, अपितु समाज में अशान्ति उत्पन्न हो जाती है । उस अशान्ति का एक-मात्र कारण हमारे स्वीकार किये हुए साधन के प्रति मोह है । साधक को साधन से अभिन्न होना है, न कि उसके साथ मोह करना है । साधन के प्रति मोह करना तो असाधन है । साधन को जीवन बना लेना साधन है । साधन जीवन हो जाने पर साधन से मोह, तथा साधन का अभिमान शेष नहीं रहता और फिर साधनों का आदर साधक स्वयम् करने लगता है, अर्थात् अपने साधन का अनुसरण और दूसरों के साधनों का आदर मानवता है । अपने साधन के प्रति मोह और दूसरों के साधन की निन्दा अमानवता है । यह नियम है कि जो साधन जीवन बन जाता है, उसका प्रचार स्वतः हो जाता है, किन्तु सभी का लक्ष्य एक है और योग्यता-भेद से केवल साधन के बाह्य-स्वरूप में भेद है । सत्पुरुषों ने साधन का निर्माण किया है, और उस साधन-पद्धति द्वारा समाज

की सेवा भी की हैं, परन्तु उन्होंने अपनी माधना के आधार पर कोई दल तथा मत नहीं बनाया है। दल और मतों को तो उनके पीछे चलने वालों ने अपने देहाभिमान के वशीभूत होकर जन्म दिया है। मानव-जीवन तत्त्व-जिज्ञासा तथा श्रद्धा का समूह है। तत्त्व-जिज्ञासा हमें सत्य की खोज करने के लिये विवश करती है और श्रद्धा खोज किये हुये सत्य पर अपने को न्योत्रावर करने की प्रेरणा देती है। श्रद्धा ने उस सत्य को अनन्त, अलौकिक, दिव्य गुणों से विभूषित पाया और जिज्ञासा ने सभी गुणों से अतीत में अपने को विलीन किया। श्रद्धा ने उससे जातीय एकता और जिज्ञासा ने उससे स्वरूप की एकता स्वीकार की। इसी को विश्वासियों ने, अर्थात् जो हृदय-प्रधान साधक थे, उन्होंने सगुण बताया और मस्तिष्क-प्रधान साधकों ने गुणातीत, अर्थात् निर्गुण बताया। जिन्होंने सगुण कहा, उन्होंने प्राकृति गुण नहीं, परन्तु अलौकिक दिव्य गुणों की बात कही। और, जिन्होंने निर्गुण कहा, उन्होंने भी प्रकृति के गुणों से अतीत कहा। अपने-अपने दृष्टि से तो दोनों ने ठीक ही कहा है। परन्तु, जो गुणों से अतीत है, उसी में अनन्त गुण हो सकते हैं और जिनमें अनन्त गुण हो सकते हैं, वही गुणों से अतीत हो सकता है, अथवा यो कहो कि वह सब कुछ होने पर भी अपने परे है। जो अपने परे है, हमें उसकी खोज करना है और उसकी प्रीति होना है। उसकी खोज करने के लिए अपने को जिनमें रम्य लिया है, उनमें अलग करना होगा, और अपने में जिनको रम्य दिया है, उनको निकालना होगा। ऐसा करते ही निर्वासना आ जायेगी। वासनाओं का अन्त होने ही

जिसकी खोज थी, उससे एकता हो जायगी और समस्त जीवन उसकी प्रीति बन जायगा। प्रीति से परिपूर्ण जीवन रसमय जीवन है। यह नियम है कि नीरसता तथा खिन्नता मिटते ही राग-द्वेष सदा के लिए विदा हो जाँयगे; उनके विदा होते ही परस्पर में स्नेह की एकता का संचार होगा और फिर व्यक्तिगत जीवन समाज के अधिकारों में विलीन हो जावेगा। समाज के अधिकार सुरक्षित होने से सुन्दर समाज का निर्माण स्वतः हो जायगा, और अनन्त की प्रीति बन जाने से अपना कल्याण भी हो जावेगा। स्नेह की एकता अपने अधिकार के त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा का पाठ पढ़ाती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा से कर्त्तव्य-परायणता स्वतः आ जाती है, और अपने अधिकार के त्याग से माने हुए सभी सम्बन्ध टूट जाते हैं। उनके टूटते ही मुक्त जीवन से अभिन्नता हो जाती है, और फिर केवल प्रीति ही प्रीति शेष रह जाती है, जो सर्वत्र सर्वदा उस अनन्त को रस प्रदान करती है, अथवा यों कहो कि अनन्त को प्रेमी बना देती है। यह नियम है कि प्रेम के आदान-प्रदान में नित नव रस की उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती है, अर्थात् जीवन अखण्ड, अनन्त रस से परिपूर्ण हो जाता है, जो मानव की माँग है। ॐ

६

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाय !

कल सेया में निवेदन किया था कि माने हुए अहम् के अनुसार मान्यता समाज के अधिकार का समूह है। और, वास्तविक नित्य-सम्बन्ध के अनुसार मान्यता उन अनन्त की प्रीति है।

अब विचार यह करना है कि इन मान्यता को विकसित करने के लिए हमें सबसे प्रथम क्या करना है? मान्यता का विकास जीवन में सभी ही संकेता, जब हम अपने को निर्दोष तथा निर्धर बना लें। निर्दोष होने का वास्तविक उपाय है, करने-करने विवेक से अपने पर न्याय करना। किसी का दुःख देना संघर्ष करना, किसी का विनाश करना, किसी से तीस या चूना करना, यह सब न्याय का कार्य नहीं है। न्याय का कार्य है, जिसके प्रति न्याय किया जाय, उसे समर्थ होय वा समर्थ समर्थ बना देना और किसी उपाय विवेक से उस को विरुद्ध बना देना, अर्थात् उसे निर्दोष बना देना। जिसके प्रति न्याय किया गया, यदि वह निर्दोष नहीं हुआ, तो समानता स्थापित, समबहुता में जोर होय है, समर्थ उसके प्रति नहीं न्याय नहीं किया गया। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने को निर्दोष बनाने के लिए अपने प्रति न्याय करना अनिवार्य हो जाता है, अतः



न्यायाधीश वही है, जो अपने पर न्याय करता है। यदि प्रत्येक भाई-बहिन अपने पर न्याय करने लग जाँय, तो किसी वाद्य न्यायशाला की अपेक्षा ही नहीं रहती। न्याय करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि न्यायकर्त्ता दोष और दोष के कारण को भली-भाँति व्यों का व्यों जान ले, तभी न्याय सही हो सकेगा। अब विचार यह करना है कि हम अपने दोष तथा उसके कारण को जितना स्पष्ट निज-विवेक से जानते हैं, उतना कोई अन्य हमारे सम्बन्ध में ज्ञान ही नहीं सकता। अतः अपने प्रति जितना सही न्याय हम कर सकते हैं, उतना कोई अन्य कदापि नहीं कर सकता। यदि कोई यह कहे कि हमने अपने प्रति पक्षपात कर लिया, तो सही न्याय कैसे होगा; क्योंकि अपने प्रति मोह होना सम्भव है। तो कड़ना होगा कि न्याय का परिणाम निर्दोषता है। यदि हमारे जीवन में निर्दोषता नहीं आई, तो समझना चाहिए कि हमने अपने प्रति सही न्याय नहीं किया। उसके सही न करने का एक-मात्र कारण निजविवेक का अनादर ही हो सकता है, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि निज-विवेक का अनादर अमानवता है।

प्राकृतिक विधान पर यदि हम विचार करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जगत् प्रकाशक ने हमें जो अलौकिक विवेक का प्रकाश दिया है, वह इसीलिए दिया है कि हम अपने दोष को जानकर न्यायपूर्वक अपने को निर्दोष बनाएँ। कारण कि जिन पशु-पक्षी आदि प्राणियों में अलौकिक विवेक जागृत नहीं है, उनको अपने प्रति न्याय नहीं करना पड़ता। प्रकृति स्वयं उनके प्रति न्याय करती है।

अर्थान्, पशु विचारा बिना भूख के नहीं खा सकता, और भूख से अधिक भी नहीं खा सकता. तथा भूख और स्वाद्यपदार्थ होते हुए भूखा भी नहीं रह सकता। पर, मानव इसके विपरीत बिना भूख भी खा लेता है और कभी भूख लगने पर भोजन होने हुए भी नहीं खाता। इस अनन्त ने यह न्याधीनता मानव को हम कारण दी कि वह मिले हुए विवेक का आदर करे। यह नियम है कि मिली हुई न्याधीनता तभी सुरक्षित रह सकती है, जब उसका सदुपयोग किया जाय। अतः मानव-जीवन में विवेक के आदर का कोई स्थान ही नहीं है।

अपने प्रति न्याय वही कर सकेगा, जिसका जीवन व्रत, तप, प्रायश्चित्त तथा प्रार्थना से युक्त हो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की यह प्रतिज्ञा का नाम ही व्रत है। उन व्रत को पूरा करने में जो कठिनाइयों आँ, उन्हें सार्ध सदान कर लेना ही तप है। जो हट्ट भूल को न झारना ही प्रायश्चित्त है और यह तभी सम्भव होगा, जब भूल से भोगा हुआ ज्ञान मुक्त रूप बन जाय। अपनी निर्दलताओं एवं अभावों को मिटाने के लिए परम व्याकुलता की जागृति ही यान्त्रिक प्रार्थना है।

एक व्रत का उत्पन्न होता है कि अपने को निर्दोष बनाने के लिए सबसे प्रथम अपने प्रति क्या करना होगा ? तो, कहना होगा कि सब से प्रथम हमें निजविवेक के प्रदान में अपनी वर्तमान स्थिति को जानना होगा। अपने दोषों को जानना ही अपनी वास्तुस्थिति जानना है। यह नियम है कि दोष मिटाने में वही सफल होगा, जो अपने दोष को जान सके। कारण, अपनी स्थिति में अपने को

जान लेने पर एक गहरी वेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि दोष-युक्त जीवन किसी को प्रिय नहीं है। परन्तु, परदोषदर्शन रूपी दोष से हम उस उत्पन्न हुई वेदना को दवा देते हैं और भूठा संतोष कर अपने को धोखा दे लेते हैं, उमका बड़ा ही भयंकर परिणाम यह होता है कि हम अपने दोषों को जान लेने पर भी निर्दोष नहीं हो पाते। परन्तु, फिर भी प्रमादवश दूसरों से निर्दोष कहलाने की आशा करने लगते हैं। यदि किसी ने अपनी उदारता-वश अथवा हमारी वास्तविकता न जानने के कारण हमें भला कह भी दिया, तो हम मिथ्या-भिमान में अपने को आवद्ध कर लेते हैं, जो वास्तव में सभी दोषों का मूल है।

सच तो यह है कि हम अपनी दृष्टि में अपने को आदर के योग्य तभी पायेंगे, जब निर्दोष हों। और, निर्दोष तभी हो सकेंगे, जब संत्य का आदर करें। अर्थात्, जैसा हम जानते हैं, वैसा ही मानें और जैसा मानते हैं, वैसा ही हमारा जीवन हो। ऐसा होते ही हम वड़ी ही सुगमतापूर्वक निर्दोष हो सकते हैं। जब हम यह जानते हैं कि कोई हमारा बुरा न चाहे, तो हम दूसरे का बुरा क्यों चाहते हैं? जब हम यह जानते हैं कि कोई हमारा अनादर न करे, हमें कोई हानि न पहुँचाए, तो हम किसी का अनादर क्यों करते हैं, किसी को हानि क्यों पहुँचाते हैं? ऐसा हम से तभी होता है, जब हम मिले हुए अलौकिक विवेक का अनादर करते हैं। सभी भाई-बहनों को यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि विवेक हमें निजदोष-दर्शन कर निर्दोष होने के लिए मिला है। इस दृष्टि से हमारा विवेक ही हमारा राष्ट्र

तथा न्यायार्थ है। यह नियम है कि हमें अपने विवेक द्वारा राष्ट्र के विधान का आदर्शपूर्णक ईमानदारी से पालन करना चाहिए। अतः जब हम किसी का दुष्ट नहीं चाहेंगे, तब हृदय कल्पना से द्रवीभूत हो जायेगा, अभय प्रसन्नता से भर जावेगा।

यह नियम है कि जिस हृदय में कल्पना निवास करती है, उस हृदय में सुख-भोग की आनक्ति नहीं रहती, कारण कि यह अपने से दुस्त्रियों को दुर्वर्त हुए सुख भोग ही नहीं सकता। अतः, जिस हृदय में प्रसन्नता निवास करती है, वह अपने से सुखों का दुन्दुकर न तो ईर्ष्या ही करता है और न चाह ही उत्पन्न होता है, क्योंकि ईर्ष्या तथा आह की दरनि मयकी प्रसन्नता के अभय में ही हो सकती है। इतना ही नहीं अज्ञात होय ही कौण अपने आह भिद जाने है, कारण कि आहपूर्ण की आनक्ति से ही प्रारम्भ यह कर पेटता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए, उसे का नाम दुष्ट है। यह नियम है कि जो नहीं करना चाहिए, उसके न करने से जो करना चाहिए वह स्वयं ही हो जाता है, कारण करने से मक्त हो जाता है। जैसे, यह भी मृत नहीं हो सकता है, जो या या स्वयं हीनेका प्रसन्नता भोग ही जायेगा। स्वयं हीने से सुखन जाने से दरिद्रता की रक्षा हीने और समान से स्वयं हीनेका या प्रसार हीने। न जाने से शक्ति की शक्ति मत्त से विज्ञान ही जायेगा और मत्त के मीन हीने से मत्त की शक्ति बुद्धि से विज्ञान ही जायेगा और बुद्धि से मीन हीने से बुद्धि ही शक्ति मत्त प्रसन्नता से विज्ञान ही जायेगी, जो स्वयं बुद्धि ही प्रसार है। अपने का निदर हीने कि जो हीने जायेगा, उससे

होने से समाज में गुन्दरता आवेगी और न होने से अनन्त से एकता होगी । अतः सही करना अथवा करने से मुक्त होना ही मानवता है ।

प्राकृतिक नियमानुसार हमें जो कल प्राप्त है, वह विश्व की उदारता ही है । जैसे सूर्य की उदारता से ही नेत्र देखता है, आकाश की उदारता से ही श्रवण सुनता है, जल की उदारता से ही रमना को रस मिलाता है; वृक्ष और पशुओं की उदारता से ही बहुत-सी जीवन की उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब हमारा जीवन किसी की उदारता पर ही निर्भर है, तो हमारे द्वारा भी समाज के प्रति उदारता का ही व्यवहार होना चाहिए । पर, आज यह बात हमारे जीवन से चरितार्थ होती है अथवा नहीं, यह अपने विवेक से देखें । यदि होती है, तो हम में मानवता है और यदि नहीं होती है, तो अमानवता है ।

व्यक्ति के निर्दोष होने से समाज में निर्दोषता आ जाती है और व्यक्ति के दोषी होने से समाज में दोष आ जाता है । अथवा यों कहो कि अपने प्रति किया हुआ न्याय ही समाज में न्याय का प्रचार करता है अथवा अपने प्रति किया हुआ अन्याय ही समाज में अन्याय का प्रचार करता है । जैसे, किसी को श्रम की आवश्यकता है, किसी को सिक्के तथा वस्तु की । विवेक हमें प्रकाश देता है कि दोनों की आवश्यकता एक है, दोनों को एक-दूसरे के प्रति आदर देना चाहिए । पर, हम ऐसा नहीं करते । जिसको सिक्के की आवश्यकता है, उसको नौकर, जिसको श्रम की आवश्यकता है, उसको मालिक मान लेते हैं । श्रम शारीरिक हो या बौद्धिक, श्रम ही है । इस अन्याय का परिणाम

यह होता है कि नियंत्रक का महत्त्व बढ़ जाता है, जिससे नदी धमी नहीं मिलने । नदी धम न होने से नमात्र में दरिद्रता फैलती है, जिससे परस्पर में संघर्ष उत्पन्न होता है । यदि हम अपने प्रति न्याय करते और धम का नियंत्रक के समान अध्ययन उससे अधिक आदर करते, तो धम का महत्त्व बढ़ जाता, जिससे दरिद्रता तथा संघर्ष मिट जाता । नियंत्रक का महत्त्व बढ़ने से जीवन में जड़ता आ जाती है, जिससे संघर्ष की भावना जागृत होती है और यह नियम है कि जड़ा संघर्ष होता है, यही आत्मन्य, ध्यान और अभिमान उद्भव होता है, जो सब योगी का मूल है । यदि विवेकपूर्ण देखा जाय, तो यह स्पष्ट ही जाता है कि जीवन में नियंत्रक की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है । जीवन में आवश्यकता पशुओं की है, जिनका उत्साहन शारीरिक तथा पौष्टिक तथा तथा भौतिक जगत् में होता है, नियंत्रक से नहीं । नियंत्रक तो आदान-प्रदान का एक माध्यम मात्र है ।

अब विचार यह करना है कि नियंत्रक दर्शन में क्या लाभ होता है और परमाणु-दर्शन में क्या हानि होती है ? परमाणु दर्शन के ही हम अपने को शून्य में लाना चाहते हैं, परमाणु कि दर्शन से अज्ञान हानि पर ही होकर देखा जा सकता है । किसी क्षण की शक्ति समाप्त नहीं है, परमाणु और योगी को शक्त से ही भला माना है । जो हीने अज्ञान-दर्शन के प्रभाव से अज्ञान हीन होकर देखा है, जो देखा हीने शक्त हीन ही जाता है । यदि हमारी न दुःखदायक जाय, तो महत्त्व के हीने प्राप्त होता है, हमारे अज्ञान ही निरीक्षण-शक्त हो जाती है । हर मूल का हानि है । परमाणु-दर्शन से ही शक्त ही देखा हीने हीने हीने

दोष-काल में दोष को देख लिया जाय, तो दोष की प्रवृत्ति ही न हो। किन्तु जब दोष कर चुकते हैं, तब निर्दोष-काल में अपने को दोषी मानकर दोषों का चिन्तन करते रहते हैं, जिससे पुनः दोष होते रहते हैं। दोष को देखना है, अपने में उसका स्थापना नहीं करना, अपितु दोष देखने के पश्चात् तुरन्त निर्दोषता की स्थापना कर अचिन्त हो जाना है और दोष को पुनः न दुहराने का दृढ़ संकल्प करना है। उसके पश्चात् कोई कहे कि तुम दोषी हो, तो प्रसन्न चित्त होकर कहदो कि अब नहीं हूँ, पहले था। अर्थात्, भूतकाल के दोष को वर्तमान में मत देखो। यह नियम है कि दोषी भाव की विस्मृति होने पर निर्दोषता अवश्य आ जायगी। अतः यह स्पष्ट हो गया कि निजदोष-दर्शन से ही हम निर्दोष हो सकते हैं, परदोष-दर्शन से दोष करने की अपेक्षा अधिक क्षति होती है। कारण पर-दोष-दर्शन करते ही अपने दोष की वेदना मिट जाती है और जड़ता तथा मिथ्या अभिमान आ जाता है, जो सभी दोषों का मूल है। यदि कोई संदेह करे कि दोष करने से भी पर-दोष-दर्शन बुरा है, तो यह बुरा कैसे है? तो, कहना होगा कि जो दोष करता है, वह अपनी दृष्टि में आदर के योग्य नहीं रहता। इससे उसके हृदय में एक व्यथा उत्पन्न होती है और दोष करने में जो कठिनाइयाँ होती हैं, उन्हें भी वह सहन करता है और उसके परिणाम को भी जान लेता है। इन सब कारणों पर विचार करने से दोष करने वाला निर्दोष हो सकता है, किन्तु पर-दोष-दर्शन करने वाले को ये सब कठिनाइयाँ नहीं आतीं, इस कारण वह स्वयं दोषी हो जाता है। अतः दोष करने से भी पर-दोष-दर्शन अधिक बड़ा दोष है।

अब विचार यह करना है कि हम दोषों को अपनाते क्यों हैं ? तो, कहना होगा कि सुख-लोलुपता में आसक्त होकर। कारण, सभी सुखों का जन्म किसी न किसी दोष से ही होता है, अथवा यों कहो कि दुख से होता है। जैसे, यदि लाभ का दोष न हो, तो लाभ का सुख नहीं होता और न हानि का दुख होता। यदि मोह का दोष न हो, तो न संयोग का सुख होता है और न वियोग का दुख होता है। और, यदि अभिमान का दोष न हो, तो न सम्मान का सुख होता है और न अपमान का दुख होता है, इत्यादि। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सुख-दुख किसी दोष का ही परिणाम है। निर्दोषता आते ही मानव सुख-दुख से विमुक्त होकर अनन्त चिन्मय नित्यानन्द से अभिन्न हो जाता है।

निर्दोष होने के लिए जब यह अनिवार्य हो गया कि हम अपने प्रति न्याय करें, तो यह जानना होगा कि अपने और पराये का भेद क्या है ? तो, कहना होगा कि जिसको हम जिस अंश में जितना अपने निकट पाते हैं, उतना ही उसको अपना और जिसको जिस अंश में जितना दूर पाते हैं, उतना उसको पराया सम्बोधन करेंगे। इस दृष्टि से शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि को कुटुम्बीजनों की अपेक्षा अपने अधिक निकट पाते हैं और पड़सी की अपेक्षा कुटुम्बीजनों का अधिक निकट पाते हैं और नगर की अपेक्षा पड़सियों को अधिक निकट पाते हैं, इत्यादि। अब हमें सबसे अधिक न्याय अपने मन, बुद्धि आदि के प्रति करना होगा। और ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ती जायगी, त्यों-त्यों न्याय प्रेम तथा क्षमा में बढ़ता जायगा। क्योंकि न्याय अपने



प्रति तथा प्रेम तथा क्षमा दूसरों के प्रति करना है। यदि हम ऐसा न करेंगे, तो न तो निर्दोष हो सकेंगे और न निर्द्वैर। यदि हमने अपने मन, बुद्धि के प्रति यथार्थ न्याय किया होता, तो आज मन में अशुद्ध संकल्प ही उत्पन्न न होते और न बुद्धि में अविवेक होता। अविवेक के बिना अशुद्ध संकल्पों में प्रवृत्ति न होती और अशुद्ध संकल्पों में प्रवृत्ति के बिना सदाचार दुराचार में न बदलता। दुराचार के बिना समाज में दोषों का प्रसार न होता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम अपने मन, बुद्धि के प्रति न्याय करने लगे, तो हमारा व्यक्तिगत जीवन ही पवित्र न होगा, बल्कि (प्रत्युत्) समाज में भी पवित्रता का प्रसार होगा। अतः अपने प्रति न्याय करने में अपना तथा समाज दोनों का हित निहित है और न करने से दोनों का अहित है, जो अमानवता है।

अब यदि कोई यह कहे कि सुख-दुख तो जीवन में स्वभाव से ही उपस्थित हैं, इतना ही नहीं आज हमारा सुख हमारे लिए बन्धन बन गया है और दुख ने हमें भयभीत कर दिया है, तो उसका कारण यह है कि हमने अपने प्रति न्याय तथा दूसरों के प्रति क्षमा तथा प्रेम-युक्त भावना से सुख-दुख का सदुपयोग नहीं किया। यदि हम सुख का सदुपयोग सेवा अर्थात्, उदारतापूर्वक और दुःख का सदुपयोग त्याग अर्थात्, विरक्तिपूर्वक करने लग जायँ, तो न तो सुख बन्धन का हेतु रहेगा और न दुख भय का। सच तो यह है कि सुख-दुख भोगने के लिए मानव-जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। उनके सदुपयोग में ही मानव का पुरुषार्थ निहित है।

आज हमारे जीवन में जो भूतकाल की स्मृति और भविष्य की चिन्तन है, जिसके कारण हम एक क्षण भी शान्तिपूर्वक नहीं रह सकते और जो हमारे लिए वर्तमान के अनेक प्रकार के अभावों के दुखों से अधिक दुःख हो गया है, उसका कारण एकमात्र भोगे हुए सुख की वासना और अमुक्त इच्छाओं का दुःख है। इन्हीं से प्राणी व्यर्थ चिन्तन में आवद्ध हो जाता है, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें अलौकिक विवेक के प्रकाश से अविवेक को मिटाना होगा। इसके मिटते ही शरीर से असंगता आ जायगी, जो सुख की दासता को खाकर अमुक्त इच्छाओं से मुक्त कर देगी, और फिर व्यर्थ चिन्तन मिट जायगा और जीवन शान्ति से भर जावेगा।

यह नियम है कि अपने प्रति न्याय करने से निर्दोषता और दूसरों के प्रति क्षमा तथा प्रेम करने से निर्वैरता स्वयं आ जाती है। निर्दोषता से निराभिमानता और निर्वैरता से सभी के प्रति एकता प्राप्त होती है। निराभिमानता आ जाने पर किसी भी दोष की उत्पत्ति नहीं होती और जीवन श्रम, संयम, सदाचार, सेवा तथा त्याग से भरपूर हो जाता है। इतना ही नहीं, जब दोषों की उत्पत्ति नहीं होती, तब गुणों का अभिमान भी गल जाता है। गुण-दोष-रहित जीवन ही वास्तविक मानवता है, जिसके विकसित करने के लिए हमें अपने प्रति न्याय तथा दूसरों के प्रति क्षमा तथा प्रेम करना है। ॐ आनन्द

१०

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव,

मानव-जीवन की जितनी समस्याएँ हैं, वे सब तीन भागों में विभाजित हैं—( १ ) मुक्ति, ( २ ) मुक्ति और ( ३ ) भक्ति ।

मुक्ति का अर्थ है, समाज में यथेष्ट स्थान पाजाना, अर्थात् हमारे संकल्पों की पूर्ति को समाज अपना संकल्प मानने लगे अथवा यों कहो कि हमारे जितने भी संकल्प हों, वे समाज के संकल्प बन जाँय । समाज उन्हें अपने संकल्प मानले । इतनी अभिन्नता जब विश्व के साथ हमारी होजाती है, वम ! तभी भोग के सुख की पराकाष्ठा समझना चाहिये । उच्चकोटि का भोग मिलेगा कब ? जब हमारा जीवन श्रम, मंयम, सदाचार, सेवा, पुण्यकर्म तथा तप से युक्त हो जाय ।

मानव यहीं सन्तुष्ट नहीं हो जाता, इससे आगे वह स्वाधीनता भी चाहता है । हम और आप जहाँ रहते हों, वहाँ कितनी ही सुन्दर परिस्थिति हो, कितनी ही अनुकूलताएँ हों, हम कितने ही सुन्दर कार्य कर रहे हों, मधुर गान सुन रहे हों, अथवा गा रहे हों, सुन्दर-सुन्दर बोल रहे हों, अथवा सुन रहे हों, खा रहे हों, अथवा गिला रहे हों, फिर भी हम और आप उससे स्वाधीन होना चाहते

हैं, उससे ऊपर भी उठना चाहते हैं। यह प्रत्येक का अनुभव है। ऐसी प्रवृत्ति कोई नहीं बता सकता जिसकी निवृत्ति अभीष्ट न हो। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि उत्कृष्ट भोग प्राप्त होने पर भी हम स्वाधीनता चाहते हैं, उन्मी-स्थायी स्वाधीनता का नाम मुक्ति है और मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका सम्बन्ध मानव-जीवन से न हो और जिसे प्राप्त न कर सकें। स्वाधीनता का अर्थ कोई भाई-बहिन मनमानी करने का न मान लें। यह स्वाधीनता का असली अर्थ नहीं है। स्वाधीनता का असली अर्थ है—वासनाओं से राहत होना और यदि कोई संकल्प आनच्छा से अथवा परेच्छा से पूरा भी हो, तो उस संकल्प-पूर्ति के सुख से असंग बना रहना, अर्थात् संकल्प-पूर्ति के सुख में आवद्ध न होना। चाहे पराई इच्छा से हमारे मन की बात पूरी हो जाय, चाहे अपनी इच्छाएँ, अर्थात् मन की बात पूरी हो जाय जब तक हम अपनी इच्छा के पूरी होने का सुख लेते हैं, तब तक हम स्वाधीन नहीं हैं; परन्तु साधारण लोग अपनी इच्छा-पूर्ति के सुख को ही स्वाधीनता मानते हैं; जो वास्तव में पराधीनता है; क्योंकि इच्छा-पूर्ति का सुख पुनः इच्छाओं को उत्पन्न करता है। इतना ही नहीं प्रत्येक इच्छा की पूर्ति के अन्त में प्राणी उसी स्थिति में आ जाता है जिस स्थिति में इच्छाओं की उत्पत्ति से पूर्व था। इस दृष्टि से इच्छाओं की पूर्ति का सुख तो केवल दाद की खुजली के समान है और कुछ नहीं। इच्छा-पूर्ति के सुख से दुख दब जाता है, मिटता नहीं। इसी कारण सच्ची स्वाधीनता के लिए सर्वे इच्छाओं की निवृत्ति करना अनिवार्य हो जाता है। इसी बात को समझने के

लिए आप अपने जीवन में देखिए कि कितनी ही अनुकूलताएँ प्राप्त क्यों न हों, किन्तु आप उन अनुकूलताओं से मुक्त भी होना चाहते हैं। आप अपने इस जीवन को उस ओर ले जाना चाहते हैं, जहाँ आपके साथ और कोई चिपका हुआ न हो और न आप ही किसी से चिपके हुए हों। ऐसे जीवन की माँग आपके और हमारे जीवन में है, अर्थात् मानव-जीवन में है। इस माँग की पूर्ति ही स्वाधीनता है, मुक्ति है। वह मुक्ति कब मिलती है ? मुक्ति मिलती है निर्दोषता या जाने पर। आप कहेंगे कैसे ? आप विचार करें। सुख का जो भोग प्राप्त होता है, उसके भोगने के लिए किसी न किसी दोष को अपना लेना अत्यन्त अनिवार्य हो जाता है।

क्या कोई ऐसा सुख-भोग है जिसका सम्बन्ध देह से न हो ? क्या अपने को देह मान लेना निर्दोषता है ? कदापि नहीं। कारण कि जो मान्यता निजज्ञान के विपरीत होती है, उसे निर्दोष नहीं कह सकते। जब सभी सुखों का भोग अपने को देह मानकर ही होता है और अपने को देह मानना अविवेक है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो अविवेक सभी दोषों का मूल है, उसको अपना लेने से ही सुख-भोग में प्रवृत्ति होती है। अतः सुख-भोग की प्रवृत्ति का कारण किसी न किसी दोष को अपना लेना ही हुआ। यह नियम है कि जिसे हम “यह” कहते हैं, उसे “मैं” नहीं मान सकते। इस दृष्टिकोण से शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा समस्त दृश्य ‘यह’ के अर्थ में आता है, “मैं” के में नहीं। और जब तक ‘यह’ को ‘मैं’ नहीं मान लेते, तब तक किसी भी सुख-भोग की सिद्धि नहीं होती। “यह”

को "मैं" मानना प्रमाद है । अतः सुख-भोग की प्रवृत्ति प्रमाद से होती है, जो सभी दोषों का मूल है । अब यदि कहें कि प्रमाद क्या है और कहाँ से आया ? तो, कहना होगा कि प्रमाद अलौकिक विवेक के अनादर का दूसरा नाम है । वह कहाँ से आया ? जहाँ से ज्ञान का अनादर किया । कब से आया ? जब से ज्ञान का अनादर किया । कब मिटेगा ? जब ज्ञान का आदर करोगे । यह संदेह-कर्त्ता का ही तो ज्ञान है कि 'यह' 'मैं' नहीं हो सकता । किसी और ने सिखाया थोड़ी ही है. प्रश्नकर्त्ता स्वयं अपने ज्ञान का आदर करें और माने हुए का अनादर करें, अर्थात् अपने को जो देह मान लिया है सो न मानें । इसमें भले ही मतभेद हो कि "यह" क्या है ? और "मैं" क्या है ? पर, 'यह' 'मैं' नहीं है, इसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता; क्योंकि यह सभी की अनुभूति है । 'यह' को 'मैं' न मानने पर सभी वासनाओं का त्याग स्वतः हो जाता है । वासनाओं का त्याग होते ही सुख-भोग की आत्मिक मिट जाती है, जिसके मिटते ही इन्द्रिय-लोलुपता जितेन्द्रियता में, स्वार्थभाव सेवा में, राग त्याग में, द्वेष प्रेम में बदल जाता है और निर्दोषता आते ही इन्द्रियाँ अविषय होकर मन में एवं मन निर्विकल्प होकर बुद्धि में विलीन हो जाता है । कारण कि वासना के उत्पत्तिकाल में तो बुद्धि मन में, मन इन्द्रियों में और इन्द्रियाँ विषयों में विलीन होती हैं, जिसे सुख-भोग कहते हैं और जिसका परिणाम पराधीनता, अर्थात् बन्धन है और वासना निवृत्ति काल में, भोग योग में बदल जाता है, जिसका परिणाम स्वाधीनता, अर्थात् मुक्ति है । निर्वासना द्वारा जिस महायोग की प्राप्ति होती है,

उसमें निर्विकल्प स्थिति तथा निर्विकल्प बोध दोनों ही प्राप्त होते हैं । यह योग राग-विराग रहित होने से ही प्राप्त होता है; क्योंकि यह नियम है कि राग रूपी काष्ठ को जलाकर वैराग्य रूपी अग्नि सदा के लिए बुझ जाती है, अर्थात् वैराग्य का अभिमान गल जाता है और फिर जीवन राग-विराग रहित हो जाता है । यह भली-भाँति जान लेना चाहिए कि योग का अभिमान भी कारण शरीर के सम्बन्ध पर ही निर्भर रहता है, पर इस महायोग में तो योग है, योगी नहीं । तभी तो इसमें अनन्त नित्य चिन्मय जीवन से अभिन्नता होती है, जो योन केवल किसी अभ्यास के आधार पर ही प्राप्त होता है, उसमें निर्विकल्प स्थिति होने पर भी निर्विकल्प-बोध नहीं होता है और न योग का अभिमान ही लता है; क्योंकि कारण शरीर के सम्बन्ध से सीमित अहम् भाव जीवित रहता है, जो वास्तव में 'यह' से एक सूक्ष्म सम्बन्ध ही है । प्रत्येक साधक को यह भलीभाँति समझ लेना चाहिये कि कोई अवस्था किसी अवस्था की अपेक्षा भले ही उत्कृष्ट हो, सभी अवस्थाएँ 'यह' की ही होती हैं, उसकी नहीं जो 'यह' नहीं है । अतः 'यह' से असंग होने के लिए सभी अवस्थाओं से संबन्ध-विच्छेद करना होगा, तभी निर्वासना आयेगी, जो निदोषता है, और जिससे स्वतः महायोग की प्राप्ति होती है ।

अब यदि कोई कहे कि हम तो भौतिकवादी हैं, हम ऐसी मुक्ति नहीं चाहते जो संसार से अतीत है, तो कहना होगा कि आप संसार से अतीत मुक्ति तो नहीं चाहते, पर क्या आप स्वाधीनता नहीं चाहते ? तो, सभी भाई-बहिनों को मानना होगा कि

स्वाधीनता तो हम सबको प्रिय है । भौतिक-वादी की दृष्टि से स्वाधीनता का अर्थ यही हो सकता है कि हम सब के अधिकार सुरक्षित रहें । यह नियम है कि किसी का अधिकार किसी का कर्त्तव्य होता है । अतः हमारे अधिकारों की रक्षा किसी और के कर्त्तव्यों पर निर्भर होगी, तो हमारी स्वाधीनता का अर्थ हुआ दूसरे की कर्त्तव्य-परायणता । अब यदि हम विचार करें, तो यह स्पष्ट होजाता है कि जिनके द्वारा अधिकारों की रक्षा होती है. वे भले ही स्वाधीन हों, पर जो अपने-अपने अधिकार सुरक्षित कराना चाहते हैं. वे तो उनके आधीन हो जाते हैं, जो कर्त्तव्यनिष्ठ हैं । अतः भौतिकवाद की दृष्टि से भी कर्त्तव्य-परायणता का दूसरा नाम स्वाधीनता हुआ । यह नियम है कि कर्त्तव्य-परायणता आजाने पर कर्त्ता अपने इस अभीष्ट में विलीन होजाता है, जो उसका लक्ष्य था । इस दृष्टि से कर्त्तव्यनिष्ठ प्राणी की अहमता उनमें विलीन होजागी, जिनके अधिकारों की रक्षा उनके द्वारा हुई थी । व्यक्ति और समाज का विभाजन हो नहीं सकता, क्यों कि दोनों की जातीय एकता है । इस दृष्टि से समाज का अधिकार ही व्यक्ति का कर्त्तव्य है । अतः कर्त्तव्य-निष्ठ व्यक्ति समाज से, अर्थात् यह से अभिन्न हो जायगा । 'यह' स्वभाव से सतत परिवर्तन-शील है । अतः भौतिकवादी की मुक्ति सतत परिवर्तन में विलीन होजायगी । सतत परिवर्तन का ज्ञान हमें अनन्त नित्य चिन्मय की लालसा जागृत करता है । यह नियम है कि नित्य लालसा उसी की जागृत होती है, जिससे जाती या स्वरूप की एकता हो । लालसा उसे नहीं कहते, जो मिटाई जासके । जो



मिट्टाई जा सके, उसे तो वामना कहते हैं। लालसा उसे भी नहीं कहते, जिसकी पूर्ति न हो। अतः लालसा की पूर्ति अनिवार्य है। इस से यह सिद्ध हुआ कि भौतिकवादी को भी कालान्तर में अपनी लालसा की पूर्ति करनी होगी।

हाँ, यह अवश्य है कि स्वाधीनता, अर्थात् नित्य मुक्ति की लालसा से वे प्राणी नहीं जान पावे, जो कर्त्तव्य निष्ठ नहीं हैं, अर्थात् जिन्होंने दूसरों के अधिकार की रक्षा न की हो। अथवा यों कहो कि जो समाज के ऋणी है, जो समाज के ऋणी नहीं हैं उसमें सभी वस्तुओं, परिस्थितियों एवं अवस्थाओं से अतीत जीवन की लालसा अवश्य जागृत होगी। भौतिकवाद भी मानव-जीवन का एक अंग है, समस्त जीवन नहीं। यह नियम है कि भौतिकवाद की पराकाष्ठा स्वतः अध्यात्मवाद को जन्म देती है और अध्यात्मवाद की पराकाष्ठा पर प्रेम-प्रदान करने में समर्थ है, जो वास्तव में मानव-जीवन है।

यह सभी को भलीभाँति जान लेना चाहिये की वास्तविक स्वाधीनता किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा नहीं मिलती, उसे तो स्वाधीनता का पुजारी स्वयम् साधन करके प्राप्त कर सकता है। हाँ, यह अवश्य है कि स्वाधीनता उसकी निम्नी विभूति है; क्योंकि उससे उसके स्वरूप की एकता है। स्वाधीनता के अभिलाषी को अपने बन्धनों को जान लेना चाहिए। ऐसा कोई बन्धन नहीं है जिसे वह स्वयं नहीं जानता। इतना ही नहीं, सच तो यह है कि वह बन्धन के कारण को भी जानता है। क्या हम उस ही में नहीं बँध जाते, जिसे अपना मान लेते हैं ? क्या कोई ऐसा भी बन्धन है, जो बिना

ममता के हो गया हो १ हम उसी व्यक्ति, वस्तु आदि में बँध जाते हैं, जिन्हें हम अपना मान लेते हैं। वस्तु, व्यक्तियों को अपना मान लेने का कारण अल्प ज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान को अपना लेना है, जिसका कारण एकमात्र अलौकिक विवेक का अनादर करना है। मिथ्या ज्ञान से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं और दोषयुक्त जीवन ही बन्धन का कारण है। जैसे, मोह के दोष से व्यक्तियों का बन्धन, लोभ के दोष से वस्तुओं का बन्धन एवं काम के दोष से अनेक प्रकार के अभावों का बन्धन। व्यक्ति और वस्तु के बन्धन से रहित होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका विनाश किया जाय। वस्तुओं के बन्धन से रहित होकर वस्तुओं का सदुपयोग करना और व्यक्तियों के बन्धन से रहित होकर व्यक्तियों की सेवा करना है। वस्तुओं के सदुपयोग से समाज की दरिद्रता मिट जाती है और अपने में निर्लोभता आ जाती है। व्यक्तियों की सेवा से समाज में स्नेह-संचार हो जाता है और अपने में निर्लोभता आ जाती है। निर्लोभता आ जाने से वस्तुओं से अतीत के जीवन का बोध हो जाता है और निर्लोभता आ जाने से परं प्रेम प्राप्त होता है।

यदि हम अपने बनाए हुए दोषों का अन्त कर दें, तो और कोई हमें दोषी नहीं बना सकता, इससे यह सिद्ध हुआ कि हम स्वयं ही अपने बन्धन के कारण हैं। समाज हम से अपने अधिकार की रक्षा चाहता है। चाहे हम उसे अपना मानकर उसके अधिकार की रक्षा करें अथवा बिना माने। अपना मानने से हम बँध जाते हैं और अपना बिना माने मुक्त हो जाते हैं, यह नियम है। अतः यह

स्पष्ट हो जाता है कि संसार की तो केवल सेवा करनी है और उसको अपना मानने से न तो अपना कोई लाभ होता है और न संसार का। जो संसार की सेवा तो करते हैं, पर उसे अपना नहीं मानते, वे ही मुक्त हैं। संसार भी उन्हीं को आदर देता है और उन्हीं की आवश्यकता अनुभव करता है। जो संसार के अधिकार की रक्षा नहीं करता, उसे संसार कभी नहीं चाहता। संसार की सेवा का अर्थ है संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार के भेंट कर देना, अथवा यों कहो कि ईमानदार हो जाना, जो वास्तव में मानवता है। कर्त्तव्य-परायणता तथा निज विवेक का आदर ही हमें निर्दोष बनाता है, और निर्दोष जीवन ही मुक्त जीवन है।

निर्दोष जीवन प्राप्त करने के लिए हमें सबसे प्रथम इन्द्रिय-जन्य ज्ञान पर बुद्धि जन्य ज्ञान से विन्यत करनी होगी। ऐसा करने से राग विराग में और भोग योग में वदन्त जायगा, और फिर अलौकिक विवेक जो निज ज्ञान है, उसके आदर करने की सामर्थ्य आ जायगी। अथवा यों कहो कि उससे अभिन्नता हो जायगी और फिर किसी प्रकार का राग शेष नहीं रहेगा; कारण सभी दोषों का जन्म निज ज्ञान के अनादर से ही होता है। जैसे, जब तक हम अपने को देह से अभेद नहीं कर लेते, तब तक किसी भी वासना का उदय नहीं होता। यह सभी को मान्य होगा कि वासना रहित होने पर किसी भी दोष का जन्म सम्भव नहीं है।

देह से सम्बन्ध विच्छेद करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि जिन प्रवृत्तियों के बिना हम किसी भी प्रकार नहीं रह

सकते, उन प्रवृत्तियों को साधन-बुद्धि के सही ढंग से करना होगा। साधनबुद्धि से हमारी प्रवृत्ति तभी हो सकेगी, जब सुख बुद्धि को त्याग हित-बुद्धि से प्रेरित होकर दैनिक सभी आवश्यक कार्य करें। यह नियम है कि सही प्रवृत्ति से सहज निवृत्ति स्वतः आ जाती है, जिसके आने पर साधक सुगमतापूर्वक अपने लक्ष्य से अभिन्न हो जाता है।

सही प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का अभिमान गल जाने पर साधक अपने को अपने प्रेमास्पद से अभिन्न पाता है अथवा यों कहो कि प्रेमास्पद की प्रीति हो जाता है, अर्थात् प्रीति और प्रीतम से भिन्न कुछ भी शेष नहीं रहता।

निर्दोषता आने पर निर्वैरता स्वतः आ जाती है, निर्दोषता से मुक्ति और निर्वैरता से भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। कारण कि मुक्त वही है, जिसने सभी माने हुए सम्बन्ध कर्त्तव्य-परायणता तथा विवेक पूर्वक त्याग कर दिए हैं, अर्थात् समाज के अधिकारों की पूर्ति कर दी है और अपने अधिकार का त्याग कर दिया है। क्योंकि ऐसा करने से अचाह-पद प्राप्त होता है, अर्थात् इच्छाओं की निवृत्ति और आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और फिर कोई बन्धन शेष नहीं रहता।

बन्धन रहित हाते ही समस्त जीवन एकमात्र प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। यह नियम है कि इच्छाओं की निवृत्ति होती है। जिज्ञासा की पूर्ति और प्रेम की उत्पत्ति होती है, उसकी पूर्ति नहीं होती। इच्छाओं की निवृत्ति से योग और जिज्ञासा की पूर्ति से मुक्ति एवं प्रेम की उत्पत्ति से भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। योग से सामर्थ्य, मुक्ति से अमर जीवन, भक्ति से अगाध अनन्त रस पैदा होता है, जो मानवता है। ॐ आनन्द

११

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

आपकी सेवा में कल निवेदन किया था कि निर्दोष जीवन ही मुक्त जीवन है और निर्वैर जीवन ही आस्तिक जीवन है अथवा यों कहिये, मुक्त जीवन ही आस्तिक जीवन हो सकता है; क्योंकि निर्दोषता के बिना निर्वैरता नहीं आती और निर्वैरता के बिना द्वेष की निवृत्ति नहीं होती और द्वेष की निवृत्ति के बिना प्रेम की प्राप्ति नहीं होती और प्रेम की प्राप्ति के बिना भक्ति नहीं होती ।

यह सब ही को मान्य है कि सभी दोष देहाभिमान से ही होते हैं; कारण कि देहाभिमान प्राणी में वासनाएँ उत्पन्न कर देता है । यह नियम है कि वासना-पूर्ति के सुख से राग स्वतः उत्पन्न होता है और उस सुख में जो बाधक होता है, उससे द्वेष हो जाता है । द्वेष प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होने देता; क्योंकि जीवन में निर्वैरता नहीं आती । यदि विवेक के प्रकाश से देहाभिमान मिट जाय, तो सभी दोष मिट जाते हैं और निर्वासना अपने आप आ जाती है और फिर किसी प्रकार का राग शेष नहीं रहता । राग के बिना द्वेष उत्पन्न ही नहीं होता । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वेष मिटाने के लिये राग का मिटाना अनिवार्य है । इस दृष्टि से जहाँ निर्दोषता है, वहाँ

निर्वरता है। यह सम्भव ही नहीं हो सकता कि कोई निर्दोष हो और निर्वर न हो अथवा यों कहो कि जो मुक्त है, वह भक्त अवश्य है।

प्रेम का प्रादुर्भाव होने के लिये आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हृदय में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का लेप-मात्र भी वैर-भाव न हो। कारण कि वैर-भाव रहते हुये प्रीति की जागृति हो ही नहीं सकती; क्योंकि जो किसी का भी बुरा चाहता है, वह प्रेम कर ही नहीं सकता। किसी का बुरा वह नहीं चाहता, जो वैर-भाव से रहित हो; क्योंकि वैर-भाव भेद उत्पन्न कर देता है। यह नियम है कि भेद प्राणी को सीमित बना देता है अथवा यों कहो कि उस अनन्त से विमुक्त कर देता है। जो सभी का अपना मानता है, उसके जीवन में किसी से भेद उत्पन्न नहीं होता और जो किसी को अपना नहीं मानता, उसके जीवन में भी भेद उत्पन्न नहीं होता। जो सभी का अपना मानता है, वह भक्त है और जो किसी को अपना नहीं मानता, वह मुक्त है। यह नियम है कि जो किसी का अपना नहीं मानता, वह सभी को अपना मानता है और जो सभी को अपना मानता है, वह किसी को अपना नहीं मानता। जैसे, यदि हम सभी का अपना मान लें, तो ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जब कि अभावों से हम पीड़ित न हों, पर ऐसा जीवन में तो नहीं होता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी का अपना मान लेने पर कोई अपना नहीं रहता। यदि कोई किसी को भी अपना नहीं माने, तो अपने शरीर इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि से भी अपनापन नहीं रहता। ऐसा होने पर भी अपनापन या ता मित जाता है या विभु हो जाता है। अतः

यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी को अपना न मानना अथवा सभी को अपना मानना एक ही बात है। इसी कारण विचारशील सुख-भोग के लिये किसी को अपना नहीं मानते और सेवा करने के लिये सभी को अपना मानते हैं। अपने सुख के लिये किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, यह ही तो मुक्ति है। और, सब ही के हित में रति है, यह ही तो भक्ति है। वह तभी सम्भव है, जब जीवन वासनाओं से रहित हो और निर्बेर हो।

यदि कोई यह कहे कि मुक्ति तथा भक्ति से हमें विमुख किसने किया है, तो कहना होगा कि जब हम उन्हें अपना मान लेते हैं जो हमें अपना नहीं मानते, तभी हम मुक्ति तथा भक्ति से विमुख हो जाते हैं। गहराई से विचार करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सब ही वस्तुएँ जिन्हें हम अपना कहते हैं, वे कभी हमें अपना नहीं कहतीं। क्या कोई भी भाई-बहिन यह कह सकते हैं कि शरीर ने कभी कहा हो कि मैं तुम्हारा हूँ ? अथवा किसी और वस्तु ने कहा हो कि मैं तुम्हारी हूँ। इतना ही नहीं, समस्त संसार भी तुम्हारे पास शरीरादि जो वस्तुएँ हैं भले ही उन्हें अपना कहे, पर उन वस्तुओं से अलग तुम्हें कोई अपना नहीं कहता। पर, फिर भी हम शरीरादि वस्तुओं को अपना मानते हैं। यह हमारी भूल नहीं तो क्या है ? इस भूल से ही हम उन्हें अपना नहीं कह सके, जो वास्तव में हमारे अपने हैं अथवा यों कहो, जिनसे हमारी स्वरूप की एकता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि हम को हम से अथवा जो हमारे हैं उनसे विमुख करने में एक-मात्र हमारा ही प्रमाद कारण है।

यह सब ही को मान्य होगा कि शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि का सम्बन्ध समस्त संसार से है; क्योंकि संसार से इनकी जातीय एकता है। जिन वस्तुओं की संसार से जातीय एकता है, यदि उनको उसी की सेवा में समर्पित कर दिया जाय, तो वही ही सुगमता-पूर्वक निर्यतरता प्राप्त हो सकती है। कारण कि वैर-भाव तब ही उत्पन्न होता है, जब संसार को शरीर की सेवा में लगाना चाहते हैं। उसी का दूमेरा नाम स्वार्थ-भाव हो जाता है, जो वैर-भाव को पुष्ट करता है। उस स्वार्थ-भाव को मिटाने के लिये ही सेवाभाव की जागृति करना अनिवार्य हो जाता है। सेवा का अर्थ किसी के अभाव की पूर्ति करना नहीं है। क्योंकि जब समस्त संसार एक व्यक्ति के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता, तो चेचारा व्यक्ति संसार की पूर्ति कैसे कर सकता है ? सेवा-भाव का अर्थ है, सुख-भोग की आसक्ति का त्याग; प्राप्त योग्यता तथा वस्तुओं आदि का दुखियों को वितरण कर देना अथवा यों कहो कि संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार को वापिस कर देना। ऐसा करते ही साधक सब ही वन्धनों से मुक्त हो जाता है। और, फिर जो अर्धन्त सर्वत्र-सर्वदा सभी में विद्यमान है, उससे अभिन्न हो जाता है अथवा उसकी प्रीति हो जाता है, जो वास्तव में मुक्ति तथा भक्ति है।

यह भली-भांति जान लेने पर कि शरीर से हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकता नहीं है, यह प्रथम स्वभावतः उत्पन्न होता है कि हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकता किससे है ? उस प्रश्न को हल करने के लिये हमें अलौकिक विवेक के प्रकाश में जिमने जातीय



तथा स्वरूप की एकता नहीं है, उससे अपने को विमुख करना होगा। स्थूल शरीर से विमुख होते ही अशुभ कर्म की निवृत्ति हो जायगी और शुभ कर्म से उत्पन्न होने वाले सुख की आसक्ति न रहेगी। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर से विमुख होते ही निरर्थक चिन्तन मिट जायगा और सार्थक चिन्तन अचिन्तता में विलीन हो जायगा। अचिन्तता आते ही कारण शरीर से विमुख होने की शक्ति स्वतः आ जायगी और देहाभिमान अपने आप गल जायगा। और, फिर जिमसे स्वरूप की एकता है, उससे अभिन्नता हो जायगी और जिससे जातीय एकता है, उसकी प्रीति उदय हो जायगी। स्वरूप की एकता से मुक्ति और प्रीति के उदय से भक्ति स्वतः हो जाती है।

अब कोई कहे कि क्या भक्ति और मुक्ति अलग-अलग है ? तो, कहना होगा कि तत्त्व-रूप से तो दोनों एक हैं, पर दोनों के रस में भेद है। मुक्ति में अखण्ड एक रस और भक्ति में अखण्ड अनन्त रस है। क्यों कि मुक्ति तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति से और भक्ति प्रीति के उदय से होती है। यह नियम है कि प्रीति का उदय तो होता है, किन्तु पूर्ति नहीं होती। इस कारण प्रीति का रस अनन्त है, नित नव है और तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति होती है, इस कारण मुक्ति का रस अखण्ड एक रस है। पर, यह नियम है कि तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति के बिना प्रीति का उदय ही नहीं होता। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि भोग-इच्छा की निवृत्ति और तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति प्रेम-प्राप्ति के लिये अनिवार्य है।

माने ह्ये मन्वन्धो का न्याग हो जाने पर नित्य मन्वन्ध

का बोध स्वतः हो जाता है और फिर उसी के नाते प्रत्येक प्रवृत्ति स्वतः होने लगती है; परन्तु प्रवृत्तियों के भेद होने से रस का भेद नहीं होता, कारण कि परिस्थिति भेद से प्रवृत्तियों का भेद होना तो अनिवार्य है, किन्तु सब ही प्रवृत्तियों के मूल में स्नेह तथा लक्ष्य की एकता है, इस कारण हम में भेद नहीं होता। इतना ही नहीं सब कुञ्ज होने पर जो रस रहता है, वही रस कुञ्ज न होने पर भी रहता है, क्योंकि समस्त जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। रस एक-मात्र प्रीति में ही है, किसी प्रवृत्ति तथा निवृत्ति में नहीं। प्रीति-रहित प्रवृत्ति आसक्ति बन सकती है, रस प्रदान नहीं कर सकती। और प्रीति-रहित निवृत्ति जड़ता तथा अभाव को सिद्ध कर सकती है, रस प्रदान नहीं कर सकती है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि प्रीति के बिना प्रवृत्ति तथा निवृत्ति निरर्थक ही है अथवा अभावमूलक अथवा अनेक बन्धनों का हेतु है, जो वास्तव में असमान्यता है।

अब कोई यह कहें कि रस तो सुख-भोग में भी होता है, तो कहना होगा कि सुख-भोग का रस नीरसता तथा जड़ता, शक्तिहीनता आदि दोषों में बदल जाता है और उसका आरम्भ भी किसी नीरसता तथा अभाव से ही होता है। जिसका आरम्भ अभाव, जड़ता तथा पराधीनता से और जिसके अन्त में भी अभाव, जड़ता तथा पराधीनता है, केवल लक्ष्य में जो रस की प्रतीति है, वह वास्तव में रस नहीं है, रस का भास है। कारण कि वास्तव्युक्ति की आत्मा तथा प्रवृत्ति आसक्ति-रहित दशा में बदल जाती है। इस दशा

किया जाता है। वही प्रकार हमने जो अपने में उनके प्रकार के माने हुए संवन्ध स्वीकार कर लिए हैं, यद्यपि उनसे जातीय तथा स्वरूप की एकता नहीं है, हमें आलोचिक विवेक के प्रकाश में उन्हें ही से मुक्त होना है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अहम् तथा मम रूप जो सम्बन्ध हैं, उससे मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति के लिए इसके आतिरिक्त और कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं है। जिसकी प्राप्ति संवन्ध-विच्छेद करने मात्र से होती है, उसके लिए संविषय की आशा करना प्रमाद के आतिरिक्त और कुछ नहीं है। कारण कि संविषय की आशा उसके लिए की जाती है, जिसके लिए कोई कर्म अपेक्षित हो। यह नियम है कि कर्म उसी के लिए अपेक्षित होता है, जिससे देशकाल की दृष्टि हो अथवा जो व्यपत्ति विनाशयुक्त हो। मुक्ति किसी ऐसे तत्त्व की ओर नहीं ले जाती है जो सर्वत्र-सर्वत्र न हो अथवा जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता न हो। अतः मुक्ति का अभिलषणी तब मुक्त होना चाहे, तभी हो सकता है। मुक्त होने में कोई साधु-बहिर्न पराधीन नहीं है, परन्तु वन्दन सुखित रखने में सब ही पराधीन हैं अथवा यों कहो कि वन्दन सुखित रख ही नहीं सकता। अब यदि कोई यह कहे कि फिर हम लोग मुक्त क्यों नहीं हो जाते, तो कहना होगा कि मुक्त वह ही नहीं हो पाते, जो मुक्त होना नहीं चाहते। यदि यह कहा जाय कि स्वाधीनता स्वभावतः सब ही को प्राप्त है, अतः मुक्त होना सब ही चाहते हैं, यह क्यों न मान लिया जाय, तो कहना होगा कि हम मुक्ति चाहते हुए भी सुख-भाग की आसक्ति को सुखित रखना चाहते हैं। तब तक दो चाहें, तब तक यह कहना कि हम केवल



१२

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

प्रेम के साम्राज्य में किसी प्रकार की जड़ता नहीं है और न भौतिकता ही है। वह तो दिव्य चिन्मय तत्त्व है। इस प्रेमयुक्त जीवन का नाम ही वास्तव में भक्तिरस है, जो निर्दोषतापूर्वक निर्वैर होने से सभी को सुगमतापूर्वक प्राप्त हो सकता है। कारण कि जिस से अपनी जातीय तथा स्वरूप की एकता है, उसकी प्राप्ति में हम सब स्वाधीन हैं और जिससे मानी हुई एकता है, उसकी निवृत्ति में हम सब स्वाधीन हैं। मानी हुई एकता की जो निवृत्ति है, उसी का नाम वास्तव में मुक्ति है और जातीय एकता की जो प्रीति है, उसी का नाम भक्ति है। जातीय एकता की प्रीति की साधना है, मानी हुई एकता की निवृत्ति। इस दृष्टि से मुक्ति बड़े ही महत्त्व की वस्तु है।

प्रत्येक साधक को यह भलीभाँति समझ लेना चाहिए कि मुक्ति उसी से सम्भव है, जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता नहीं, अर्थात् भिन्नता है और प्रीति उसी से संभव है जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता हो, अर्थात् अभिन्नता हो। जिस प्रकार वस्त्र वस्त्रत्व से मुक्त नहीं होता, अपितु वस्त्र में जो मलीनता आ जाती है उसी को भिन्न-भिन्न प्रकार के साधनों से मुक्त किया जाता है, अर्थात् शुद्ध

किया जाता है। उसी प्रकार हमने जो अपने में अनेक प्रकार के माने हुए संबन्ध स्वीकार कर लिए हैं, यद्यपि उनसे जातीय तथा स्वरूप की एकता नहीं है, हमें अलौकिक विवेक के प्रकाश में उन्हीं से मुक्त होना है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अहम् तथा मम रूप जो सम्बन्ध है, उससे मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति के लिए इसके अतिरिक्त और कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं है। जिसकी प्राप्ति संबन्ध-विच्छेद करने मात्र से होती है, उसके लिए भविष्य की आशा करना प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कारण कि भविष्य की आशा उसके लिए की जाती है, जिसके लिए कोई कर्म अपेक्षित हो। यह नियम है कि कर्म उसी के लिए अपेक्षित होता है, जिससे देशकाल की दूरी हो अथवा जो उत्पत्ति विनाशयुक्त हो। मुक्ति किसी ऐसे तत्त्व की ओर नहीं ले जाती है जो सर्वत्र-सर्वदा न हो अथवा जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता न हो। अतः मुक्ति का अभिलाषी जब मुक्त होना चाहे, तभी हो सकता है। मुक्त होने में कोई भाई-बहिन पराधीन नहीं है, परन्तु बन्धन सुरक्षित रखने में सब ही पराधीन हैं अथवा यों कहो कि बन्धन सुरक्षित रह ही नहीं सकता। अब यदि कोई यह कहे कि फिर हम लोग मुक्त क्यों नहीं हो जाते, तो कहना होगा कि मुक्त वह ही नहीं हो पाते, जो मुक्त होना नहीं चाहते। यदि यह कहा जाय कि स्वाधीनता स्वभावतः सब ही को प्रिय है, अतः मुक्त होना सब ही चाहते हैं, यह क्यों न मान लिया जाय, तो कहना होगा कि हम मुक्ति चाहते हुए भी सुख-भोग की आसक्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जब तक दो चाह हों, तब तक यह कहना कि हम केवल

मुक्ति चाहते हैं, अपने को धोखा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

अब यदि कोई पूछे कि सुख-भोग की लालसा मिटाने का सुगम उपाय क्या है ? तो, विचार यह करना होगा कि सुख-भोग की उत्पत्ति कत्र होती है ? यह मानना होगा कि कामना के पूर्तिकाल में ही सुख की प्रतीति होती है, इसके अतिरिक्त सुख की और कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। कामनापूर्ति का प्रश्न ही तब उत्पन्न होता है, जब कामना की उत्पत्ति हो। सब ही कामनाओं का जन्म तब होता है, जब हम उससे सम्बन्ध जोड़ते हैं, जिससे हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकता नहीं है, अर्थात् भिन्नता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो अपने से भिन्न है, उससे अभिन्नता स्वीकार कर लेने पर कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यदि उससे भिन्नता स्वीकार करली जाय, तो सभी कामनाएँ स्वतः निवृत्त हो जाती हैं और फिर कामना-पूर्ति, अर्थात् सुख-भोग का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस दृष्टिकोण से सुख-भोग की लालसा मिटाने का उपाय एक-मात्र कामनाओं की निवृत्ति है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कामनाओं की निवृत्ति का उपाय क्या है ? जैसा कि ऊपर कहा गया है, सभी कामनाओं की उत्पत्ति का कारण अविवेक है। अविवेक की निवृत्ति एक-मात्र विवेक के आदर से हो सकती है, परन्तु विवेक का आदर करने की सामर्थ्य उन्हीं प्राणियों में आती है जो अपना प्राप्त सुख दुःखियों की सेवा में लगा देते हैं और अपने सुख को दुःखियों की ही देन मानते हैं, कारण कि अपने से दुःखी को देख कर सब ही को सुख प्रतीत होने

लगता है। जिसके दर्शनमात्र से हम अपने को सुखी मानने लगते हैं, क्या उसकी सेवा करना हमारा कर्त्तव्य नहीं है ? अर्थात्, अवश्य है। यह नियम है कि जिनके द्वारा हमें सुख की प्रतीति हुई अथवा जिनको हमने अपना मान लिया है, यदि प्राप्त सुख के द्वारा उदारता-पूर्वक विना प्रत्युपकार की आशा के उनकी सेवा कर दी जाय, तो हम वड़ी ही सुगमतापूर्वक सुख की आसक्ति तथा सुख के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं, एवं जिनको अपना मान लिया था उनके बन्धन से भी मुक्त हो जाते हैं।

सुखभोग की लालसा मिटते ही मुक्ति की अभिलाषा पूर्ण-रूप से स्वतः जागृत होती है। जिस प्रकार सूर्य का उदय और अन्धकार की निवृत्ति युगपद है, अर्थात् एक साथ हो जाती है, उसी प्रकार मुक्ति की अभिलाषा की पूर्ण जागृति तथा बन्धन की निवृत्ति युगपद है, अर्थात् एक साथ हो जाती है।

विजातीय से मुक्त होना ही वास्तव में मुक्ति है; क्योंकि भिन्नता उसी से हो सकती है, जिससे जातीय तथा स्वरूप की भिन्नता है। इस से यह सिद्ध हुआ कि अपने में से विजातीयता का निकल जाना ही मुक्त हो जाना है।

यह नियम है कि जिससे जितनी अभिन्नता होती है, उससे उतनी ही प्रीति होती है। अतः जिससे पूर्ण अभिन्नता है, उससे ही वास्तविक प्रीति सम्भव है, अर्थात् प्रेम भी भिन्न से नहीं होता और मुक्ति में भिन्न का अस्तित्व ही नहीं रहता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ वास्तविक मुक्ति है, वहीं पूर्णभक्ति है। भक्ति और मुक्ति



का विभाजन नहीं किया जा सकता । उन दोनों में से किसी एक की प्राप्ति होने पर दोनों की प्राप्ति हो जाती है ।

• जिन साधकों के जीवन में सन्देह की वेदना होती है, वे जिज्ञासु होते हैं और जो निसन्देह होते हैं, वे भक्त होते हैं ।

भक्त मान कर चलता है और जिज्ञासु विना जाने नहीं मानता । दोनों की साधना में भले ही भेद हो, किन्तु साध्य में भेद नहीं होता, क्योंकि सत्य में कल्पना-भेद होने पर भी तत्त्व-भेद नहीं होता ।

प्रत्येक साधक के जीवन में किसी न किसी अंश में विश्वास तथा किसी न किसी अंश में संदेह विद्यमान रहता है । परन्तु, किसी में विश्वास की प्रधानता रहती है और किसी में संदेह की । जिनमें विश्वास की प्रधानता होती है, वे अपने लक्ष्य को मान लेते हैं और जिनमें संदेह की प्रधानता रहती है, वे अपने लक्ष्य को जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं ।

संदेह की वेदना ज्यों-ज्यों सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों संदेहनिवृत्ति की शक्ति स्वतः आने लगती है । जिस काल में जिज्ञासु लेशमात्र भी संदेह सहन नहीं कर सकता, उसी काल में सन्देह की निवृत्ति हो जाती है ।

संदेह किसी मान्यता पर नहीं होता । संदेह की उत्पत्ति प्रतीति पर होती है । अतः जिज्ञासु की साधना का आरम्भ “यह” जो कुछ इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि से प्रतीत होता है, क्या है, इससे होता है, अथवा “मैं” क्या हूँ, इससे होता है । इन दोनों में से, अर्थात्

यह और मैं किसी भी एक के जान लेने पर दोनों का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इन दोनों में प्रथम किस को जानने का प्रयत्न किया जाय ? यह प्रत्येक साधक की अपनी रुचि पर निर्भर है कि वह जिस पर चाहे विचार करे। इस के लिए कोई बन्धन नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य है कि “यह” के प्रति जो मान्यता है अथवा ‘मैं’ के प्रति जो मान्यता है, उसका त्याग करना अनिवार्य होगा। कोई भी मान्यता किसी कर्त्तव्य की सूचक भले ही हो, किन्तु वास्तविकता का बोध कराने में समर्थ नहीं है। जब साधक का निज विवेक बल से ‘यह’ और ‘मैं’ की मान्यता को निकाल देता है, तब ‘यह’ और ‘मैं’ का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। कारण कि माने हुए ‘मैं’ से ही माने हुए मेरे का सम्बन्ध स्थापित होता है; क्योंकि कि ‘अहम्’ के अनुरूप ही ‘मम’ की प्रतीति होती है और फिर उसी के अनुरूप ‘अहम्’ की ‘मम’ में प्रवृत्ति होती है, तथा प्रवृत्ति के अनुसार ही राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है।

राग-द्वेष की दृढ़ता ही अहम् और मम के सम्बन्ध सुरक्षित रखने में समर्थ है—जब राग त्याग से और द्वेष प्रेम से मिट जाता है, तब अहम् और मम का सम्बन्ध शेष नहीं रहता। ‘अहम्’ और ‘मम’ का सम्बन्ध टूटते ही जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है, उससे अभिन्नता हो जाती है। यह ही जिज्ञासु की साधना की परावधि है, अथवा यों कहो कि जब जिज्ञासु अलौकिक विवेक के प्रकाश में यह और मैं की मान्यता को अस्वीकार कर देता है, तब निर्वासना और निवृत्ति मृतः आ जाती है; क्योंकि जब

तक हम अपने को कुछ मान नहीं लेते, तब तक वासना की उत्पत्ति ही नहीं होती और जब तक किसी को अपना नहीं मान लेते, तब तक प्रवृत्ति का आरम्भ ही नहीं होता। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि 'यह' और 'मैं' के प्रति जो मान्यता है, उसके अन्त होने पर निर्वासना तथा निवृत्ति स्वतः आ जाती है, जो जिससे हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकता है, उससे अभिन्नता कराने में समर्थ है।

जब विश्वासी साधक अपने अनेक विश्वासों को एक विश्वास में और अनेक सम्बन्धों को एक सम्बन्ध में तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के चिन्तनों को एक चिन्तन में विलीन कर देता है, तब एक पर ही विश्वास, एक में ही सम्बन्ध और एक ही का चिन्तन स्वतः होने लगता है—अर्थात् प्रेमास्पद से भिन्न किसी अन्य का चिन्तन शेष नहीं रहता।

ज्यों-ज्यों प्रेमास्पद का चिन्तन सबल तथा स्थायी होता जाता है, त्यों-त्यों प्रेमास्पद से भिन्न का अस्तित्व स्वतः मिटता जाता है; क्योंकि एक का स्मरण अन्य का विस्मरण कराने में समर्थ है।

विश्वासी भक्त को 'यह' अर्थात् जो इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि से प्रतीत हो रहा है, वह मेरे प्रभु का है, और किसी का नहीं, उम्र भाव की दृढ़ता होती जाती है। ज्यों-ज्यों उम्र भाव की दृढ़ता होती जाती है, त्यों-त्यों उसके मन में स्वार्थभाव तथा 'यह' का राग मिटता जाता है। जिस काल में स्वार्थभाव तथा 'यह' का राग समाप्त हो जाता है, उर्ना काल में यह जो कुछ है, उम्रमें अपने प्रीतम का ही दर्शन होने लगता है। जब प्रीति उर्ना बढ़ जाती है कि विश्वासी

का अपना अस्तित्व भी प्रीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता, अर्थात् जब विश्वासी स्वयं प्रीति हो जाता है, तब उसे प्रीतम से भिन्न और कुछ है ही नहीं ऐसा अनुभव होता है, अर्थात् सर्वत्र प्रीतम ही प्रीतम है। यह ही भक्त की साधना की परावधि है।

विजातीयता से मुक्त हो जाना ही मुक्ति और जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है, उससे प्रेम ही भक्ति है। विजातीय से सम्बन्ध स्वीकार करने पर ही पराधीनता और अनेक प्रकार के अभाव उत्पन्न होते हैं। सम्बन्ध-विच्छेद करते ही पराधीनता स्वाधीनता में बदल जाती है और सभी अभावों का अभाव हो जाता है यह ही मुक्ति है। विजातीय सम्बन्ध ने जो स्वाभाविक प्रीति को अनेक आसक्तियों में बदल दिया था, वह आसक्ति भी मिट जाती है। उसके मिटते ही स्वतः प्रेम का उदय होता है, जो वास्तव में भक्ति है। इस दृष्टि से भक्ति और मुक्ति दोनों ही समान हैं, भले ही उन दोनों की साधनाओं में भेद हो। साधना का भेद साधक की दृष्टि से होता है, सिद्धान्त की दृष्टि से नहीं। भक्ति और मुक्ति के द्वारा जिस अनिर्वचनीय सत्य की उपलब्धि होती है, उसमें अनन्त विभूतियाँ हैं, कारण कि वह अनन्त नित्य चिन्मय है। साधक उस अनन्त का जिज्ञासा अथवा लालसा उत्पन्न कर अपनी-अपनी योग्यतानुसार साधन द्वारा उससे अभिन्न होते हैं। यह नियम है कि अभिन्नता के बिना न तो प्रेम ही होता है, न स्वरूप की एकता ही होती है। जो लोग यह मानते हैं कि प्रेम परस्पर में भेद से होता है, वह बात बाल्य दृष्टि से भले ही प्रतीत होती हो; किन्तु तत्त्वदृष्टि से तो प्रेम उन्मी से होता है, जिससे

तक हम अपने को कुछ मान नहीं लेते, तब तक वासना की उत्पत्ति ही नहीं होती और जब तक किसी को अपना नहीं मान लेते, तब तक प्रवृत्ति का आरम्भ ही नहीं होता। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि 'यह' और 'मैं' के प्रति जो मान्यता है, उसके अन्त होने पर निर्वासना तथा निवृत्ति स्वतः आ जाती है, जो जिससे हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकता है, उससे अभिन्नता कराने में समर्थ है।

जब विश्वासी साधक अपने अनेक विश्वासों को एक विश्वास में और अनेक सम्बन्धों को एक सम्बन्ध में तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के चिन्तनों को एक चिन्तन में विलीन कर देता है, तब एक पर ही विश्वास, एक से ही सम्बन्ध और एक ही का चिन्तन स्वतः होने लगता है—अर्थात् प्रेमास्पद से भिन्न किसी अन्य का चिन्तन शेष नहीं रहता।

ज्यों-ज्यों प्रेमास्पद का चिन्तन सवल तथा स्थायी होता जाता है, त्यों-त्यों प्रेमास्पद से भिन्न का अस्तित्व स्वतः मिटता जाता है; क्योंकि एक का स्मरण अन्य का विस्मरण कराने में समर्थ है।

विश्वासी भक्त को 'यह' अर्थात् जो इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि से प्रतीत हो रहा है, वह मेरे प्रभु का है, और किसी का नहीं, इस भाव की दृढ़ता होती जाती है। ज्यों-ज्यों इस भाव की दृढ़ता होती जाती है, त्यों-त्यों उसके मन से स्वार्थभाव तथा 'यह' का राग मिटता जाता है। जिस काल में स्वार्थभाव तथा 'यह' का राग समाप्त हो जाता है, उसी काल में यह जो कुछ है उसमें अपने प्रीतम का ही दर्शन होने लगता है। जब प्रीति इतनी बढ़ जाती है कि विश्वासी

का अपना अस्तित्व भी प्रीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता, अर्थात् जब विश्वासी स्वयं प्रीति हो जाता है, तब उसे प्रीतम से भिन्न और कुछ है ही नहीं ऐसा अनुभव होता है, अर्थात् सर्वत्र प्रीतम ही प्रीतम है। यह ही भक्त की साधना की परावधि है।

विजातीयता से मुक्त हो जाना ही मुक्ति और जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है, उससे प्रेम ही भक्ति है। विजातीय से सम्बन्ध स्वीकार करने पर ही पराधीनता और अनेक प्रकार के अभाव उत्पन्न होते हैं। सम्बन्ध-विच्छेद करते ही पराधीनता स्वाधीनता में बदल जाती है और सभी अभावों का अभाव हो जाता है यह ही मुक्ति है। विजातीय सम्बन्ध ने जो स्वाभाविक प्रीति को अनेक आसक्तियों में बदल दिया था, वह आसक्ति भी मिट जाती है। उसके मिटते ही स्वतः प्रेम का उदय होता है, जो वास्तव में भक्ति है। इस दृष्टि से भक्ति और मुक्ति दोनों ही समान हैं, भले ही उन दोनों की साधनाओं में भेद हो। साधना का भेद साधक की दृष्टि से होता है, सिद्धान्त की दृष्टि से नहीं। भक्ति और मुक्ति के द्वारा जिस अनिर्वचनीय सत्य की उपलब्धि होती है, उसमें अनन्त विभूतियाँ हैं, कारण कि वह अनन्त नित्य चिन्मय है। साधक उस अनन्त की जिज्ञासा अथवा लालसा उत्पन्न कर अपनी-अपनी योग्यतानुसार साधन द्वारा उससे अभिन्न होते हैं। यह नियम है कि अभिन्नता के बिना न तो प्रेम ही होता है, न स्वरूप की एकता ही होती है। जो लोग यह मानते हैं कि प्रेम परस्पर में भेद से होता है, यह बात वाद्य दृष्टि से भले ही प्रतीत होती हो; किन्तु तत्त्वदृष्टि से तो प्रेम उसी से होता है; जिससे



एक देशीय दृष्टिकोण में है, यद्यपि एक देशीय दृष्टिकोण साधक की दृष्टि से आदरणीय है; परन्तु वह सिद्धान्त नहीं हो सकता। अतः ज्ञान और प्रेम, भक्ति और मुक्ति का विभाजन सिद्धान्त नहीं है। सिद्धान्त तो यह है कि चाहे मुक्त होकर भक्त हो अथवा चाहे भक्त होकर मुक्त हो, वास्तविक प्रेमी न तो भोग चाहता है और न मोक्ष, परन्तु यह नियम है कि भोग-वासना का अन्त होने पर बन्धन स्वतः मिट जाता है; क्योंकि उसके अतिरिक्त बन्धन का और कोई कारण ही नहीं है। कारण के नाश होते ही कार्य स्वतः मिट जाता है। अतः प्रेमी के न चाहने पर भी उसका मोक्ष स्वतः सिद्ध है। उसी प्रकार तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति होने पर जिज्ञासु भले ही प्रेम न चाहे, किन्तु तत्त्व-ज्ञान होने पर तत्त्वनिष्ठा स्वाभाविक है। यह हो सकता है कि तत्त्व-निष्ठा अखण्ड एक रस हो और प्रेम अखण्ड अनन्त रस हो, परन्तु रस का भेद हाने पर जातीय तथा स्वरूप का भेद नहीं होता।

बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रेम तो द्वैत सूचक है, किन्तु द्वैत में तो न्याय होता है। कोई भी विचारक यह सिद्ध नहीं कर सकता कि दो होने पर प्रेम हो सकता है; दो में तो न्याय हो सकता है, प्रेम नहीं। क्योंकि प्रेम का उदय वहाँ होता है, जहाँ एक ही दो मालूम होते हों। अर्थात्, प्रेम के साम्राज्य में एक ही दो प्रतीत होते हैं; जिस प्रकार समस्त शरीर से आत्मभाव, अर्थात् एकता का भाव होने पर ही शरीर के प्रत्येक अवयव से कर्म-भेद तथा आकृति-भेद होने पर भी प्रीति समान होती है। इसी प्रकार जिससे अभिन्नता एवम् एकता होती है, उसी से प्रेम होता है।





विलीन हो जाता है। प्रेम में भोग नहीं है, इस कारण नित नव रस की वृद्धि ही होती है, उससे उपरति नहीं होती, न कभी पूर्ति होती है। इसी कारण प्रेम का रस अखण्ड तथा अनन्त है।

जब देहाभिमान मिट जाने पर प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश होता है, तब इस सन्देह के लिये कोई स्थान ही नहीं रहता कि प्रेम में इन्द्रियजन्य विलास है, जो मोह तथा आसक्ति को उत्पन्न करे। प्रेम के साम्राज्य में जिन भावों को स्वीकार किया जाता है, वे उत्तरोत्तर प्रेम की ही वृद्धि करते हैं, कारण कि प्रेम अगाध तथा अनन्त है।

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति कहो अथवा मुक्ति, प्रेम कहो अथवा ज्ञान, ये दोनों ही मानव-जीवन के आवश्यक अङ्ग हैं। ये दो होते हुये भी एक हैं और एक होते हुये भी दो। दो हैं साधन दृष्टि से और एक है साध्य-दृष्टि से। साधनरूप ज्ञान की परावधि प्रेम में है और साधनरूप भक्ति की परावधि स्वरूप साक्षात्कार में है, कारण कि जिसे जानते हैं, उससे प्रेम हो जाता है और जिसे मानते हैं उसे जान लेते हैं।

अनन्त नित्य चिन्मय जीवन की अभिलाषा और अगाध अनन्त प्रेम की लालसा और निर्दोष जीवन की अभीप्सा और तत्त्व जिज्ञासा मानव में स्वभाव से ही विद्यमान है। जैसे, यदि कोई दोष हो, तो सभी कहेंगे तुम दोषी क्यों हो ? परन्तु, यदि कोई दोष न हो, तो कोई न कहेगा, निर्दोष क्यों हो ? कारण कि 'क्यों' उसी में लगता है, जो अस्वाभाविक हो। जो स्वाभाविक है उसमें 'क्यों' नहीं लगता। जैसे यह कोई न कहेगा कि तुम सत्य क्यों बोलते हो, पर यदि कोई

भूठ बोले. तो सभी कहेंगे कि तुम भूठ क्यों बोलते हो ? जैसे, यदि कोई श्रमी तथा सदाचारी है, तो उससे कोई नहीं कहेगा कि तुम श्रमी या सदाचारी क्यों हो ? किन्तु, यदि कोई आलसी तथा दुराचारी हो, तो सभी कहेंगे कि तुम आलसी तथा दुराचारी क्यों हो । यदि कोई प्रसन्न तथा शान्त हो, तो उससे कोई नहीं कहेगा कि तुम प्रसन्न तथा शान्त क्यों हो, और यदि कोई विव्न्न तथा अशान्त हो तो सभी कहेंगे कि तुम विव्न्न तथा अशान्त क्यों हो ? यदि कोई स्वस्थ तथा सवल हो, तो कोई नहीं कहेगा कि तुम स्वस्थ तथा सवल क्यों हो और यदि रोगी और निर्वल हो तो सभी कहेंगे कि तुम रोगी तथा निर्वल क्यों हो ? यदि कोई प्रेमी तथा योगी है, तो कोई नहीं कहेगा कि तुम प्रेमी तथा योगी क्यों हो, पर यदि कोई मोदी तथा भांगी है, तो सभी कहेंगे कि तुम मोदी तथा भांगी क्यों हो ?

इससे यह भलीभांति विदित हो जाता है कि मानव-जीवन में श्रम, संयम, सदाचार, सेवा, त्याग, निर्दोषता, योग, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, मुक्ति इत्यादि दिव्यताएँ स्वाभाविक हैं और इनके विपरीत जितने दोष हैं, वे सब अस्वाभाविक हैं । अब यदि कोई यह कहे कि हमें तो अपने जीवन में अनेक दोष तथा निर्वलताओं का दर्शन होता है, तो क्या हम मानव नहीं हैं ? तो, कहना होगा कि साधनरूप मानव तो सभी हैं, लेकिन विद्व रूप मानव वे ही हैं, जो निर्दोषता तथा निवृत्तापूर्वक भक्ति, मुक्ति आदि प्राप्त करते हैं । अतः अस्वाभाविकता से स्वाभाविकता की ओर नति-शील होना ही वास्तविक मानवता है, और उसे प्राप्त करना ही मानव का परम पुरुषार्थ है । ३३

## १३

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

प्रायः लोग ऐसा मानते हैं कि हम भलाई या बुराई करके भले या बुरे बनते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में कर्त्ता में से ही कर्म की उत्पत्ति होती है और उस उत्पन्न हुए कर्म से कर्त्ता की सिद्धि तथा पुष्टि होती है। जिस प्रकार बीज में वृक्ष विद्यमान रहता है, उसी प्रकार, कर्त्ता में कर्म विद्यमान रहता है। कर्त्ता के शुद्ध होने पर शुद्ध कर्म और कर्त्ता के अशुद्ध होने पर अशुद्ध कर्म स्वतः होता है।

हम किसी दूसरे के प्रति कोई भलाई तथा बुराई कर ही नहीं सकते जब तक कि अपने को भला या बुरा न बनाले। जैसे, अपने को चोर मानकर ही चोरी करते हैं और अपने को सत्यवादी मानकर ही सत्य बोलते हैं। हमारे दूषित होने पर ही दुष्कृति और शुद्ध होने पर ही शुद्ध प्रवृत्ति होती है। हमारे दूषित होने से हम जितनी हानि अपने को पहुँचाते हैं, उतनी दूषित कर्म में प्रवृत्त होकर, दूसरे को पहुँचा ही नहीं सकते, क्योंकि कर्त्ता सब कर्म अपने लिए करता है। जब हमने अपने को ही विगाड़ लिया, तो उस कर्म से हमारा अहित ही हुआ और हमारे कर्म से दूसरे का भी अहित

हुआ। इस दृष्टि से अपना तथा समाज का अहित हुआ। इतना ही नहीं, चोरी द्वारा जिमकी हानि की संभावना है उसकी क्षति की पूर्ति सुगमतापूर्वक हो जाय, परन्तु हमने जो अपने को चोर बना लिया है उस दूषित 'अहम्' की शुद्धि उस समय तक संभव ही नहीं है, जब तक कि विचार की अग्नि से देह का अभिमान भस्म न कर दिया जाय। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि हम किसी और को कोई हानि पहुँचा ही नहीं सकते, जब तक कि स्वयं का सर्वनाश नहीं कर लेते।

इसी प्रकार जब कोई अपने को उदार मान लेता है, तब उसके द्वारा की हुई उदारता से दूसरों का उतना लाभ नहीं होता जितना कि कर्त्ता का अपना हित होता है। यह नियम है कि भाव असीम और कर्म सीमित होता है। अतः उदार भाव प्राप्त होने पर कर्त्ता के जीवन में करुणा और प्रसन्नता स्वतः आ जाती है, अर्थात् दुखियों को देखकर करुणा और सुखियों को देखकर प्रसन्नता होती है। करुणा राग को खा लेती है और प्रसन्नता चाह तथा ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होने देती। राग-रहित होने से अनुराग की उत्पत्ति और ईर्ष्या तथा चाह-रहित होने से समता की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। यह सभी को मान्य होगा कि अनुराग नित-नव-रस और समता चिर शान्ति तथा स्वाधीनता प्रदान करने में समर्थ है। इस प्रकार उदारभाव से कर्त्ता का जितना हित होता है उतना हित उदारतायुक्त प्रवृत्ति से दूसरों का नहीं हो सकता।

अब यह देखना है कि हममें बुराई का भाव क्यों उत्पन्न

होता है ? तो, कहना होगा कि अविवेक के कारण जब हम अपने को देह मान लेते हैं, तब काम की उत्पत्ति होती है, और काम की पूर्ति होने से लोभ और मोह तथा काम की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने से क्रोध और द्वेष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों से दूषित होकर हम अपने को दोषी मान बैठते हैं और इस मान्यता से उत्पन्न हुई प्रवृत्ति के द्वारा समाज का अहित करते हैं। यद्यपि तात्त्विक दृष्टि से सर्वांश में कोई कभी दोषी नहीं होता; क्योंकि दोषयुक्त प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, स्वभावसिद्ध नहीं है। की हुई दोषयुक्त प्रवृत्ति की स्मृति को प्राणी अपने 'अहम्' में स्थापित कर लेता है, जिससे दूषित प्रवृत्ति बार-बार होने लगती है।

यह तो हुई अपने को दोषी मानने की बात; परन्तु इससे भी अधिक दोष दूसरों को दोषी मान लेने में है। क्योंकि दूसरे के दोष का वास्तविक ज्ञान तो हमें होता नहीं, कुछ देखी या सुनी हुई बातों के आधार पर ही दूसरों को दोषी मान लेते हैं। जिसको बुरा मान लेते हैं उसका बुरा चाहने की भावना स्वतः उत्पन्न हो जाती है, जो हमें बुरा बनाने में समर्थ है, और हमारी मान्यता से जिसे हम बुरा मान लेते हैं उसमें भी बुराई की दृढ़ता होती है। इस प्रकार हमारे प्रमाद से अपना व दूसरों का अहित ही होता है। बुराई करने में तो कर्त्ता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे चोर को चोरी करने में अनेक प्रकार के भय तथा आपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परन्तु किसी व्यक्ति को चोर मान लेने में कोई कठिनाई नहीं होती। यह संभव है कि बुराई करने वाला भय तथा

आपत्तियों से व्यथित होकर अपना सुधार करने में समर्थ हो जाय, परंतु दूसरे को बुरा मानने वाले का सुधार होना बड़ा कठिन हो जाता है।

दूसरों को दोषी मानने से हमें अपने गुणों का अभिमान हो जाता है, जो सभी बुराइयों का मूल है और जिससे छुटकारा पाना बुराई करने से छुटकारा पाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। अतः किसी को बुरा न समझें। यह तभी सम्भव होगा, जब किसी की बुराई न सुनें और न किसी की बुराई करें। इतना ही नहीं, अपनी देखी हुई बुराई पर भी स्थायी भाव न रखें। यदि कोई स्वयं कहे, तब भी उसको बुरा न समझें और उससे 'कहदें कि' इस समय तो तुम उस बुराई को नहीं कर रहे हो, जो अपने में आरोप करते हो। यदि तुम सचमुच बुराई को बुराई जानते हो, तो उसको न दुहराने का व्रत ले लो। ऐसा करने से बुराई सदा के लिये मिट जायगी और जो हो चुकी है उसके संस्कार भी मिट जायेंगे तथा उसका जो कुल्ल परिणाम है, वह भी दुःख देकर स्वतः मिट जायगा। क्योंकि दुःख से दुष्कृति मिट जाती है और की हुई भूल भी मिट जाती है तथा भूल उत्पन्न भी नहीं होती। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि अपना तथा दूसरों का भला चाहते हो, तो किसी का बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत समझो और न किसी की बुराई सुनो और न करो। जब यह निर्विवाद सिद्ध है कि सर्वांश में सर्वदा कोई बुरा होता नहीं, तो किसी को बुरा मान लेना यह असत्य नहीं, तो क्या है ? इस असत्य का साधनयुक्त जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। इस भयंकर दोष से तो सदा के लिये रहित हो जाना चाहिये।

यदि हम अपना कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण चाहते हैं, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि हम दूसरों में तथा अपने में बुराई की स्थापना न करें। तभी बुराई से बच सकेंगे। यह नियम है कि प्राणी दूसरों के प्रति जो कुछ करता है, वह कई गुना अधिक होकर उसे स्वयं प्राप्त होता है। जैसे, एक दाना बोने से कई दाने मिलते हैं, वैसे ही हमारे द्वारा जो कुछ होता है, वह कई गुना अधिक होकर हम ही को मिलता है।

यह सभी को मान्य है कि अपना सभी भला चाहते हैं और कर्म-विज्ञान के सिद्धान्त से दूसरों के प्रति की हुई भलाई ही अपने को मिल सकती है। अतः बुराई करने का जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। यह नियम है कि बुराई मिटते ही भलाई स्वतः होने लगती है और भलाई होने से अपना भला हो जाता है तथा समाज का भी हित होता है।

बुराई की जाती है और भलाई स्वतः होती है। यह नियम है कि जो किया जाता है, वह सीमित होता है और जो होता है वह असीम होता है। इस दृष्टि से बुराई सीमित और भलाई असीम है। क्योंकि बुराई का जन्म अभिमान से होता है और भलाई निराभिमानता से होती है। अभिमान से सीमित अहम्-भाव पुष्ट होता है और निराभिमानता से अहम् भाव गलकर विमुक्त हो जाता है, अर्थात् जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है उससे अभिन्न हो जाता है।

अब विचार यह करना है कि अभिमान की उत्पत्ति कब होती है और क्यों ? तो, कहना होगा कि अभिमान तब होता है, जब हम



अपने को किसी वस्तु, अवस्था एवं परिस्थिति में आवद्ध कर लेते हैं। यह नियम है कि वस्तु आदि में आवद्ध होते ही स्वार्थभाव उत्पन्न होता है। उसके उत्पन्न होते ही अनेक कामनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं और फिर हम अपने लिये अपने से भिन्न की आवश्यकता अनुभव करने लगते हैं अर्थात् पराधीन हो जाते हैं। और, फिर अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ करने लगने हैं, जो हमें कर्त्ता बना देती हैं। कर्त्ता बनते ही की हुई प्रवृत्तियों के संस्कार दृढ़ होने लगते हैं। उन संस्कारों के समूह से ही हम अभिमानी हो जाते हैं।

कर्त्तव्य के समूह का नाम ही कर्त्ता है। कर्त्तव्य का अर्थ है कि जिसके पालन करने से साधक निर्दोष हो जाय। निर्दोष होते ही गुणों का अभिमान गल जाता है और फिर कर्त्ता, कर्म तथा उसका फल ये तीनों अपने लक्ष्य में विलीन हो जाते हैं, अर्थात् इच्छाओं की निवृत्ति हो जाती है और तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति तथा प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, जो वास्तविक जीवन है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्त्तव्यनिष्ठ होने पर कर्त्ता का वास्तविक जीवन से भिन्न कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता।

अभिमान का अन्त करने के लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि “करना” “होने” में विलीन हो जाय। यह तभी सम्भव होगा कि जब साधक अपने अहम् भाव को उस अनन्त के समर्पण कर अचिन्त्य तथा अचाह हो जावे। अचाह होते ही “करना” “होने” में विलीन हो जाता है और फिर किसी प्रकार का अभिमान शेष नहीं रहता। अभिमान का अन्त होते ही पराधीनता सदा के लिये मिट जाती है

और फिर साधक की अपने वास्तविक स्वरूप से एकता हो जाती है। पराधीनता-काल में तो केवल वस्तु, अवस्था परिस्थिति आदि का अस्तित्व सिद्ध होता है, अपना नहीं। जैसे धन का लोभी अपने को धन के आधीन मानकर अपना अस्तित्व खो देता है और धन के अस्तित्व को सिद्ध करता है। इसी प्रकार जितनी कामनाएँ उत्पन्न होती हैं, वे कर्त्ता के अस्तित्व को सिद्ध न कर इच्छित वस्तु, अवस्था आदि के अस्तित्व को सिद्ध तथा दृढ़ करती हैं। वास्तव में अस्तित्व तो उसका है कि जिसकी सत्ता से कामनाओं का कर्त्ता तथा वस्तु, अवस्था आदि प्रकाशित होते हैं। अतः भोग और भोक्ता दोनों पर ही “पर” प्रकाश है। “पर” प्रकाश में सत्ता उन्हीं की होती है जिनसे वे प्रकाशित होते हैं। अतः भोग और भोक्ता एक दूसरे को सुरक्षित नहीं रख सकते। इस कारण विवेकी भोग-वासनाओं को त्याग भोग और भोक्ता के प्रकाशक से अभिन्न होने के लिये प्रयत्नशील होते हैं। अतः अपना अस्तित्व तभी सुरक्षित होगा, जब वासनाओं का अत्यन्त अभाव हो। वासनाओं की पूर्ति से किसी का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकता। वासनाओं का अन्त करने के लिये सबसे प्रथम यह अनिवार्य हो जाता है कि हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित तथा प्रसन्नता में निहित हो। ऐसा करने से राग निवृत्त हो जाता है और फिर अपनी प्रसन्नता के लिये वस्तु, अवस्था आदि की अपेक्षा नहीं रहती और न फिर किसी दोष की उत्पत्ति होती है। कारण कि सभी दोष राग से उत्पन्न होकर राग ही से पुष्ट होते हैं और दोषों के उत्पत्तिकाल में ही गुणों का अभिमान जीवित रहता है। निर्दोषता

आने पर गुणों का अभिमान स्वतः गल जाता है और फिर सीमित अहं भाव मिट जाता है, जिसके मिटते ही मृत्यु अमरत्व में विलीन हो जाती है, जो वास्तविक जीवन है ।

अब यदि कोई यह कहे कि दोषों की उत्पत्ति क्यों होती है ? तो, कहना होगा कि जब हम प्रमादवश उन्हें अपना मान लेते हैं, जो हमारे नहीं हैं, अथवा जब हम उन्हें अपना नहीं मानते, जो हमारे हैं, तभी सभी दोष उत्पन्न होते हैं । अब विचार यह करना है कि कौन हमारा है, और कौन हमारा नहीं ? जो हमारे बिना रह सकता है और जिसके बिना हम रह सकते हैं, वह हमारा नहीं है, और जिसके बिना हम नहीं रह सकते और जो हमारे बिना नहीं रह सकता, वही हमारा है । प्रत्येक वस्तु, अवस्था, परिस्थिति हमारे बिना रह सकती है और हम उनके बिना रह सकते हैं, तो फिर उन्हें अपना मान लेना क्या दोष नहीं है ? इस दोष के कारण ही हम वस्तु आदि की दासता में आवद्ध हो जाते हैं । उससे मुक्त होने के लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि अपने को सभी वस्तु, अवस्था आदि से विमुख कर लिया जाय । उनकी ममता का त्याग कर दिया जाय, ऐसा होते ही हमें अपने में ही अपने वास्तविक जीवन का अनुभव होगा और फिर किसी प्रकार का अभाव शेष नहीं रहेगा, जो सभी को अभीष्ट है ।

अभाव का अभाव होते ही, जो नहीं करना चाहिए, उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती और जा करना चाहिए, वह स्वतः होने लगता है । जो स्वतः होता है, उसमें अभिमान न होने के कारण उसके संस्कार अंकित नहीं होते । जिस प्रवृत्ति के संस्कार अंकित नहीं होते,

वह प्रवृत्ति बन्धन का हेतु नहीं होती, क्योंकि होना एक अपौरुपेय विधान है, व्यक्तिगत अभिमान नहीं। अपौरुपेय विधान में सभी का हित निहित है, किसी का अहित नहीं। पर, इसका अनुभव अभिमान रहित साधकों को होता है।

हमारी सबसे बड़ी असावधानी यही होती है कि अवस्था को अपना स्वरूप और प्रतीति को यथार्थ मान लेते हैं। जिससे "अहम्" और "मम्" की उत्पत्ति हो जाती है, जो अनेक विकारों का मूल है। अवस्था स्वरूप नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक अवस्था पर प्रकाश है और स्वरूप स्वयं प्रकाश है और प्रतीति यथार्थ नहीं हो सकती, क्योंकि वह सतत् परिवर्तनशील है। किन्तु, "अहम्" और "मम्" के कारण प्रतीति में सत्यता और अवस्था में स्वरूप का अभिमान हो जाता है। यह सब असावधानी का कार्य है, और कुछ नहीं। असावधानी मिटते ही, असावधानी का कार्य स्वतः मिट जाता है और फिर अनन्त-नित्य-चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है।

यह सभी विचारशीलों को मान्य होगा कि प्रतीति और प्रतीतिकर्ता अथवा यों कहो कि भोग और भोक्ता की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि जो "पर"-प्रकाश होते हैं, उनमें सत्ता उन्हीं की होती है, जिनसे वे प्रकाशित हैं। इस दृष्टि से समस्त दृश्य उसी की एक अवस्था है, जो अपनी महिमा से आप्रकाशित है, वही तत्त्ववेत्ताओं का निजस्वरूप है। समस्त दृश्य उसी की एक अवस्था-मात्र है। यह नियम है कि जिसकी जो अवस्था होती है, वह अवस्था के बिना भी ज्यों का त्यों रह सकता है। किन्तु अवस्था उसके बिना नहीं रह

सकती । अब यदि कोई यह कहे कि हम उसे कैसे जानें, जिसकी यह अवस्थामात्र है, तो कहना होगा कि जब हम अपने को सभी अवस्थाओं से विमुख कर लेंगे, बस ! उसी काल में उससे अभिन्न हो जायेंगे, जिसकी यह अवस्था है । कारण कि “यह” से विमुख होते ही “मैं” “वह” से जो दृश्य से अतीत है अभिन्न हो जाता है । यह नियम है कि असत् से असंग होने पर असत् की प्रतीति होती है और सत् से अभिन्न होने पर सत् की प्राप्ति होती है । अतः जड़वर्ग से जो पर प्रकाश है, उससे विमुख होकर ही हम अनन्त-नित्य-चिन्मय तत्त्व से अभिन्न हो सकते हैं ।

विमुख होने में प्रत्येक साधक सर्वदा स्वाधीन है, क्योंकि उसके लिये किसी वस्तु आदि की अपेक्षा नहीं होती, केवल विमुख होने की लालसा जागृत होते ही विमुख होने की सामर्थ्य अपने आप आ जाती है । अतः यह कहना कि हम चिन्मय जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते, प्रमाद-मात्र ही है और कुल्ल नहीं ।

अध्यात्मवाद, अर्थात् विचारमार्ग की दृष्टि से यह जो कुल्ल प्रतीत हो रहा है, वह उसी की एक अवस्था है, जिससे यह सब कुल्ल प्रकाशित है । तीव्र जिज्ञासा जागृत होते ही साधक बड़ी ही सुगमता-पूर्वक अपने चिन्मय जीवन से स्वतः अभिन्न हो जाता है ।

आस्तिकवाद, अर्थात् विश्वास मार्ग की दृष्टि से सर्व समर्थ प्रभु से नित्य सम्बन्ध स्वीकार करते ही प्रीति उदय होती है, जो प्रेमास्पद से अभिन्न करने में समर्थ है ।

भौतिकवाद, अर्थात् सेवामार्ग की साधना से जब स्वार्थभाव

गलित हो जाता है, तब बड़ी ही सुगमतापूर्वक निष्कामता प्राप्त कर, साधक उस जीवन को प्राप्त कर लेता है, जो सभी वस्तु, अवस्था आदि से अतीत है ।

यह सभी को मान्य होगा कि योग्यता तथा रुचि का भेद होने पर भी वास्तविक आवश्यकता सभी की एक है । इस दृष्टि से साधन-भेद भले ही हो. परन्तु साध्य में कोई भेद नहीं, क्योंकि सत्य एक है, अनेक नहीं. समस्त सृष्टि एक है, अनेक नहीं, जीवन एक है, अनेक नहीं । उस एक में अनेकता का दर्शन केवल निज-ज्ञान का अनादर करने से ही प्रतीत होता है, विवेकयुक्त जीवन होते ही अनेकता एकता में विलीन हो जाती है और फिर एकमात्र प्रीति और प्रीतम से भिन्न कुछ भी शेष नहीं रहता, जो वास्तविक मानव-जीवन है ।

१४

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

यद्यपि सारे संसार के मनुष्य अपने को मानव ही मानते हैं, और वास्तव में मानवता भी एक ही है, परन्तु इस मानवता को जब हम अपनी अनेक प्रकार की मान्यताओं में आवद्ध कर लेते हैं, तब स्नेह की एकता, निर्मलता, अभिन्नता आदि दिव्यता से रहित हो जाते हैं, जो वास्तव में अमानवता है।

इस अमानवता से मुक्त होने के लिए निर्मलता की ओर गतिशील होना अनिवार्य है, कारण कि निर्मलता के बिना कोई मानव, मानव नहीं हो सकता। अब विचार यह करना है कि निर्मलता का वास्तविक स्वरूप क्या है ? तो, कहना होगा कि जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता नहीं है, उसका अपने में आरोप कर लेना ही मलीनता है। उस मलीनता का त्याग करना ही वास्तविक निर्मलता है। वही वस्त्र निर्मल कहलायेगा जिसमें वस्त्र से भिन्न और कोई वस्तु का समावेश न हुआ हो। यदि किसी कारण वस्त्र में अन्य वस्तु का समावेश हो गया है, तो उसके निकाल देने पर ही वस्त्र निर्मल हो सकेगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में राग-द्वेष आदि का जो समावेश हो गया है; उनके निकालने पर ही हम निर्मल हो सकेंगे।

अब विचार यह करना है कि राग-द्वेष की उत्पत्ति क्यों होती है ? तो, कहना होगा जिससे मानी हुई एकता और जातीय तथा स्वरूप की भिन्नता हो, उसी से राग होता है और किसी एक से राग होने पर ही किसी दूसरे से द्वेष होने लगता है। अथवा यों कहो कि जातीय भिन्नता होने पर भी जिसे हम अपना मान लेते हैं तथा 'अपने' को मान लेते हैं, इस दृढ़ता से ही राग की उत्पत्ति होती है। इसका जन्म निजज्ञान के अनादर से होता है। अर्थात्-देह 'मैं' हूँ अथवा देह 'मेरा' है, ऐसी मान्यता ही राग उत्पन्न कर देती है। यह सभी का अनुभव है कि जिसको हम 'यह' कहते हैं उसे 'मैं' कहना प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी को 'यह' कहकर अथवा 'मेरा' कहकर ही सम्बोधन करते हैं। इस अनुभूति के आधार पर शरीर को अपना स्वरूप नहीं कह सकते। जब शरीर के साथ ही 'मैं' पन सिद्ध नहीं हो सकता, तो फिर किसी अन्य के साथ 'मैं' लगाना कहाँ तक सही सिद्ध हो सकता है, अर्थात् कदापि नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सीमित 'मैं' और सीमित 'मेरा' ही राग-द्वेष का मूल है, जो वास्तव में अविवेक है।

यद्यपि साधनरूप मान्यता भले ही मान्य हो; क्योंकि साधन-रूप मान्यता किमी कर्त्तव्य का आदेश देती है, किन्तु मान्यता को 'मैं' मान लेना किसी को भी मान्य नहीं है। यह नियम है कि कर्त्तव्य कर्त्तव्यपालन करने वाले को लक्ष्य तक पहुँचाने में समर्थ है, किन्तु कर्त्तव्यशून्य मान्यता तो अनर्थ ही सिद्ध करती है, जो अमान्यता है।



इस दृष्टि से सार्थक मान्यता का अर्थ हुआ कर्त्तव्य को प्रकाशित करने वाला विधान ।

कर्त्तव्य का अर्थ है 'दूसरों के अधिकार की रक्षा' । जिन प्रवृत्तियों से दूसरों के अधिकार की रक्षा नहीं होती, उन प्रवृत्तियों को तो अकर्त्तव्य ही मानना होगा । इतना ही नहीं, यदि किसी कर्त्तव्य के नाम पर किसी के अधिकार का अपहरण करके, किसी दूसरे के अधिकार की रक्षा की जाय, उसे कर्त्तव्य मानना प्रमाद होगा । वास्तविक कर्त्तव्य वही है जिससे किसी का अहित न हो और कर्त्तव्यपालन करने पर कर्त्ता अपने लक्ष्य से अभिन्न हो जाय ।

राग-द्वेष का मानव-जीवन में कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि राग से पराधीनता और द्वेष से ईर्ष्या आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, और मानव-जीवन निर्दोषता के लिए मिला है । अतः यह स्पष्ट होजाता है कि राग-द्वेष रहित होने पर ही मानव, वास्तविक मानव हो सकता है । अब यदि कोई कहे कि राग के बिना हम अपने प्रिय-जनों की सेवा कैसे करेंगे ? तो कहना होगा कि सेवा करने के लिए राग अपेक्षित नहीं है अपितु उदारता की अपेक्षा है । कारण कि उदारता आजाने पर पराया दुःख अपना दुःख बन जाता है और फिर अपना सुख वितरण करने में लेश-मात्र भी संकोच नहीं रहता । इतना ही नहीं, सुख-भोग को आसक्ति का अंत हो जाता है । यही सेवा की वास्तविक सार्थकता है । सेवा का अंत किसी वस्तु, पद आदि की प्राप्ति नहीं है । सेवा का अन्त तो त्याग में और त्याग का अंत प्रेम में होता है । यदि हमारी की हुई सेवा हमारे जीवन में पद-लोलुपता तथा

जिनकी सेवा की है उन से किसी प्रकार की आशा उत्पन्न कर देती है, तो समझना चाहिये कि हमने सेवा के नाम पर किसी अपने स्वार्थ की ही सिद्धि की है। ऐसी सेवा तो वह बुराई है जो भलाई का रूप धारण करके आती है। यह नियम है कि जो बुराई, बुराई बन कर आती है वह बड़ी सुगमता से मिट सकती है, किन्तु जो बुराई भलाई का रूप धारण करके आती है उसका मिटाना बड़ा ही कठिन हो जाता है; क्योंकि बुराई को बुराई जान लेने पर बुराई स्वतः मिटने लगती है और बुराई को भलाई मान लेने पर बुराई दृढ़ होती है।

वास्तविक सेवा, क्रिया-रूप से भले ही सीमित हो, किन्तु भाव-रूप से असीम ही होती है, क्योंकि सेवा का जन्म ही होता है स्वार्थ भाव के मिट जाने पर, अर्थात् राग-रहित होने पर। जिन साधनों से क्रियारूप सेवा की जाती है, वे सीमित ही होते हैं। इस कारण सेवक का कर्म सीमित होता है, किन्तु जिस सर्वहितकारी सद्भावना से सेवा की जाती है, वह भाव असीम ही होता है। यह नियम है कि जो कर्म जिस भाव से किया जाता है, अन्त में कर्त्ता उसी भाव में विलीन हो जाता है। इस दृष्टि से सेवक का सीमित कर्म भी सेवक को असीम प्रेम से अभिन्न कर देता है। जिसका हृदय असीम प्रेम से भरपूर है, वह किसी का अहित नहीं चाहता। अतः किसी के विनाश से किसी के विकास का प्रयत्न सेवा नहीं हो सकता। सेवा चाहे एक व्यक्ति की की जाय अथवा समस्त संसार की, उसके फल में कोई अन्तर नहीं होता; क्योंकि सेवा का फल भोग नहीं है, सेवा का फल है, "निर्मलता", जो वास्तव में मानवता है।

निर्मलता आ जाने पर जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है । प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही अहं गल जाता है । अहं के गलते ही जीवन विभु हो जाता है, अथवा यों कहो कि वाह्य भेद प्रतीत होते हुए भी अभेद हो जाता है । फिर किसी प्रकार का संघर्ष शेष नहीं रहता, क्योंकि संघर्ष का जन्म भेद-भाव से होता है और भेद का जन्म अहं भाव से होता है । अहंभाव का पोषण राग-द्वेष से होता है, जो वास्तव में मलीनता है ।

प्रेम चाहे अपने में हो, किसी प्रतीक विशेष में हो अथवा समस्त विश्व में हो, उससे भेद की उत्पत्ति नहीं होती । भेद की उत्पत्ति तो मोह से होती है, प्रेम से नहीं । मोह एक प्रकार की मलीनता है और प्रेम का प्रादुर्भाव निर्मलता से होता है । अतः यह सिद्ध हो जाता है कि प्रेम मानवता और मोह अमानवता है ।

यह नियम है कि प्रेम अनन्त से अभिन्न करता है और मोह सीमित में आवद्ध करता है । सेवा और प्रेम का आरम्भ किसी प्रतीक से क्यों न हो, उसकी पूर्णता तो अनन्त में ही होती है, जो सभी का सब कुछ है और सभी से अतीत है । उसे किसी मान्यता-विशेष में आवद्ध नहीं किया जा सकता । परन्तु, उसकी उपलब्धि सभी मान्यताओं के द्वारा हो सकती है । पर कब ? जब मोह की गन्ध न रहे । मोह की उत्पत्ति किसी अन्य से नहीं, अपने प्रमाद से ही होती है । प्रेम का उदय तब तक नहीं होता, जब तक प्रमाद का अन्त नहीं हो जाता । प्रमाद का अन्त तब तक नहीं होता, जब तक हम किसी से कर्त्तव्य के नाते कुछ भी लेना चाहते हैं । कर्त्तव्य ने तो हमें सब कुछ

देने का पाठ पढ़ाया है, लेने का नहीं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्त्तव्य-परायणता हमें मोह का अन्त कर प्रेम प्राप्त कराती है, जो वास्तव में मानवता है। कर्त्तव्य-परायणता साधन-रूप मानवता है। और, निर्मलता साध्य-रूप मानवता है।

मानवता विकसित होने पर निर्मलता, एकता और स्नेह से जीवन परिपूर्ण हो जाता है और फिर प्राणी अपने को भले ही भक्त, जिज्ञासु, समाजसेवी आदि भिन्न-भिन्न मान्यताओं के रंग में रंग ले, उससे उसकी तथा समाज की कोई क्षति नहीं होती। कारण कि मानवता सब प्रकार के संघर्ष तथा स्वार्थभाव का अन्त कर देती है। जिस प्रकार निर्मल वस्त्र पर प्रत्येक रंग सुन्दर लगता है, उसी प्रकार मानवता विकसित होने से मानव किसी मत, सम्प्रदाय, दल आदि में भले ही अपने को रंग ले, पर उससे किसी का अहित नहीं होता। इतना ही नहीं, उसका अकल्याण भी नहीं होता। उससे तो उसका अपनाया हुआ मत, दल आदि शोभा ही पाते हैं, क्योंकि जो स्वयं सुन्दर है, वह सभी को सुन्दर बनाता है।

अब यदि कोई यह कहे कि जब मानवता एक है, तो फिर मानव-समाज में अनेक मत, दल, सम्प्रदाय आदि की क्या आवश्यकता है ? तो, कहना होगा कि दो व्यक्ति भी सर्वांश में समान योग्यता या रुचि के नहीं होते और न सभी की परिस्थिति में समानता होती है, किन्तु उद्देश्य तथा आवश्यकता सभी की एक होती है। इस कारण साध्य की एकता होने पर भी साधन में भिन्नता होना अनिवार्य है, परन्तु साधन का ही साध्य मान लेना प्रमाद. अर्थात् अमानवता

है। यह नियम है कि अपनी योग्तानुसार साधन करने पर साधक में स्वतः निर्मलता आ जानी चाहिए, जो उद्देश्य की पूर्ति में समर्थ है। इस दृष्टि से सभी अपनी-अपनी योग्यता, रुचि तथा परिस्थिति के अनुरूप अपनाई हुई पद्धति के द्वारा अपने कर्त्तव्य का पालन कर; अपने को निर्मल बनायें, जिससे सभी के उद्देश्य की, जो सब का एक है, पूर्ति सुगमतापूर्वक हो जाय। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न मत, दल तथा सम्प्रदाय होने से कोई क्षति नहीं होती, क्षति तो तब होती है, जब हम इन्हें अपने को निर्मल बनाने का साधन न मानकर इनकी ऊपरी मान्यताओं में ही सद्भाव करके भेद उत्पन्न कर लेते हैं, जो संघर्ष का मूल है। जैसे, कुछ लोग अर्थ की एकता होने पर भी भाषा का भेद सहन नहीं कर सकते और परस्पर संघर्ष कर अपनी मानवता खो बैठते हैं।

जिस प्रकार सेवा क्रिया-रूप से सीमित तथा भाव-रूप से असीम होती है, उसी प्रकार प्रेम प्रतीक रूप से सीमित और भाव रूप से विमु होता है। प्रतीक को ही लक्ष्य मानने से तो प्रेम, मोह के स्वरूप में प्रतीत होता है, किन्तु प्रतीक में अपने प्रेमास्पद को अनुभव करने से मोह और प्रतीक दोनों ही प्रेमास्पद से अभिन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रेमी भी अपने आपे को खो, प्रेम होकर विमु हो जाता है; अथवा यों कहो कि प्रेमी, प्रेम तथा प्रेमास्पद तीनों अभिन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार नदी का निर्मल जल किसी गड्ढे में आवद्ध होने से विषैले कीटाणुओं का घर बन जाता है, उसी प्रकार प्रेम रूपी तत्त्व किसी वस्तु, व्याक्त आदि में आवद्ध हो लोभ, मोह आदि का



अथवा महान् से महान् के साथ हो, उसके रस में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि प्रेम की माँग स्वभाव से ही रस-रूप है ।

निर्मलता आने पर प्रतीक भेद कुछ अर्थ नहीं रखता, अपितु सभी प्रतीकों में अपना ही प्रतीक दिखने लगता है, क्योंकि प्रेम प्रतीक को सीमित नहीं रहने देता । सीमित करने में तो हमारी परिच्छिन्नता ही हेतु है । ज्यों-ज्यों प्रेम सबल तथा स्थायी होता जाता है, त्यों-त्यों परिच्छिन्नता मिटती जाती है और ज्यों-ज्यों परिच्छिन्नता मिटती जाती है, त्यों-त्यों मलीनता, निर्मलता में बदलती जाती है । मलीनता का अन्त होते ही अनेकता, एकता में विलीन हो जाती है, अर्थात् अनेक में एक ही दिखाई देता है । इस दृष्टि से कोई किसी का प्रेमी क्यों न हो, प्रेमी के जीवन में द्रोह के लिये कोई स्थान नहीं रहता, अर्थात् प्रेमी द्रोही हो ही नहीं सकता । भोगी जब प्रेमी का रूप बना लेता है, तब वह किसी का प्रेमी, किसी का द्रोही बनता है, यद्यपि प्रेम में भोग के लिए कोई स्थान ही नहीं है । प्रेम तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का ही पाठ पढ़ाता है ।

मानवता आ जाने पर निर्मलता, स्नेह और एकता आ जाती है, क्योंकि ये तीनों मानवता के ही विशेषण हैं । मानवता एक है । ऐसा नहीं है कि भौतिकवादी और अध्यात्मवादी की मानवता भिन्न-भिन्न हो । उस मानवता के बिना दूसरों की तो कौन कहे, अपना भी हित नहीं हो सकता । वास्तव में तो जिसमें दूसरों का हित है, उसी में अपना हित है और जिसमें अपना हित है, उसी में दूसरों का हित है । यही सभी को मान्य होगा कि निर्मलता, स्नेह तथा एकता में

ही अपना तथा दूसरों का हित है, जो मानवता है ।

निर्मलता प्राप्त करने के लिये सेवा अनिवार्य है । सेवा उम्मी की हो सकती है, जिसकी दी हुई कोई भी वस्तु अपने पास हो । अपने पास जो कुछ है, वह संसार से ही मिला है, यह सभी को मान्य होगा । यहाँ तक जिस शरीर को तथा योग्यता का आज हम अपना कहते हैं, वह भी संसार के द्वारा ही मिली है । जो वस्तु संसार के द्वारा मिली है, उसे संसार की सेवा में ही लगा देना चाहिए । ऐसा करने से संसार पर कोई अहसान नहीं होता और न अपने में करने का अभिमान ही होना चाहिए, तभी सेवा बन सकेगी । सेवा का फल भाग नहीं है, अपितु निर्मलता है । निर्मलता आ जाने पर स्नेह की उत्पत्ति स्वाभाविक है, कारण कि किसी भी एक साधन की पूर्णता, दूसरे साधन की उत्पत्ति हो जाती है और स्नेह की पूर्णता भेद को ग्राह लेती है, अर्थात् एकता में विलीन हो जाती है । इस दृष्टि से निर्मलता प्राप्त होने पर स्नेह तथा एकता भी प्राप्त हो जाती है, अथवा यों कहो कि निर्मलतारूपी भूमि में ही, एकता रूपी लता फैलती है और स्नेहरूपी फल लगता है, जो स्वभाव से ही सरस तथा मधुर है । उस मधुर फल का प्राप्त करना ही मानव-जीवन का उद्देश्य है । यह तभी सम्भव होगा, जब हम अपने को निर्दोष बनायें, निर्मल बनायें तथा प्रेमी बनायें । निर्मल बनाने के लिए दूसरों के अधिकार की रक्षा, निर्दोष बनाने के लिए अपने अधिकार का त्याग और प्रेमी बनाने के लिए अपने आपे का मिटाना अनिवार्य है । ऐसा होने पर ही योजरूप मानवता का मानव-मात्र में विद्यमान है, विकसित हो सकती है । अतः उसके विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए । ॐ आनन्द ।



१५

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभावों।

सुखभोग की आसक्ति में आवद्ध प्राणी वह करने लगता है, जो उसे नहीं करना चाहिए, कारण कि सुख का लालच निज-ज्ञान का आदर नहीं होने देता। अकर्त्तव्य का जन्म एक-मात्र सुख-भोग की दासता से ही होता है। इतना ही नहीं सुख-भोग की सिद्धि ही तब होती है, जब हम प्रमाद आदि किसी न किसी दोष को अपनाते हैं।

यह सभी को मान्य होगा कि कामना की उत्पत्ति में दुख और पूर्ति में सुख प्रतीत होता है। अब विचार यह करना है कि कामना कि उत्पत्ति का हेतु क्या है? तो, कहना होगा कि जब हम अपने को देह मान लेते हैं, अर्थात् शरीर ही 'मैं' हूँ, ऐसा सद्भाव कर लेते हैं। अथवा, यों कहो कि शरीर से अभेद-भाव की मानी हुई एकता स्वीकार कर लेते हैं, तभी कामनाओं की उत्पत्ति होती है। अपने को देह मान लेना प्रमाद नहीं है, तो क्या है? अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रमाद को अपना लेने पर ही सुख भोग की सिद्धि होती है। यह नियम है कि कामनापूर्ति का सुख राग उत्पन्न करता है, जिससे पुनः कामना उत्पन्न होती है और प्रमाद भी दृढ़ हो जाता है और

इस प्रकार की कामना-उत्पत्ति और पूर्ति का चक्र चलता ही रहता है, अर्थात् दुख सुख में और सुख दुख में बदलता ही रहता है। इतना ही नहीं, कामनापूर्ति-काल में भी जब तक प्राणी उत्कृष्टता की ओर से अपने को विमुख नहीं कर लेता, तब तक सुख की प्रतीति नहीं होती। सुख की वास्तव में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, केवल प्रतीति है। यदि सुख का स्वतंत्र अस्तित्व होता तो सुख-भोग के अन्त में किसी प्रकार का अभाव न होता और शक्तिहीनता, जड़ता, पराधीनता आदि में प्राणी आवद्ध न होता। सच तो यह है कि सुख का लालच ही हमें अनेक वार दुख में आवद्ध करता है। यदि विवेक-पूर्वक अपने को देह से अतीत के जीवन में प्रतिष्ठित कर लें, तो बड़ी ही सुगमतापूर्वक सुख की दासता तथा दुख के भय से मुक्त हो सकते हैं।

अब यदि कोई यह कहे कि सुख का अस्तित्व नहीं है, तो हमें शरीरादि वस्तुओं की प्राप्ति से सुख क्यों होता है? तो, कहना होगा कि शरीर आदि वस्तुएँ संसार रूपी सागर की लहरें मात्र हैं। जब हम समस्त संसार को अपना न मान कर केवल उसके कुछ अंश-मात्र को अपना मान लेते हैं, तब उम अंश-मात्र के अभिमान को स्वीकार कर सुख का भोग करते हैं। समस्त संसार को कुछ वस्तुओं को अपना मान लेना क्या वैद्विमानों नहीं है? इसमें तो यह निश्चय हुआ कि हम वैद्विमान होकर सुख भोगते हैं। अब यदि कोई यह पाए कि हम समस्त संसार को अपना मान लें, तो क्या सुख न होगा? तो, कहना होगा कि नहीं। कारण कि समस्त संसार तो अनेक

प्रकार के अभावों, क्लेशों तथा विपत्तियों से निरन्तर पीड़ित है, तो फिर उसको अपना मान कर कौन सुखी हो सकता है ? अर्थात्, कोई नहीं। संसार को अपना मान कर तो संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपने-से दुखियों को भेंट कर सकता है, सुख नहीं भोग सकता, जो वास्तव में ईमानदारी है।

हम अपना अस्तित्व खोकर ही शरीर आदि वस्तुओं द्वारा सुख भोगते हैं, अर्थात् जब तक हम वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि से अपना मूल्य नहीं घटा लेते हैं, तब तक वे हमें सुखद प्रतीत नहीं होतीं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपना विनाश करके ही सुख की दासता में आबद्ध होते हैं। विनाश का अर्थ है — चिन्मय-नित्य जीवन से विमुक्त होकर जड़ता में आबद्ध होना।

जब तक हम अपने को पराधीन नहीं बना लेते, तब तक भी सुख-भोग की सिद्धि नहीं होती। यद्यपि पराधीनता किमी को अभीष्ट नहीं है, परन्तु सुख के लालच ने हमें अग्नी नित्य स्वाधीनता से विमुक्त कर दिया है। सुख की प्रतीति किसी न किसी संयोग से होती है। प्रत्येक संयोग स्वभाव से ही वियोग में विलीन होता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि संयोग की दासता ही हमें पराधीन बनाती है और वियोग के भय में आबद्ध करती है। इतना ही नहीं नित्य योग से विमुक्त कर देती है, जो वास्तव में जीवन है।

क्या हम हृदयहीन बिना हुये सुख का भोग कर सकते हैं ? कदापि नहीं। सुख-भोग में प्रवृत्ति तभी होती है, जब हम दुखियों की ओर से विमुक्त हो जाते हैं। दुखियों को बिना अपनाये क्या हृदय में

करुणा उदय हो सकती है ? करुणा के बिना क्या आसक्ति मिट सकती है ? अनासक्ति के बिना क्या कोई उदार हो सकता है ? उदारता के बिना क्या कोई महान् हो सकता है ? महान्ता के बिना क्या कोई अमरत्व प्राप्त कर सकता है ? कदापि नहीं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई हृदयशील प्राणी सुख नहीं भोग सकता। हाँ, यह अवश्य है कि सुख का सदुपयोग कर सकता है।

सुख का सदुपयोग सेवा है, क्योंकि सेवा के बिना सुख-भोग की आसक्ति मिट नहीं सकती। पर, सेवा वही कर सकता है, जिसका हृदय पराये दुःख से भरा रहे। सेवा का अर्थ किसी का दुःख मिटाना नहीं है, अपितु अपना सुख बाँटना है। सुख के व्यय होने पर राग-निवृत्त हो जाता है और हृदय त्याग तथा प्रेम से भर जाता है। त्याग से चिर शान्ति और प्रेम से अगाध-अनन्त रस स्वतः प्राप्त होता है, जो मानव की माँग है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है, कि सुख-भोगने से तो अनेक दोष उत्पन्न होते हैं और सेवा-द्वारा सुख का सदुपयोग करने से प्राणी का कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण होता है, जो वास्तव में मानव-जीवन है।

सुख का सदुपयोग करने में वे ही समर्थ हो सकते हैं, जो उस दुःख को अपना लेते हैं, जिसमें दूसरों का हित तथा प्रसन्नता निहित हो और उन दुःख का त्याग कर देते हैं, जिसका जन्म किसी के अहित से हो। अतः हमें मायधानीपूर्वक उन दुःख का त्याग करने के लिए सर्वदा प्रयत्न करना चाहिये, जिसमें दूसरों का हित हो और उन दुःख को महर्षि स्वयं लेना चाहिये, जिसमें दूसरों का विह्वल हो।

प्रकार के अभावों, क्लेशों तथा द्विपत्तियों से निरन्तर पीड़ित है, तो फिर उसको अपना मान कर कौन सुखी हो सकता है ? अर्थात्, कोई नहीं। संसार को अपना मान कर तो संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपने-से दुखियों को भेंट कर सकता है, सुख नहीं भोग सकता, जो वास्तव में ईमानदारी है।

हम अपना अस्तित्व खोकर ही शरीर आदि वस्तुओं द्वारा सुख भोगते हैं, अर्थात् जब तक हम वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि से अपना मूल्य नहीं घटा लेते हैं, तब तक वे हमें सुखद प्रतीत नहीं होतीं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपना विनाश करके ही सुख की दासता में आबद्ध होते हैं। विनाश का अर्थ है — चिन्मय-नित्य जीवन से विमुक्त होकर जड़ता में आबद्ध होना।

जब तक हम अपने को पराधीन नहीं बना लेते, तब तक भी सुख-भोग की सिद्धि नहीं होती। यद्यपि पराधीनता किसी को अभीष्ट नहीं है, परन्तु सुख के लालच ने हमें अपनी नित्य स्वाधीनता से विमुक्त कर दिया है। सुख की प्रतीति किसी न किसी संयोग से होती है। प्रत्येक संयोग स्वभाव से ही वियोग में विलीन होता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि संयोग की दासता ही हमें पराधीन बनाती है और वियोग के भय में आबद्ध करती है। इतना ही नहीं नित्य योग से विमुक्त कर देती है, जो वास्तव में जीवन है।

क्या हम हृदयहीन बिना हुये सुख का भोग कर सकते हैं ? कदापि नहीं। सुख-भोग में प्रवृत्ति तभी होती है, जब हम दुखियों की ओर से विमुक्त हो जाते हैं। दुखियों को बिना अपनाये क्या हृदय में

करुणा उदय हो सकती है ? करुणा के बिना क्या आसक्ति मिट सकती है ? अनासक्ति के बिना क्या कोई उदार हो सकता है ? उदारता के बिना क्या कोई महान् हो सकता है ? महान्ता के बिना क्या कोई अमरत्व प्राप्त कर सकता है ? कदापि नहीं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई हृदयशील प्राणी सुख नहीं भोग सकता। हाँ, यह अवश्य है कि सुख का सदुपयोग कर सकता है।

सुख का सदुपयोग सेवा है, क्योंकि सेवा के बिना सुख-भोग की आसक्ति मिट नहीं सकती। पर, सेवा वही कर सकता है, जिसका हृदय पराये दुख से भरा रहे। सेवा का अर्थ किसी का दुख मिटाना नहीं है, अपितु अपना सुख बाँटना है। सुख के व्यय होने पर राग-निवृत्त हो जाता है और हृदय त्याग तथा प्रेम से भर जाता है। त्याग से चिर शान्ति और प्रेम से अगाध-अनन्त रस स्वतः प्राप्त होता है, जो मानव की माँग है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है, कि सुख-भोगने से तो अनेक दोष उत्पन्न होते हैं और सेवा-द्वारा सुख का सदुपयोग करने से प्राणी का कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण होता है, जो वास्तव में मानव-जीवन है।

सुख का सदुपयोग करने में वे ही समर्थ हो सकते हैं, जो उस दुःख को अपना लेते हैं, जिसमें दूसरों का हित तथा प्रसन्नता निहित हो और उस सुख का त्याग कर देते हैं, जिसका जन्म किसी के अहित से हो। अतः हमें सावधानीपूर्वक उस सुख का त्याग करने के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहना चाहिये, जिससे दूसरों का हास हो और उस दुःख को सहर्ष अपना लेना चाहिये, जिसमें दूसरों का विकास हो।

अब विचार यह करना है कि यह सामर्थ्य कब आयेगी; जिससे हम उस सुख को न अपनायें, जिसमें दूसरों का अहित है, अपितु उस दुख को अपनायें, जिसमें दूसरों का हित निहित है, तो कहना होगा कि वह सामर्थ्य उन्हीं साधकों में आती है, जिनकी प्रत्येक चेष्टा ज्ञानपूर्वक होती है। ज्ञानपूर्वक की हुई प्रवृत्ति अहित से हित की ओर ले जाती है। यदि हम प्राकृतिक रचना का यथेष्ट अध्ययन करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्मेन्द्रियों का उचित कार्य ज्ञानेन्द्रियों के प्रकाश में ही होता है। ज्ञानेन्द्रियाँ संकल्प के अनुरूप ही कार्य करती हैं, संकल्प में शुद्धता विवेकवती बुद्धि द्वारा आती है और बुद्धि का ज्ञान उस अनन्त नित्य ज्ञान से ही प्रकाशित होता है। अतः हमारा प्रत्येक कर्म ज्ञान के प्रकाश में ही होना चाहिये।

निजज्ञान का आदर करने पर प्रमाद शेष नहीं रहता, उसके मिटते ही हमें अपने कर्त्तव्य का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और फिर हम बड़ी ही सुगमतापूर्वक वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग कर सकते हैं। वर्तमान का सुधार होते ही बुरे संकल्प मिट जाते हैं और भले संकल्प स्वतः दूरे हो जाते हैं तथा निर्विकल्पता आ जाती है। ज्यों-ज्यों निर्विकल्पता सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों आवश्यक शक्ति का विकास और उत्तरोत्तर पवित्रता स्वतः आती जाती है। पूर्ण पवित्रता आ जाने पर प्राप्त शक्ति का सदुपयोग होने लगता है और फिर सभी निर्बलताएँ स्वतः मिटने लगती हैं, अर्थात् अपने बनाए हुए सभी दोष मिट जाते हैं। निर्दोषता आते ही गुणों का अभिमान भी गल जाता है और फिर सीमित अहम भाव शेष नहीं रहता।

उसके मिटते ही दिव्य-चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान के सुधार में ही अपना हित निहित है।

पवित्रता आ जाने पर बुराई करने की तो कौन कहे, अपने प्रति होने वाली बुराई के बदले में भी भलाई करने की प्रवृत्ति होती है। इतना ही नहीं, अपने प्रति की हुई बुराई को भी वह अपना ही दोष मानता है, दूसरे का नहीं और अपने द्वारा होने वाली भलाई को अपना गुण न मानकर दूसरों का अधिकार ही मानता है। अथवा यों कहो कि अपवित्रता मिट जाने पर बुराई उत्पन्न नहीं होती और भलाई स्वतः होने लगती है। और, फिर समस्त विश्व एक जीवन से भिन्न कुछ नहीं मालूम होता। सेवा, त्याग और प्रेम जीवन हो जाता है, करना नहीं होता, कारण कि पवित्रता अनन्त का स्वभाव है, कर्म नहीं। अतः पवित्रता प्राप्त करने के लिए सुख की दासता का त्याग कर वर्तमान का सदुपयोग करना अनिवार्य हो जाता है, जो वास्तव में मानव-जीवन है। ॐ

---



## १६

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

हमारा जो माना हुआ अहंभाव है, वह एक प्रकार की भूख है और वह भूख तीन भागों में विभाजित है। या तो हम अपने किसी अधिकार की रक्षा के लिए भूखे हैं, अथवा रस पाने के लिए भूखे हैं, अथवा किसी सन्देह को निवृत्ति के लिए भूखे हैं। ये तीनों प्रकारों की भूख मिटाने के लिए मानव-मात्र को प्राकृतिक विधान के अनुसार क्रिया-शक्ति, भाव-शक्ति और विवेक-शक्ति मिली है।

मिली हुई शक्ति के सदुपयोग का नाम ही साधन है। साधन उसे ही कहते हैं, जिसके करने में साधक समर्थ हो और कर लेने पर साधक की भूख मिट जाय, अर्थात् वह तृप्त तथा सन्तुष्ट हो जाय। क्रिया-शक्ति का सदुपयोग श्रम, संयम एवं सदाचारपूर्वक दूसरों के अधिकार की रक्षा करने में है; भाव-शक्ति का सदुपयोग हृदय को प्रेम तथा सेवा-भाव से परिपूर्ण करने में है और विवेकशक्ति का सदुपयोग अविवेक की निवृत्ति तथा निराभिमानता में है। क्रियाशक्ति का उपयोग तथा संबन्ध शरीर से है और भावशक्ति का उपयोग तथा सम्बन्ध हृदय से है और विश्वास से उसकी पुष्टि होती है, तथा विवेक अलौकिक तत्त्व है, जिसका उपयोग बुद्धि से होता है।

क्रियाशक्ति को विकसित करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि साधक श्रम का आदर करे; क्योंकि श्रम से ही संयम का जन्म होता है और उसकी पुष्टि होती है। आलस्य से न तो क्रियाशक्ति का विकास होता है और न जीवन में संयम ही आता है। यह आलस्य का रोग दूसरों पर शासन करने से होता है, अथवा यों कहो कि जड़ता आने से होता है, अथवा सिक्के का महत्त्व बढ़ने तथा उसके संग्रह होने से होता है। आलस्य से विलास और विलास से दुराचार में प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत श्रम से संयम और संयम से सदाचार प्राप्त होता है। सदाचार-युक्त जीवन की समाज को सदैव आवश्यकता रहती है। यह नियम है कि जिसको जिसकी आवश्यकता होती है, वह उसका आदर भी करता है और उसकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता मान लेता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सदाचारयुक्त जीवन होने पर समाज में व्यक्ति को यथेष्ट स्थान मिलता है और उसके बिना ही माँगे उसके अधिकार सुरक्षित रहते हैं। कारण, अधिकार कर्त्तव्य का दास है। सदाचारी की पहिचान यही है कि सदाचारी उस सुख का स्वीकार नहीं करता, जिसका जन्म किसी के दुःख तथा अहित से हो, अपितु उस दुःख को सहर्ष अपना लेता है, जिसका जन्म दूसरों के हित तथा प्रसन्नता से होता हो। यह प्राकृतिक नियम है कि जिस सुख तथा विकास का जन्म किसी दुःख तथा हास से होता है, वह कालान्तर में घोर दुःख बन जाता है। तथा अवनति और हास का कारण हो जाता है। और, जिस दुःख का जन्म दूसरों के हित तथा प्रसन्नता से होता है, वह कालान्तर में

चिन्मय आनन्द से अभिन्न कर देता है । इसीलिए सदाचारी उस सुख को नहीं अपनाते, जिससे दूसरों का अहित हो, प्रत्युत् उस दुःख को अपना लेते हैं, जिससे दूसरों का हित हो ।

यह सभी जानते हैं कि कोई भी मानव विश्वास-रहित नहीं होता । किसी का अविश्वास अपने पर, किसी का देहादि भौतिक वस्तुओं पर और किसी का अपने प्रेमास्पद पर होता है । यह नियम है कि जिसका जिस पर विश्वास होता है, उसका उससे सम्बन्ध हो जाता है और जिससे सम्बन्ध होता है उससे प्रियता स्वतः हो जाती है । जिनका अपने पर विश्वास होता है, उनमें आत्मरति, जिनका विश्वास देहादि भौतिक वस्तुओं पर होता है, उनमें आसक्ति तथा जिनका विश्वास अपने प्रेमास्पद पर होता है, उनमें प्रीति सदा निवास करती है । आत्मरति से स्वाधीनता, आसक्ति से पराधीनता और प्रीति से नित-नव रस स्वतः प्राप्त होता है । साधनदृष्टि से आत्मविश्वास, भगवद्-विश्वास तथा कर्त्तव्यविश्वास ही सार्थक सिद्ध होते हैं । आत्म-विश्वास से अध्यात्मवादी, भगवद्-विश्वास से आस्तिकवादी और कर्त्तव्य से भौतिकवादी मन्तुष्ट होता है । अन्तर केवल इतना है कि कर्त्तव्य-विश्वास भौतिकवादी का तो माध्य है और आस्तिकवादी तथा अध्यात्मवादी का साधन है । इन तीनों वादों का समूह मानव-जीवन है ।

विवेकशक्ति का सदुपयोग करने पर अविवेक मिट जाता है । अविवेक मिटते ही अचाह-पद प्राप्त होता है । अचाह-पद प्राप्त होते ही निराभिमानता आ जाती है । निराभिमानता आने पर अनन्त-

नित्य-चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है। और, फिर सर्वात्म-भाव; भगवद्-प्रेम तथा विश्वप्रेम स्वतः सिद्ध हो जाता है और किसी प्रकार की भूख शेष नहीं रहती।

भौतिकवादी पहले परिस्थिति का सदुपयोग करता है। यह नियम है कि परिस्थिति का सदुपयोग करने से विवेक जागृत होता है और फिर भावशक्ति स्वतः शुद्ध हो जाती है अर्थात् प्रेम से जीवन परिपूर्ण हो जाता है। अध्यात्मवादी प्रथम निज-ज्ञान का आदर करता है, जिससे मोहरहित हो जाता है और फिर परिस्थिति का सदुपयोग और प्रेम की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। आस्तिकवादी प्रथम अनेक सम्बन्ध और अनेक विश्वास को त्याग अपने प्रभु से नित्य सम्बन्ध स्वीकार कर लेता है और फिर उन्हीं के नाते परिस्थिति का सदुपयोग कर निर्मोहता तथा परम प्रेम प्राप्त कर लेता है।

साधनयुक्त जीवन, अर्थात् मानव-जीवन में तीनों वाद किसी न किसी अंश में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि कर्त्तव्यपरायणता जिज्ञासा तथा प्रेम सभी को अभीष्ट है। इतना ही नहीं, कर्त्तव्यपरायणता के लिए आवश्यक विषय का ज्ञान एवं भाव-शुद्धि अपेक्षित होती है। इसी प्रकार भाव-शुद्धि के लिए ज्ञान तथा कर्त्तव्यपरायणता अपेक्षित होती है; क्योंकि कर्त्तव्यपरायणता के बिना भाव में दृढ़ता नहीं आती। जैसे; कोई सत्यवादी होने का भाव रखता है, तो उसको सत्य बोलना ही अनिवार्य हो जाता है और सत्य का उसे ज्ञान भी हो जाता है, विवेकी को भी भाव एवं कर्त्तव्यपरायणता की अपेक्षा होती है, क्योंकि कर्त्तव्यपरायणता के बिना राग की निवृत्ति नहीं हो सकती।

और भाव के बिना निष्ठा नहीं होती। अन्तर केवल इतना होता है कि किसी साधक में इन तीन में से किसी एक की प्रधानता से साधन आरम्भ होता है। परन्तु, साधनपरायणता आ जाने पर तीनों का समावेश हो जाता है, क्योंकि समस्त जीवन एक है, अनेक नहीं।

समस्त जीवन-साधन बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि जागृति से लेकर सुषुप्ति तक और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त प्रत्येक कार्य सुख-बुद्धि तथा भोग-बुद्धि को त्याग हित-बुद्धि तथा साधन-बुद्धि से करना चाहिए। पर, यह तभी सम्भव होगा, जब प्रत्येक कार्य, कार्य-कशलता, अर्थात् उसके करने का सही ढंग तथा भाव की पवित्रता एवं लक्ष्य पर दृष्टि रखकर किया जाय। एक कार्य करते समय दूसरे कार्य का चिन्तन न करने से प्राप्त कार्य में पूरी शक्ति लग जाती है। यह नियम है कि मन जिस कार्य में जितनी एकाग्रता के साथ लगता है, उस कार्य के अन्त में अपने आप उससे पूरा हो जाता है और जब तक दूसरा कार्य प्रारम्भ नहीं होता, उस बीच की अवस्था में योगी को योग, प्रेमी को प्रेम और विचारक को विचार प्राप्त होता है। कार्य के आदि और अन्त में जो स्थिति है, वह साधक की वास्तविक स्थिति है। एक कार्य पूरा होने पर जब तक दूसरा कार्य आरम्भ नहीं होता, उससे पूर्व जो स्थिति है, उसमें किसी प्रकार का व्यर्थ चिन्तन नहीं होना चाहिए। कारण, व्यर्थ चिन्तन का साधनयुक्त जीवन में कोई स्थान नहीं है। निर्मोहतापूर्वक पवित्र भाव से वर्तमान का सदुपयोग करना अनिवार्य है। वर्तमान का सदुपयोग करने पर परिस्थिति से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और फिर साधक उसी की

और गतिशील होता है, जो उसका लक्ष्य है। लक्ष्य से देश-काल की दूरी नहीं है, केवल व्यर्थ चिन्तन का आवरण ही साधक को, उससे अभिन्न नहीं होने देता। यदि व्यर्थ-चिन्तन का अन्त कर दिया जाय, तो प्रत्येक साधक सुगमतापूर्वक अपने लक्ष्य से अभिन्न हो सकता है।

लक्ष्य वह नहीं हो सकता, जिसका वियोग हो और लक्ष्य वह भी नहीं हो सकता, जिसकी प्राप्ति न हो सके। इस दृष्टि से कोई भी परिस्थिति लक्ष्य नहीं हो सकती, परन्तु प्रत्येक परिस्थिति लक्ष्य-प्राप्ति का साधन हो सकती है। यह तभी सम्भव होगा, जब प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग अपने लक्ष्य के ही नाते, योग्यता, ईमानदारी तथा परिश्रमपूर्वक किया जाय। ऐसा करने पर समस्त जीवन साधन बन जावेगा।

जब साधक अपनी मान्यता को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तब जिज्ञासा दब जाती है और मान्यता ही सत्य प्रतीत होने लगती है। जब साधक विश्वास को व्यक्ति और वस्तुओं में लगा देता है, तब मोह और लोभ में आवद्ध हो जाता है। जब साधक कर्त्तव्यपरायणता को सुख-भोग की साधना मान लेता है, तब राग द्वेष में फँस जाता है। मान्यता में मृत्यु आते ही अविवेक दृढ़ हो जाता है, जो देहादि में 'अहं' बुद्धि स्थापित कर देता है। अपने को देह मान लेने पर अनेक वस्तुओं तथा व्यक्तियों से सम्बन्ध हो जाता है, जो ममता को दृढ़ कर देता है और फिर स्वार्थयुक्त प्रवृत्तियाँ होने लगती हैं, जो वास्तव में असाधन हैं। यदि विवेक से अविवेक का अन्त कर दिया जाय, तो साधक तीनों शरीरों से अतीत अपने निजस्वरूप

से अभिन्न हो जाता है, अथवा यों कहो कि मृत्यु से अतीत अमर जीवन को प्राप्त कर लेता है ।

व्यक्ति और वस्तु विश्वास करने की चीज नहीं है । वस्तुओं का सदुपयोग करना है और व्यक्तियों की सेवा करनी है । यह तभी सम्भव होगा, जब साधक सभी को या तो अपना स्वरूप जाने या सभी में अपना प्रभु देखे अथवा सारा विश्व एक है, ऐसा अनुभव करे ।

निर्मोहता, प्रेम तथा कर्त्तव्यपरायणता अपना लेने पर समस्त जीवन साधन बन जावेगा । जिससे सीमित अहं भाव सदा के लिए मिट जावेगा । और, फिर शरीर विश्व के काम आ जावेगा, हृदय में प्रीति की गंगा लहराएगी और निराभिमानतापूर्वक अनन्त-नित्य-चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जावेगी, जो मानव का लक्ष्य है ।

यद्यपि बीजरूप से तत्त्वजिज्ञासा तथा प्रेम की लालसा मानवमात्र में विद्यमान है, परन्तु तत्त्वजिज्ञासा की जागृति उन्हीं साधकों में होती है, जिन्होंने अपने कर्त्तव्य से समाज के अधिकारों की रक्षा की हो और उसके बदले में सुखभोग न किया हो, अथवा उन्हें होती है, जिनके जीवन में अत्यन्त दुःख हो और दुःख से भयभीत होकर हार स्वीकार न की हो; क्योंकि इन दोनों के मोहजनित सम्बन्ध शिथिल हो जाते हैं और सुखभोग में प्रवृत्ति नहीं रहती है । तत्त्वजिज्ञासा जागृत होने पर जब साधक उसके बिना किसी प्रकार चैन से रह नहीं सकता; अर्थात् जब वह उसकी वर्तमान समस्या बन जाती है, तब उसकी स्वतः पूर्ति हो जाती है । जैसे, यदि जिज्ञासु

को प्रयास लगी हो; तो वह पानी पीने से पूर्व अपनी जिज्ञासापूर्ति के लिए अधीर हो जाय। वर्तमान समस्या उसे कहते हैं, जो सभी प्रवृत्तियों को खा लेती है और जीवन अप्रयत्न हो जाता है। वस, उसी काल में जिज्ञासा की पूर्ति स्वतः हो जाती है और फिर जीवन में एक अपूर्व परिवर्तन स्वतः हो जाता है। किसी प्रकार की चाह तथा चिन्तन शेष नहीं रहते। समस्त जीवन ज्ञान तथा प्रेम का प्रतीक हो जाता है।

अप्रयत्न जीवन का अर्थ कोई आलस्य तथा जड़ता न समझ बैठे। आलस्य व्यर्थ चिन्तन उत्पन्न करता है। जड़ता चेतना-शून्य कर देती है, किन्तु अप्रयत्न जीवन तो सहज निवृत्ति तथा चेतनायुक्त होता है, वह साधक को सत्य के दरवाजे तक पहुँचा देती है। अथवा यों कहो कि सत्य के दरवाजे पर पहुँचने पर ही अप्रयत्न जीवन प्राप्त होता है। उसके पश्चात् सत्य स्वयं अपने को उस पर न्यौछावर कर देता है। असत्य की विमुखता साधक को सत्य के दरवाजे तक पहुँचाने में समर्थ है। यही साधक का अन्तिम पुरुषार्थ है।

यद्यपि साधनयुक्त जीवन में चाह और चिन्तन का कोई स्थान नहीं है, किन्तु व्यर्थ चिन्तन मिटाने के लिए तत्त्वचिन्तन तथा भगवद्चिन्तन की चर्चा की जाती है, चाह और चिन्तन का जन्म अविवेक सिद्ध है, अथवा यों कहो कि कर्त्तव्यपरायण न रहने से होता है। विवेक का आदर करने पर सब प्रकार की चाह तथा चिन्तन मिट जाता है और साधक को स्वतः तत्त्व साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि सत्य से देश-काल की दूरी नहीं है। मोह जनित सम्बन्ध तथा



ममता का त्याग करते ही विषय-चिन्तन मिटकर भगवद्-चिन्तन स्वतः उत्पन्न होता है। जब तक साधक को चिन्तन करना पड़ता है, तब तक साधक को समझना चाहिए कि अभी प्रमास्पद से सरल विश्वास-पूर्वक नित्य सम्बन्ध की स्वीकृति नहीं हुई।

चिन्तन तथा प्रीति में अन्तर यह है कि चिन्तन तो उस समय तक होता रहता है, जब तक साधक अचिन्त नहीं हो जाता है। सार्थक चिन्तन तब तक होता रहता है, जब तक साधक अपने लक्ष्य से किसी प्रकार की दूरी अनुभव करता है। ज्यों-ज्यों दूरी मिटती जाती है, त्यों-त्यों चिन्तन अचिन्तता में बदलता जाता है। पूर्ण अचिन्तता आते ही प्रीति उदय होती है और वह स्वभावतः उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, उसके लिए कोई श्रम अपेक्षित नहीं है।

प्रीति उदय होने पर समस्त जीवन प्रीति से परिपूर्ण हो जाता है और फिर किसी प्रकार का अवस्था-भेद होने पर भी रस में भेद नहीं रहता, अर्थात् प्रवृत्ति और निवृत्ति का समान अर्थ हो जाता है, जिसके होते ही समस्त जीवन साधन बन जाता है।

समस्त जीवन साधन बनाने के लिए प्रत्युपकार की आशा के बिना दूसरों के अधिकार की रक्षा और तत्त्वजिज्ञासा की पूर्ति तथा प्रेम की प्राप्ति करना परम अनिवार्य हो जाता है। यही मानव का परम पुरुषार्थ है। ॐ आनन्द

१७

मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव !

अपनी योग्यता तथा रुचि के अनुसार साधन-निर्माण करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि सुख-दुख के आक्रमणों से अपने को उद्विग्न, अर्थात् च्युद्ध न होने दे; कारण कि क्षोभयुक्त दशा में किसी को भी अपने कर्त्तव्य का यथेष्ट ज्ञान सम्भव नहीं है।

अब विचार यह करना है कि हम सुख तथा दुख के आक्रमणों से क्षोभित क्यों होते हैं ? तो, कहना होगा कि अनुकूलता का लालच और प्रतिकूलता का भय ही हमें क्षोभित कर देता है। यद्यपि साधनयुक्त जीवन में किसी प्रकार का लालच तथा भय अपेक्षित नहीं है, कारण कि लालच के रहते हुए कभी स्वाधीनता का दर्शन नहीं हो सकता तथा भय के रहते हुए कभी चिर शान्ति नहीं मिल सकती यह सभी को मान्य होगा कि पराधीनता तथा अशान्ति किसी को भी अभिष्ट नहीं है। इस दृष्टि से लालच तथा भय का मानव-जीवन में कोई स्थान नहीं है। और, न इनकी कोई आवश्यकता ही है; क्योंकि लालचमात्र करने से कोई अनुकूलता आ नहीं जाती और भयभीत होने से कोई प्रतिकूलता मिट नहीं जाती। लालच से तो केवल वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि की दासता ही उत्पन्न होती है,